

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 160]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 27 मार्च 2014—चैत्र 6, शक 1936

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2014

फा. क्र. 17(ई) 61-2014-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिला श्योपुर, मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, जबलपुर, डिण्डौरी, मण्डला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, छिन्दवाड़ा, बैतूल एवं हरदा (कुल 30 जिले) हेतु लोकसभा निर्वाचन 2014 में निर्वाचन कार्य सम्पादित कराने के लिये, संलग्न सूची में उल्लिखित अधिकारियों को दिनांक 15 मार्च 2014 से दिनांक 16 मई 2014 तक सम्पूर्ण जिले के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शिवचरण पाण्डेय, अपर सचिव.

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, निर्वाचन सदन भोपाल						
जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा दिए गये प्रस्ताव अनुसार लोक सभा चुनाव 2014 हेतु विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारियों की शक्तियाँ प्रदान करने हेतु सूची						
जिले का नाम	सरल क्रमांक	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र का नाम जिसके लिए विशेष कार्यपालिका दंडाधिकारी की शक्तियाँ दिया जाना है
1	2	3	4	5	6	7
श्यापुर	1	राकेश अग्रवाल	कार्यपालन यंत्री	जल संसाधन श्यापुर	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	2	सी एन मिश्रा	कार्यपालन यंत्री	ग्रामीण यांत्रिय सेवा श्यापुर	ग्रामीण यांत्रिय सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	3	पी आर इटोरिया	अनुविभागीय अधिकारी	ग्रामीण यांत्रिय सेवा श्यापुर	ग्रामीण यांत्रिय सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	4	एन आर गोडिया	कार्यपालन यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्यापुर	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	5	जी पी अहिरवार	अनुविभागीय अधिकारी	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्यापुर	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	6	बी डी अहिरवार	श्रम पदाधिकारी	श्रम विभाग श्यापुर	श्रम विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	7	संजय भारद्वाज	जिला कार्यक्रम अधिकारी	महिला बाल विकास श्यापुर	महिला बाल विकास	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	8	ए के जैन	रैज ऑफिसर	वन विभाग श्यापुर	वन विभाग श्यापुर	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	9	एस के बंसल	सब इंजीनीयर	लोक निर्माण विभाग श्यापुर	लोक निर्माण	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	10	प्रमोद शर्मा	खनिज अधिकारी	खनिज विभाग श्यापुर	खनिज विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	11	टी के कटारे	प्रबंधक	उद्योग विभाग श्यापुर	उद्योग विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	12	आर एस क्योरिया	डी डी ए	आत्मा श्यापुर	कृषि विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	13	एस के शारदा	उपयंत्री	ग्रामीण यांत्रिय सेवा श्यापुर	ग्रामीण यांत्रिय सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	14	आर के हरदेनिया	सहायक यंत्री	ग्रामीण यांत्रिय सेवा श्यापुर	ग्रामीण यांत्रिय सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	15	पुष्पेन्द्र कुमार कुशवाह	सहायक पंजीयक	सहकारी समितियाँ	सहकारिता विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	16	गिराज पराशर	जिला विपणन अधिकारी	जिला विपणन अधिकारी श्यापुर	सहकारिता विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	17	ज्ञान सिंह तोमर	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी	कृषि विभाग	कृषि विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	18	राम अवतार कौशिक	प्रबंधक	प्रधान मंत्री सड़क योजना	ग्रामीण यांत्रिय सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	19	एम के शर्मा	उप संचालक	पशु चिकित्सा अधिकारी	पशु चिकित्सा सेवायें श्यापुर	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	20	नवीन कुमार शाक्य	अनुविभागीय अधिकारी	जल संसाधन बड़ोदा	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	21	रामगीर सिंह भदोरिया	नोडल अधिकारी	कॉर्पोरेटिव बैंक श्यापुर	सहकारिता	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	22	महेश सिंह	पशु चिकित्सा अधिकारी	पशु चिकित्सा सेवायें श्यापुर	पशु चिकित्सा सेवायें	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
श्योंपुर	अलोक वर्मा		अनुविभागीय अधिकारी	वन विभाग श्योंपुर	वन विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्योंपुर	श्रीदीन साकेत		रेज ऑफिसर	वन विभाग श्योंपुर	वन विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्योंपुर	राजेंद्र कुमार सोलंकी		वन परिक्षेत्राधिकारी	वन विभाग श्योंपुर	वन विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्योंपुर	एस के जैन		अनुविभागीय अधिकारी	जल संशाधन श्योंपुर	जल संशाधन	संपूर्ण जिले के लिए
श्योंपुर	राजेश अग्रवाल		महिला सशक्तिकरण अधिकारी	महिला बाल विकास श्योंपुर	महिला बाल विकास	संपूर्ण जिले के लिए
श्योंपुर	एल एन आयरबल		पशु चिकित्सक	पशु चिकित्सा सेवायें श्योंपुर	पशु चिकित्सा सेवायें	संपूर्ण जिले के लिए
श्योंपुर	सीताराम कौशिक		कार्यपालन यंत्री	अन्त्यव्यवसायी	उदद्योग	संपूर्ण जिले के लिए
श्योंपुर	आर एन शर्मा		रेज ऑफिसर	वन विभाग श्योंपुर	वन विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्योंपुर	एस के माहोर		उप संचालक	कृषि विभाग श्योंपुर	कृषि	संपूर्ण जिले के लिए
श्योंपुर	शेलेन्द्र सिंसोदिया		परियोजना अधिकारी	एन आर एल पी श्योंपुर	ग्रामीण विकास	संपूर्ण जिले के लिए
श्योंपुर	आर के मीना		संभागीय लेखाधिकारी	लोक निर्माण विभाग श्योंपुर	लोक निर्माण विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्योंपुर	पी आर गोयल		अनुविभागीय अधिकारी	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्योंपुर	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	संपूर्ण जिले के लिए
श्योंपुर	आर पी सविता		उपयंत्री	जल संशाधन श्योंपुर	जल संशाधन	संपूर्ण जिले के लिए
श्योंपुर	एन एन शर्मा		उपयंत्री	जल संशाधन श्योंपुर	जल संशाधन	संपूर्ण जिले के लिए
श्योंपुर	महेश कुमार पांड्य		परियोजना अधिकारी	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कराहल	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना	संपूर्ण जिले के लिए
श्योंपुर	के एस शर्मा		अनुविभागीय अधिकारी	ग्रामीण यां; सेवा विजयपुर	ग्रामीण विकास	संपूर्ण जिले के लिए
श्योंपुर	जे पी गुप्ता		प्रबंधक	नागरिक आपूर्ति निगम श्योंपुर	नागरिक आपूर्ति निगम	संपूर्ण जिले के लिए
श्योंपुर	सी पी एस चौहान		अनुविभागीय अधिकारी	ग्रा या से करारहल	ग्रा या से	संपूर्ण जिले के लिए
श्योंपुर	वाय एस जाडौन		सहायक अधिकारक	भू अभिलेख श्योंपुर	भू अभिलेख	संपूर्ण जिले के लिए
श्योंपुर	आर सी शाक्य		अनुविभागीय अधिकारी	ग्रा या से श्योंपुर	ग्रा या से	संपूर्ण जिले के लिए
श्योंपुर	चंद्रशेखर शर्मा		उपयंत्री	लो नि वि बरोदा	लो नि वि	संपूर्ण जिले के लिए
श्योंपुर	जे पी शर्मा		अनुविभागीय अधिकारी	वन विभाग विजयपुर	वन विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्योंपुर	गोविन्द मीना		सहायक संचालक	कृषि विभाग श्योंपुर	कृषि विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्योंपुर	डी एस गुप्ता		अनुविभागीय अधिकारी	जल संशाधन श्योंपुर	जल संशाधन	संपूर्ण जिले के लिए
श्योंपुर	व्ही एस सिकरवार		एस ए डी ओ	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी विजयपुर	ग्रामीण कृषि विस्तार	संपूर्ण जिले के लिए
श्योंपुर	एम के अगारयेया		उपयंत्री	जल संशाधन श्योंपुर	जल संशाधन	संपूर्ण जिले के लिए
श्योंपुर	एन एल मेहरा		उपयंत्री	जल संशाधन श्योंपुर	जल संशाधन	संपूर्ण जिले के लिए
श्योंपुर	आर एस जाट		उपयंत्री	जल संशाधन श्योंपुर	जल संशाधन	संपूर्ण जिले के लिए
श्योंपुर	अवध कुमार		उपयंत्री	जल संशाधन श्योंपुर	जल संशाधन	संपूर्ण जिले के लिए
श्योंपुर	बी पी झसया		प्रभारी सहायक संचालक	मत्स्योद्योग श्योंपुर	मत्स्योद्योग	संपूर्ण जिले के लिए
श्योंपुर	आर के शर्मा		सहायक मत्स्य अधिकारी	मत्स्योद्योग कार्यालय श्योंपुर	मत्स्योद्योग कार्यालय	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
श्यापुर	पी के श्रीवास्तव			लोक निर्माण विभाग श्यापुर	लोक निर्माण विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	सियाराम खेरोनिया		कार्यपालन यंत्री	लोक निर्माण विभाग श्यापुर	लोक निर्माण विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	आशीष भारती		सहायक यंत्री	लोक निर्माण विभाग बड़ौदा	लोक निर्माण विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	आर एल खरे		वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	सहकारी समितियाँ श्यापुर	सहकारिता विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	आर पी बरलिया		अभ्यक्षक अधिकारी	सहकारी समितियाँ श्यापुर	सहकारिता विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	गगाराम गुप्ता		वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	सहकारी समितियाँ श्यापुर	सहकारिता विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	राजाराम सुमन		जिला रोजगार अधिकारी	जिला रोजगार कार्यालय श्यापुर	रोजगार विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	ओ पी शर्मा		श्रम निरीक्षक	श्रम विभाग श्यापुर	श्रम विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	गुरुजीत सिंह		प्राचार्य	शिक्षा विभाग श्यापुर	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	वकील रावत		प्राचार्य	शिक्षा विभाग श्यापुर	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	एस के सोलंकी		प्राचार्य	शिक्षा विभाग श्यापुर	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	सीताराम आदिवासी		प्राचार्य	शिक्षा विभाग श्यापुर	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	ए के खण्डेलवाल		प्राचार्य	शिक्षा विभाग श्यापुर	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	शिवचरण लाल जाटव		प्राचार्य	शिक्षा विभाग श्यापुर	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	सत्यनारायण गर्ग		प्राचार्य	शिक्षा विभाग श्यापुर	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	पी आर दोहरे		प्राचार्य	शिक्षा विभाग श्यापुर	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	पी एन दुबे		प्राचार्य	शिक्षा विभाग श्यापुर	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	पी के श्रीवास्तव		प्राचार्य	शिक्षा विभाग श्यापुर	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	हरिगोविन्द सिंह तोमर		सहायक संचालक	आत्मा विभाग श्यापुर	कृषि विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	बैजनाथ शर्मा		सहायक यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा श्यापुर	ग्रामीण विकास विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	एन आर एस कश्यप		वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी	कृषि विभाग श्यापुर	कृषि विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	गिराज गोयल		सचिव	कृषि उपज मण्डी बड़ौदा	मण्डी बोर्ड	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	के एस इण्डोतिया		ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	कृषि विभाग श्यापुर	कृषि विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	आर बी एस चौहान		ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	कृषि विभाग श्यापुर	कृषि विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	के एस तोमर		ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	कृषि विभाग श्यापुर	कृषि विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	एस पी भार्गव		प्राचार्य	शिक्षा विभाग श्यापुर	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	जगमोहन सिंह चौहान		प्राचार्य	शिक्षा विभाग श्यापुर	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	विजय खरे		प्राचार्य	शिक्षा विभाग श्यापुर	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	दिनेश सिंह		प्राचार्य	शिक्षा विभाग श्यापुर	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	आर एस शर्मा		प्राचार्य	शिक्षा विभाग श्यापुर	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए



1	2	3	4	5	6	7
श्यापुर	84 विजय सिंह पिप्ल		प्राचार्य	शिक्षा विभाग श्यापुर	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	85 अजय शर्मा		प्राचार्य	शिक्षा विभाग श्यापुर	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	86 एस एस रावत		प्राचार्य	शिक्षा विभाग श्यापुर	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	87 एम पी पिपरैया		प्राचार्य	शिक्षा विभाग श्यापुर	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	88 व्ही एन त्यागी		वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी	कृषि विभाग श्यापुर	कृषि विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	89 आर सी जाटव		ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	कृषि विभाग श्यापुर	कृषि विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	90 आर के दीक्षित		ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	कृषि विभाग श्यापुर	कृषि विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	91 नरेन्द्र सिंह तोमर		सचिव	कृषि विभाग श्यापुर	कृषि विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	92 आर पी दोहरे		ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	कृषि विभाग श्यापुर	कृषि विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	93 बी एल धाकड		ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	कृषि विभाग श्यापुर	कृषि विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	94 आर एल सोलंकी		ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	कृषि विभाग श्यापुर	कृषि विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	95 मैथलीशरण गुप्ता		अनुविभागीय अधिकारी	जल संसाधन श्यापुर	जल संसाधन विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
श्यापुर	96 आर माणिकपुरी		आबकारी अधिकारी	जिला आबकारी विभाग श्यापुर	आबकारी विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	1 सोबरन सिंह तोमर		एस0डी0ओ0	कृषि कार्यालय मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	2 बीरेश कुमार शर्मा		एस0डी0ओ0	कृषि कार्यालय मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	3 आर0पी0 एस सेंगर		उपयंत्री	पी0एच0ई0 विभाग कैलारस	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	4 उमा शंकर शर्मा		पशु चिकित्सक,	पशु चिकित्सालय मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	5 के0आर0 अर्गल		प्राचार्य	शा0हाई स्कूल जाबरोल	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	6 पी0के0 अग्निहोत्री		प्राचार्य	शा0ड0मा0वि झण्डपुरा	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	7 रविन्द्र शर्मा		प्राचार्य	शा0हा0स्कू0 जीन फील्ड	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	8 भिवकीराम जादौन		प्राचार्य	शास0ड0मा0वि0 टेटरा	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	9 अवनीश कुमार शर्मा		सहा0 पशु चिकित्सा अधिकारी,	जिला पशु चिकित्सालय मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	10 सियाराम मटसोरिया		उपयंत्री	सिंचाई विभाग सबलगढ	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	11 दर्शनलाल रावत		बी0ई0ओ0	विकासखण्ड शिक्षा सबलगढ	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	12 ए0बी0 शर्मा		सहा0 यंत्री	जल संसाधन सबलगढ	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	13 दीपक तिवारी		पशु चिकित्सक	पशु चिकित्सालय मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	14 मोहसिन हसन		सहायक यंत्री	सिंचाई विभाग सबलगढ	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
मुरैना	15	एच0एस0 शाक्य	उप यंत्री	सिचाई विभाग सबलगढ	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	16	एल0एस0 चौबे	प्राचार्य	शास030मा0वि0 कन्या झुण्डपुरा	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	17	गणेशपाल सिंह जादौन	प्राचार्य	शा0 हाई स्कूल मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	18	तुलाराम शाक्य	प्राचार्य	शा050मा0वि030 सबलगढ	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	19	प्रकाश चंद्र शर्मा	उपयंत्री	जल संसाधन सबलगढ	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	20	एल एन शर्मा	प्राचार्य	शा050मा0वि0 सबलगढ	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	21	जालिम सिंह धाकड	बी ई ओ	विकासखण्ड शिक्षा कैलारस	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	22	पी0आर0 शाक्य	सह0 यंत्री	पी0एच0ई0 विभाग कैलारस	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	23	राममनि शर्मा	कार्यपालन यंत्री	जल संसाधन सबलगढ	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	24	रंजीत सिंह जादौन	प्राचार्य,	शास030मा0वि0 किशोरगढ	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	25	एस0पी0 दुबे	कार्यपालन यंत्री,	एम0पी0ई0बी0 सबलगढ	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	26	ब्रजेश कुमार पाण्डेय	उप यंत्री,	लाक स्वास्थ्य यात्रिकीय विभाग मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	27	ब्रजेश कुमार कुलश्रेष्ठ	उपयंत्री	कार्यालय जल संसाधन मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	28	शिवराज सिंह सिकरवार	उपयंत्री	कार्यालय जल संसाधन मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	29	महेश चन्द्र गुप्ता	उप यंत्री,	कार्यालय जल संसाधन मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	30	आर0एस0 शर्मा	कार्यपालन यंत्री	सिचाई विभाग सबलगढ	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	31	ई0के0 किशोर	वरिष्ठ वैज्ञानिक,	आंच0 कृषि अनु0 केन्द्र	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	32	जे0एस0 गुप्ता	वरिष्ठ वैज्ञानिक,	आंच0 कृषि अनु0 केन्द्र	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	33	प्रो0 ए0के0 उपाध्याय	सहायक प्राध्यापक,	शा0स्नातको0 30महावि0 मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	34	डा० वी0के0 तिवारी	वैज्ञानिक,	आंच0 कृषि अनु0 केन्द्र मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	35	जे0पी0 बंसल	उप यंत्री,	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन जौरा	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	36	व्ही0के0 सारस्वत	उप यंत्री,	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन जौरा	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	37	आर0एल0एस0 मौर्य	कार्यपालन यंत्री,	पी0एच0ई0 मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	38	संतोष कुमार सैंगर	प्राचार्य,	शा0 हाई स्कूल कन्या क्र0 2 मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	39	बी0के0 चौधरी	सह0 यंत्री	जनपद पंचायत कैलारस	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	40	आर0एस0 त्यागी	सह0 प्रबंधक,	पी0एन0जे0एस0वाय0 मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
मुरैना	डी0एस0 भदौरिया		श्रम अधिकारी,	श्रम विभाग मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	आर0पी0एस0 जोदौन		प्राचार्य,	शास030मा0वि0 उत्कृष्ट जोरा	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	एस0वी0 गर्ग		प्राचार्य,	शास0हाई स्कूल भंसरोली	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	कल्याण सिंह जाटव		प्राचार्य,	हाई स्कूल चांचिहा	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	एम0पी0 माहौर		सी0ई0ओ0,	अन्त्यवसायी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	आर0एल0 त्यागी		उप यंत्री,	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन जौरा	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	एस0के0 मिश्रा		उप यंत्री,	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन जौरा	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	डी0के0 शर्मा		प्राचार्य,	शास0हाई0स्कूल निठहरा	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	एस0एस0 गुर्जर		एस0ए0डी0ओ0,	कृषि विभाग पहाडगढ	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	बी0आर0 दोनरिया		प्राचार्य,	शास030मा0वि0 बानमौर	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	आर0सी0 उपाध्याय		सहा0 यंत्री	जल संसाधन जौरा	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	सविता सिंह चौहान		सहा0 आयुक्त,	वाणिज्य कर मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	डी0 अवस्थी		तकनीकी सहायक,	आंच कृषि अन्न0 केन्द्र मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	अनिल गुप्ता		कार्यपालन यंत्री,	सिंचाई विभाग जौरा	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	आर0एस0 भदौरिया		अधीक्षण यंत्री,	पी0एच0ई0 मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	आर0के0 राठौर		सहायक यंत्री,	जल संसाधन जौरा	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	आई0सी0 गुप्ता		प्राचार्य	शास030मा0वि0 सुमावली	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	एन0पी0 शर्मा		प्राचार्य	शास0 हाई स्कूल बरेंड	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	डी0के0 आर्य		प्राचार्य	शा0हाई स्कूल बघेल	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	बी0एस0 जोनवार		प्राचार्य	शास030मा0वि0 गोलहारी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	एस0के0 दीक्षित		प्राचार्य	शा0हाई स्कूल कुटरावली	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	रामवीर सिंह सिकरवार		प्राचार्य	शास030मा0वि0 30 कैलारस	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	बलवीर सिंह सिकरवार		प्राचार्य	शास0 30मा0वि0 कन्या कैलारस	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	एम0डी0 शर्मा		प्राचार्य	शा030मा0वि0 डिडोखर	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	बी0एस0 इन्दोलिया		प्राचार्य	शास0 हाई स्कूल सरसेनी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	एम0के0 शर्मा		प्राचार्य	शा030मा0वि0 सुजरमा	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	एम0पी0 भरद्वाज		सहायक यंत्री	जनपद पचायत पहाडगढ	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	पूरन सिंह भदौरिया		पशु चिकित्सक	पशु चिकित्सालय मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	केशव प्रसाद गुप्ता		पशु चिकित्सक	पशु चिकित्सालय मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	एम0के0 वर्मा		प्रबंधक	नागरिक आपूर्ति मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	रामजीलाल मोय		प्राचार्य	शास0 30मा0वि0 जी0डी0 जैन मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
मुरैना	72	एस0के0 सोनी	सहा0 यंत्री	आर0ई0एस0 मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	73	आर0के0 गुप्ता	सहायक यंत्री	एनआरजीईएस मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	74	पी0एल0 गोदिया	पंचायत एवं समाज सेवा निरीक्षक	जनपद पंचायत जौरा	राज्य स्तरीय	
मुरैना	75	के0 अहिरवार	एस0डी0ओ0	आर0ई0एस0 मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	76	मनीष सिंह	परियोजना अधिकारी	आई0सी0डी0एस0 मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	77	डी0एस0 यादव	परियोजना अधिकारी	आई0सी0डी0एस0 मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	78	जन्डेल सिंह गुर्जर	प्रौढ शिक्षा अधिकारी	प्रौढ शिक्षा कार्यालय मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	79	भालचन्द्र चव्हाण	अनुविभागीय अधिकारी	जल संसाधन मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	80	विवेक विचंकर	परियोजना अधिकारी	आई0सी0डी0एस0 जौरा	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	81	भदौरिया	कार्यपालन यंत्री	अक्षय उर्जा कार्यालय मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	82	योगेश दुबे	उप यंत्री	जल संसाधन मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	83	ए0के0 जैन	प्राचार्य	शास0उ0मा0वि0 क्र0 1 मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	84	चिनोद चन्द्र शर्मा	प्राचार्य	शा0उ0मा0वि0 मिरधान	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	85	आर0के0 पारशर	सहा0 यंत्री	जल संसाधन जौरा	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	86	सतेन्द्र सिंह भदौरिया	उप यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	87	एस0के0 जैन	सहा0 यंत्री	जल संसाधन जौरा	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	88	ए0के0 वर्मा	सहा0 यंत्री,	जल संसाधन जौरा	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	89	डी0एस0 गुर्जर	एस0ए0डी0ओ0	सहा0 क्राषि वेहद मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	90	श्रीकृष्ण समादिया	विकास खण्ड अधिकारी,	जनपद पंचायत मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	91	राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	एस0ए0डी0ओ0	उप संचालक मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	92	ए0के0 शर्मा	सहा0 यंत्री,	लोक निर्माण विभाग मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	93	राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	उप संचालक	पशु चिकित्सक मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	94	डी0एन0एस0 राठौर	कनिष्ठ यंत्री	उप महा प्रबंधक सं0स म0प्र0 म0क्षेत्र विधुत वितरण कम्पनी मुरैना प्रथम	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	95	प्रमोद सिंह कुशावाह	कनिष्ठ यंत्री,	उप महा प्रबंधक सं0स म0प्र0 म0क्षेत्र विधुत वितरण कम्पनी मुरैना प्रथम	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	96	राजीव भरट्टाज	उपयंत्री, कार्यपालन यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	97	अशोक सिंह तोमर	उपयंत्री,	कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	98	ई0एन0के0 शर्मा	तकनीकी सहायक,	आय क्राषि अनु0 केन्द्र	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	99	वाय0पी0 सिंह	कार्यक्रम समन्वयक,	आय क्राषि अनु0 केन्द्र	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
मुरैना	100	एस0एस0 सैंगर	सहायक प्राध्यापक,	शा0 स्नातको0 30महावि0 मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	101	एस0एन0एस0 मोहरा	संयुक्त संचालक,	कृषि विभाग मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	102	डा0 विष्णु कुमार अथवाल	सहायक प्राध्यापक,	शा0 स्नातको0 30 महावि0 मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	103	डा0 डी0एस0 तोमर	सहायक प्राध्यापक,	शास0 स्नातको0 30 महावि0 मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	104	आर0एस0 तरोटिया	बी0ई0ओ0,	वि0ख0 शिक्षा मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	105	बी0के0 श्रीवास्तव	सहा0 संचा0	, मत्स्य विभाग	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	106	आर0एन0 शर्मा	सहायक यंत्री,	जल संसाधन मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	107	हरेन्द्र कुमार सिंघल	उपयंत्री,	वि0या0 लाईट मशीनरी नलकूप गेट मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	108	पंकज कुमार	सहायक यंत्री	, उप महा प्रबंधक संचारण संचारण म0प्र0 वि0वि0 कम्पनी लि0 मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	109	डा0 एस0पी0 शर्मा	सहायक प्राध्यापक,	शा0स्नातको0 30 महावि0 मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	110	डा0 पुनीत कुमार	वैज्ञानिक,	आंच0 कृषि अनु0 केन्द्र	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	111	भास्कर प्रसाद शर्मा	पशु चिकित्सक,	उपसंचालक पशु चिकित्सा मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	112	ज्ञानेन्द्र कुमार पचौरिया	सहा0संचालक,	संयुक्त संचालक कृषि मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	113	महेशचन्द्र दूबे	सहा0 संचालक	, उप संचालक कृषि मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	114	अनिल माने	सहा0 यंत्री,	वि/य नलकूप गेट जल संसाधन मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	115	अवधेश कुलश्रेष्ठ	सहा0 यंत्री	सर्वशिक्षा कार्या0 मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	116	आर0आर0 सिंह	अधीक्षण यंत्री,	एम0पी0ई0बी0 मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	117	आर0पी0 गुप्ता	अधीक्षण यंत्री,	सिंचाई विभाग मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	118	आर0पी0 झा	कार्यापालन यंत्री,	सिंचाई विभाग मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	119	आर0एस0 राठौर	जिला संयोजक	आदिम जाति कल्याण विभाग मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	120	संजय गुप्ता	सहायक संचालक	पि0वर्ग कार्यालय मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	121	श्री धामा सिंह तोमर	मंडल संयोजक	आदिम जाति कल्याण मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	122	एस0के0 गवले	विपणन अधिकारी	विपणन कार्यालय मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
मुरैना	123	डी0एस0 यादव	प्राचार्य	शा.3.मा.वि. बालक क्र0 2 मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	124	अजय कुमार सकसेना	सहायक यंत्री,	कार्यपालन यंत्री एस0टी0एम0 डिवीजन म0प्र0 म0 क्षेत्र वि0वि0 कम्पनी मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	125	एम0के0 जैन	सहा0 संचालक,	उद्यान विभाग मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	126	अमृतलाल राजपूत	उप यंत्री	कार्यपालन यंत्री आर0ई0एस0 मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	127	वाय0एस0 जादौन	प्राचार्य,	शा0 हाई स्कूल बधपुरा	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	128	वाय0पी0 बाथम	उप संचालक	पंचायत एवं समाज सेवा मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	129	जे0पी0 गुप्ता	पशुचिकित्सक	पशु चिकित्सालय मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	130	रामहेत त्यागी	सहायक यंत्री	जल संसाधन मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	131	राज कुमार वराठे	खनिज अधिकारी	खनिज विभाग मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	132	डी0धन0 दोहरे	जिला पंजीयक	पंजीयक कार्यालय मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	133	डा0 अशोक शर्मा	आयुर्वेद अधि0	जिला आयुर्वेद अधिकारी मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	134	डा0 सियाराम शर्मा	आयुर्वेद अधिकारी	जिला आयुर्वेद जिला मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	135	सुरेन्द्र कुमार तिवारी	सहायक संचालक	कृषि विभाग मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	136	सुभाश चन्द्र गुप्ता	पंचायत इन्स्पेक्टर	जनपद पंचायत मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	137	आर0सी0 सिकरोडिया	प्राचार्य	शास0ड0मा0वि0 नायकपुरा	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	138	चन्द्रावत	उपसंचालक	कृषि आत्मा मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	139	सुधीर कुमार सकसेना	प्राचार्य	शा.3.मा.वि. कुठियाना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	140	राजेश तिवारी	अधीक्षण यंत्री,	ग्रा0या0से0 मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	141	डी0डी0 चतुर्वेदी	जिला सांख्यिकी अधिकारी,	योजना मण्डल मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	142	हरी सिंह केषाना	एस0एम0एस0	एस0डी0ओ0 कृषि अम्बाह	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	143	नरेश चन्द्र शर्मा	परियोजना अधिकारी	शहरी वि0 अभि0 मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	144	रविन्द्र सिंह परिहार	एस0ए0डी0ओ0,	अनुविभागीय कृषि मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	145	दीनदयाल शर्मा	प्राचार्य	शास0ड0मा0वि0 खडियाहार	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	146	उपेन्द्र सिंह	उप पंजीयक	सहकारिता मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	147	अशोक सिंह गुर्जर	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी,	उप संचालक कृषि मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	148	आर0बी0 गोयल	उप संचालक,	उप संचालक कृषि मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	149	एस0बी0 सिंह	प्रबंधक	उद्योग केन्द्र मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
मुरैना	एम0पी0 शुक्ला	सहायक नियतक,	नापतौल विभाग मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
मुरैना	कमलेश नारायण उपाध्याय	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी,	कृषि विभा मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
मुरैना	संजय अग्रवाल	परियोजना संचालक,	जिला महिला सपत्तिक मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
मुरैना	रविन्द्र सिंह परिहार	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी,	अनु0विभा0 कृषि कार्या0 अम्बाह	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
मुरैना	अशोक सिंह तोमर	उप संचालक	उप संचालक	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
मुरैना	एम0एल0 श्रीवास	प्राचार्य	प्राचार्य	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
मुरैना	डा0 अशोक सिंह तोमर	उप0संचालक	पशु चिकित्सा मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
मुरैना	राजेश सिंह तोमर	प्राचार्य	शा.ड.मा.वि.रजौधा	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
मुरैना	एम0एल0 श्रीवास	प्राचार्य,	शा0 हाई स्कूल कोलेआ	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
मुरैना	एन0एस0 कुशवाह	प्राचार्य	शा.ड.मा.वि. सहरियन का पुरा	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
मुरैना	बादाम सिंह तोमर	ब्लाक शिक्षा अधिकारी,	खण्ड शिक्षा कार्यालय अम्बाह	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
मुरैना	एच0 एस0 बंसल	प्रबंधक,	एम0पी0 एग्रो मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
मुरैना	आर0पी0एस0 चौहान	कार्यपालन यंत्री,	ग्रा0या0से0 मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
मुरैना	आर0के0 शुक्ला	सहा0 यंत्री,	पी0एच0ई0 मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
मुरैना	के0एल0 कोष्ठा	प्राचार्य	कृषक प्रशिक्षण केन्द्र मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
मुरैना	एस0एस0 यादव	एस0ए0डी0ओ0,	मिटटी प्रशिक्षण कार्यालय मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
मुरैना	अनेक सिंह तोमर	एस0ए0डी0ओ0,	उप संचालक कृषि मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
मुरैना	बीरन्द्र सिंह राठौर	उपयंत्री,	कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
मुरैना	डाँ0 धर्मेन्द्र सिंह	वैज्ञानिक,	आंच0 कृषि अनु0 केन्द्र	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
मुरैना	डाँ0 एस0बी0एस0 चौहान	वैज्ञानिक,	आंच0 कृषि अनु0 केन्द्र	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
मुरैना	आर0पी0 भटनागर	सहायक यंत्री,	कार्यपालन यंत्री एस0टी0सी0 संभाग म0प्र0 वि0वि0 कम्पनी लि0 मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
मुरैना	सुधाकर मिश्रा	उपयंत्री,	कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
मुरैना	शिवदत्त व्यास	उपयंत्री,	लोक स्वास्थ्यकार्यपालन यंत्री यांत्रिकी मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
मुरैना	डाँ0 एन0एस0 यादव	वरिष्ठ वैज्ञानिक,	आंच0 कृषि अनु0 केन्द्र	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	

1	2	3	4	5	6	7
मुरैना	174	आर0एस0 यादव	सहा0 श्रम आयुक्त, सचिव	श्रम विभाग मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	175	चन्द्रपाल सिंह जादौन		, कृषि उपज मण्डी मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	176	डॉ0 बी0पी0एस0 रघुवंशी	कनिष्ठ वैज्ञानिक	, आंच0 कृषि अनु0 केन्द्र	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	177	डॉ0 ए0एस0 गहलौत	सहायक प्राध्यापक,	शा0 स्नातको0 उ0 महावि0 मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	178	बल्लभ चरण इण्डोतिया	महाप्रबंधक,	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	179	सीमा शर्मा	संयुक्त संचालक,	म0बा0वि0 अधि0 मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	180	ई0एस0के0 तिवारी	वरिष्ठ वैज्ञानिक,	आंच0 कृषि अनु0 केन्द्र	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	181	गनदेव कुमार	सहायक यंत्री	, उप महा प्रबंधक सं0स0 संभाग म0प्र0 म0 क्षेत्र वि0वि0 कम्पनी वि0 मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	182	बीरेन्द्र सिंह यादव	कनहि यंत्री	, उप महा प्रबंधक सं0स0 संभाग म0प्र0 म0 क्षेत्र वि0वि0 कम्पनी वि0 मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	183	एस0के0 तिवारी	ए0डी0ए0,	संयुक्त संचालक किसान कल्याण कृषि विभाग मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	184	ब्रजेश सिंह भदौरिया	प्राचार्य,	शा0क0उ0मा0वि0 पोरसा	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	185	आर0सी0एस0 राठौर	प्राचार्य,	शा0उ0मा0वि0 अम्बाह	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	186	विनोद शर्मा	पशु चिकित्सक,	उप संचालक पशु चिकित्सालय मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	187	वासुदेव प्रसाद मिश्रा	प्राचार्य,	शा0उ0मा0वि0 पोरसा	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	188	कोशलेन्द्र चतुर्थी	सहायक यंत्री,	म0प्र0 ग्रह निमाण मण्डल मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	189	अनिरुध्द शर्मा	परि0 अधि0	, जिला पंचायत मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	190	यू0के0 शर्मा	प्राचार्य,	शा0हाई स्कूल धीरबल का पुरा	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	191	रामजीलाल पिप्पल	प्राचार्य,	शा0उ0मा0वि0 जग्गा का पुरा	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	192	आर0एन0 शर्मा	अनुविभागीय अधिकारी	सिंचाई विभाग अम्बाह	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	193	रामपाल सिंह तोमर	ए0एस0ओ0	एस0डी0ओ0 अम्बाह	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	194	जगराम गुप्ता	बी0ई0ओ0,	खण्ड शिक्षा कार्यालय मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	195	के0एल0 चौहान	कार्यपालन यंत्री,	म0प्र0वि0 मण्डल अम्बाह	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	196	ए0के0 सक्सेना	कार्यपालन यंत्री,	म0प्र0वि0 मण्डल मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	197	सुनीप धूपड	कार्यपालन यंत्री,	म0प्र0वि0 मण्डल अम्बाह	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	198	जी0एस0 यादव	कार्यपालन यंत्री,	म0प्र0वि0 मण्डल अम्बाह	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए



1	2	3	4	5	6	7
मुरैना	199 पी0के0 गुप्ता			शा0हाई स्कूल धरमगढ	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	200 राहुल सिंह		प्राचार्य, सहा0 यंत्री,	लोक निर्माण विभाग पी0आई0ओ0 मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	201 कप्तान सिंह तोमर		प्राचार्य,	शा0उ0मा0 कसमडा	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	202 नरेशपाल सिंह तोमर		अद्विभागीय अधिकारी,	सिचाई विभाग अम्बाह	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	203 आर0एल0 शर्मा		सहा0 यंत्री,	आर0ई0एस0 मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	204 एस0के0 जैन		कार्यपालनयंत्री,	म0प्र0 ग्रह निर्माण मण्डल मुरैना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
मुरैना	205 एम0के0 बंसल		कनिष्ठ यंत्री,	उप महा प्रबंधक सं0स0 सभाग म0प्र0 म0 क्षेत्र वि0वि0 कम्पनी लि0 मुरैना	राज्य स्तरीय	
मुरैना	206 ए0एस0 तोमर		प्राचार्य,	शा0 हाई स्कूल रडेड	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	1 श्री भीमशंकर शर्मा		उपयंत्री	लोकनिर्माण विभाग भिण्ड	लो.नि.वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	2 श्री चन्द्रमोहन जोशी		उपयंत्री	लोकनिर्माण विभाग भिण्ड	लो.नि.वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	3 श्री गजेन्द्र सिंह		उपयंत्री	लोकनिर्माण विभाग भिण्ड	लो.नि.वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	4 श्री महेंद्र सिंह कुशावाह		उपयंत्री	लोकनिर्माण विभाग भिण्ड	लो.नि.वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	5 श्री नेपाल सिंह चहान		उपयंत्री	लोकनिर्माण विभाग भिण्ड	लो.नि.वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	6 श्री एस.के.जैन		उपयंत्री	लोकनिर्माण विभाग भिण्ड	लो.नि.वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	7 श्री अनिल कुमार जैन		उपयंत्री	लोकनिर्माण विभाग भिण्ड	लो.नि.वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	8 श्री प्रहलाद सिंह तोमर		उपयंत्री	लोकनिर्माण विभाग भिण्ड	लो.नि.वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	9 श्री प्रमोद कुमार मिश्रा		उपयंत्री	लोकनिर्माण विभाग भिण्ड	लो.नि.वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	10 श्री राजवीर सिंह भदौरिया		उपयंत्री	लोकनिर्माण विभाग भिण्ड	लो.नि.वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	11 श्री रामेन्द्र सिंह तोमर		उपयंत्री	लोकनिर्माण विभाग भिण्ड	लो.नि.वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	12 श्री रामकृष्ण शर्मा		उपयंत्री	लोकनिर्माण विभाग भिण्ड	लो.नि.वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	13 श्री रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव		उपयंत्री	लोकनिर्माण विभाग भिण्ड	लो.नि.वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	14 श्री रविन्द्र सिंह भदौरिया		उपयंत्री	लोकनिर्माण विभाग भिण्ड	लो.नि.वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	15 श्री एस.के.वेदक		एसडीओ	लोकनिर्माण विभाग अट्टर	लो.नि.वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	16 श्री शिवनारायण गंगवाल		उपयंत्री	लोकनिर्माण विभाग भिण्ड	लो.नि.वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	17 श्री अमर सक्सेना		उपयंत्री	लोकनिर्माण विभाग भिण्ड	लो.नि.वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	18 श्री पी.के.द्विवेदी		एसडीओ	लोक निर्माण विभाग लहार	लो.नि.वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	19 श्री आर के द्विवेदी		उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग लहार	लो.नि.वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	20 श्री उमाकांत त्रिपाठी		उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग मेहगांव	लो.नि.वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	21 श्री ए.के.शर्मा		एसडीओ	लोक निर्माण विभाग गोरहद	लो.नि.वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	22 श्री ए.के.दुबे		सहा. प्रबंधक	प्र.म.या.सडक योजना भिण्ड	ग्रा.वि.वि.	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
भिण्ड	23	श्री डी.के.श्रीवास्तव	सहा. प्रबंधक	प्र.म.ग्रा.सडक योजना भिण्ड	ग्रा.वि.वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	24	श्री जे.एस.सिकरवार	सहा. प्रबंधक	प्र.म.ग्रा.सडक योजना भिण्ड	ग्रा.वि.वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	25	श्री पी.एस.जाटव	सहा. प्रबंधक	प्र.म.ग्रा.सडक योजना भिण्ड	ग्रा.वि.वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	26	श्री सतीश ओझा	उपयंत्री	प्र.म.ग्रा.सडक योजना भिण्ड	ग्रा.वि.वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	27	श्री पी.एल.सोनी	महाप्रबंधक	प्र.ग्रा.सडक इकाई 02 भिण्ड	ग्रा.वि.वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	28	श्री एस.के.शर्मा/ जे.एन.शर्मा	उपयंत्री	जल संसाधन भिण्ड	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	29	श्री रामनरेश जायत	उपयंत्री	जल संसाधन भिण्ड	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	30	श्री कमलसिंह	उपयंत्री	जल संसाधन भिण्ड	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	31	श्री सुरेश कुमार शर्मा	उपयंत्री	जल संसाधन भिण्ड	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	32	श्री लालजी प्रसाद शर्मा	उपयंत्री	जल संसाधन भिण्ड	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	33	श्री देवेन्द्र चौहान	उपयंत्री	जल संसाधन भिण्ड	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	34	श्री रामजीलाल पाण्डेय	उपयंत्री	जल संसाधन भिण्ड	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	35	श्री रामनरेश शर्मा	उपयंत्री	जल संसाधन भिण्ड	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	36	श्री कौशलकिशोर दीक्षित	उपयंत्री	जल संसाधन भिण्ड	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	37	श्री रामप्रकाश नरवरिया	उपयंत्री	जल संसाधन भिण्ड	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	38	श्री विनोद सिंह भदौरिया	उपयंत्री	जल संसाधन भिण्ड	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	39	श्री विथनाथ मिश्रा	उपयंत्री	जल संसाधन भिण्ड	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	40	श्री ए.के.अरोरा	एसडीओ	जल संसाधन भिण्ड	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	41	श्री राजाराम गोयल	उपयंत्री	जल संसाधन भिण्ड	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	42	श्री दिलीप सिंह भदौरिया	उपयंत्री	जल संसाधन भिण्ड	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	43	श्री महेन्द्र सिंह	उपयंत्री	जल संसाधन गोरमी	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	44	श्री विनोद कुमार शर्मा	एसडीओ	जल संसाधन गोरमी	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	45	श्री एस.के.समरबाल	एसडीओ	जल संसाधन मेहगाव	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	46	श्री आर.सी.त्यागी	एसडीओ	सिंचाई विभाग लहार	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	47	श्री सुनील सेठी	कार्यपालन यंत्री	जल संसाधन लहार	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	48	श्री एस.एस.शर्मा	उपयंत्री	जल संसाधन लहार	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	49	श्री पी.एन.शिवहरे	उपयंत्री	जल संसाधन लहार	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	50	श्री व्ही.एस.यादव	उपयंत्री	जल संसाधन लहार	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	51	श्री धीरेन्द्र वर्मा	उपयंत्री	जल संसाधन गोहद	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	52	श्री दिलीप कुमार पाण्डेय	उपयंत्री	जल संसाधन गोहद	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	53	श्री अनिल कुमार गुप्ता	उपयंत्री	जल संसाधन भिण्ड	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	54	श्री अरुण कुमार दीक्षित	उपयंत्री	जल संसाधन भिण्ड	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	55	श्री राजेश कुमार बसल	उपयंत्री	जल संसाधन भिण्ड	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
भिण्ड	56	श्री रामौतार सिंह कतरोलिया	उपयंत्री	जल संसाधन गोहद	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	57	श्री नाथुराम बिंदल	उपयंत्री	जल संसाधन गोहद	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	58	श्री ओमप्रकाश सिंघल	उपयंत्री	जल संसाधन गोहद	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	59	श्री सुबोध सिंह भदौरिया	उपयंत्री	जल संसाधन गोहद	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	60	श्री चन्द्रप्रकाश सुखवानी	उपयंत्री	जल संसाधन गोहद	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	61	श्री जसराम सिंह गुर्जर	उपयंत्री	जल संसाधन गोहद	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	62	श्री के.सी.धनोतिया	कार्यपालन यंत्री	जल संसाधन भिण्ड	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	63	श्री मुनेन्द्र सिंह कुशवाह	उपयंत्री	जल संसाधन गोहद	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	64	श्री प्रदीप गच्छ	कार्यपालन यंत्री	जल संसाधन गोहद	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	65	श्री रामप्रकाश गुसा	उपयंत्री	जल संसाधन गोहद	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	66	श्री वासुदेव प्रसाद गुता	उपयंत्री	जल संसाधन गोहद	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	67	श्री एस.के.यादव	उपयंत्री	जल संसाधन गोहद	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	68	श्री विष्णुकुमार वाण्णोय	उपयंत्री	जल संसाधन गोहद	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	69	श्री ए.के.दौहरे	उपयंत्री	भाण्डेर नहर निर्माण लहार	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	70	श्री ए.एन.शर्मा	उपयंत्री	भाण्डेर नहर निर्माण लहार	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	71	श्री ए.एस.किरार	उपयंत्री	भाण्डेर नहर निर्माण लहार	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	72	श्री डी.एस.कुशवाह	उपयंत्री	भाण्डेर नहर निर्माण लहार	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	73	श्री के.के.शर्मा	उपयंत्री	भाण्डेर नहर निर्माण लहार	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	74	श्री एन.एस.भदौरिया	उपयंत्री	भाण्डेर नहर निर्माण लहार	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	75	श्री जे.एन.नागर	महाप्रबंधक	विद्युत विभाग भिण्ड	विद्युत विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	76	श्री विनोद रावत	लेखाधिकारी	विद्युत विभाग भिण्ड	विद्युत विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	77	श्री पी.के.तेन्दुलकर	प्रबंधक	विद्युत विभाग भिण्ड	विद्युत विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	78	श्री अंकित गुसा	प्रबंधक	विद्युत विभाग भिण्ड	विद्युत विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	79	श्री ए.के.सिंह	प्रबंधक	विद्युत विभाग भिण्ड	विद्युत विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	80	श्री आर.के.अग्रवाल	उप महाप्रबंधक	विद्युत विभाग भिण्ड	विद्युत विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	81	श्री मोहम्मद फरहान खान	प्रबंधक	विद्युत विभाग भिण्ड	विद्युत विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	82	श्री ए.पी.वर्मा	उप महाप्रबंधक	विद्युत विभाग भिण्ड	विद्युत विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	83	श्री अनिल बोहरा	उप महाप्रबंधक	विद्युत विभाग भिण्ड	विद्युत विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	84	श्री निशांत श्रीवास्तव	उपयंत्री	विद्युत विभाग भिण्ड	विद्युत विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	85	श्री पी.आर.आस्थया	लेखाधिकारी	विद्युत विभाग भिण्ड	विद्युत विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	86	श्री ए.के.वनवासी	प्रबंधक	विद्युत विभाग भिण्ड	विद्युत विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	87	श्री पविशंकर भार्गव	सहायक यंत्री	विद्युत विभाग भिण्ड	विद्युत विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	88	श्री लोकेन्द्र वर्मा	उपयंत्री	मनरेगा भिण्ड	ग्रा.वि.वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	89	श्री आर.सी.जाटव	एसडीओ	जनपद पंचायत भिण्ड आर.ई.एस.भिण्ड	ग्रा.वि.वि. ग्रा.वि.वि.	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
भिण्ड	90	श्री एस.सी.गुप्ता	कार्यपालन यंत्री	आर.ई.एस.भिण्ड	गा.वि.वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	91	श्री आर.एल.शर्मा	एसडीओ	मनरेगा भिण्ड	गा.वि.वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	92	श्री सुरजीत मौर्य	उपयंत्री	जनपद पंचायत भिण्ड	गा.वि.वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	93	श्री पी.एस.यादव	ए.ई.	मनरेगा अटेर	गा.वि.वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	94	श्री आर.डी.शर्मा	उपयंत्री	जनपद अटेर	गा.वि.वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	95	श्री आर.पंचेरी	उपयंत्री	जनपद अटेर	गा.वि.वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	96	श्री आर.एन.बरुआ	उपयंत्री	जनपद अटेर	गा.वि.वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	97	श्री जे.सी.एस.चैहान	उपयंत्री	जनपद अटेर	गा.वि.वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	98	श्री शैलेन्द्र तोमर	ए.ई.	जनपद अटेर	गा.वि.वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	99	श्री रामप्रकाश आर्य	उपयंत्री	मनरेगा मेहगाव	गा.वि.वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	100	श्री मनोज गंगराडे	उपयंत्री	जनपद रौन	गा.वि.वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	101	श्री उमेश तिवारी	उपयंत्री	जनपद पंचायत लहार	गा.वि.वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	102	श्री लोकेन्द्र सिंह	उपयंत्री	जनपद पंचायत लहार	गा.वि.वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	103	श्री योगेश सिंह	जिला प्रबंधक	आर.ई.एस.लहार	गा.वि.वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	104	श्री दीपक अग्रवाल	उपयंत्री	म.प्र.सिविल सप्लाईज भिण्ड	खाद्य विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	105	श्री राजवीर सिंह भदौरिया	उपयंत्री	नगरपालिका भिण्ड	नगरीय प्रशा.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	106	श्री एच.एस.यादव	उपयंत्री	नगरपालिका भिण्ड	नगरीय प्रशा.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	107	श्री एन.एस.त्रिवेदी	आडिट आफिसर	सहा आयुक्त सहकारिता भिण्ड	सहाकारित वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	108	श्री आर.डी.अवस्थी	सहकारिता निरीक्षक	सहा आयुक्त सहकारिता भिण्ड	सहाकारित वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	109	श्री आर.सी.परिहार	सहकारिता निरीक्षक	उपायुक्त सहकारिता भिण्ड	सहाकारित वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	110	श्री राजीव कौशिक	सहकारिता निरीक्षक	सहा आयुक्त सहकारिता भिण्ड	सहाकारित वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	111	श्री आर.एल.जाटव	सहकारिता निरीक्षक	सहा आयुक्त सहकारिता भिण्ड	सहाकारित वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	112	श्री जसवीर सिंह राणा	सहकारिता निरीक्षक	उपायुक्त सहकारिता भिण्ड	सहाकारित वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	113	श्री आर.एस.परिहार	सहा.प्रध्यापक	उपायुक्त सहकारिता भिण्ड	सहाकारित वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	114	श्री लारस कुमार बौद	सहा.प्रध्यापक	शा.महाविद्यालय अटेर	उच्च शिक्षा	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	115	श्री राकेश कुमार डबरिया	सहा.प्रध्यापक	शा.गांधी महाविद्यालय मिहोना	उच्च शिक्षा	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	116	श्री बीरेन्द्र अहिरवार	सहा.प्रध्यापक	शा.गांधी महाविद्यालय मिहोना	उच्च शिक्षा	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	117	डा.बाबूलाल अहिरवार	प्राचार्य	शा.गांधी महाविद्यालय मिहोना	उच्च शिक्षा	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	118	श्री बी.के.सिंह	क्रीडाधिकारी	शा.गांधी महाविद्यालय मिहोना	उच्च शिक्षा	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	119	श्री दिनेश माहौर	सहा.प्रध्यापक	शा.महाविद्यालय आलमपुर	उच्च शिक्षा	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	120	श्री ओमप्रकाश	ग्रंथपाल	शा.महाविद्यालय आलमपुर	उच्च शिक्षा	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	121	श्री अखिलेश कुमार गुप्ता	सहा.प्रध्यापक	शा.महाविद्यालय आलमपुर	उच्च शिक्षा	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	122	श्री अभिषेक यादव	सहा.प्रध्यापक	शा.महाविद्यालय मेहगाव	उच्च शिक्षा	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	123	डा.आर.पी.सिंह	सहा.प्रध्यापक	शा.महाविद्यालय मेहगाव	उच्च शिक्षा	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	124	श्री केशवकुमार शुक्ला	सहा.प्रध्यापक	शा.महाविद्यालय मेहगाव	उच्च शिक्षा	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
भिण्ड	125	श्री रवि प्रकाश दीक्षित	क्रीडाधिकारी	एम.जे.एस. महा.वि.भिण्ड	उच्च शिक्षा	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	126	श्री शेरसिंह वर्मा	सहा.प्रध्यापक	एम.जे.एस. महा.वि.भिण्ड	उच्च शिक्षा	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	127	श्री राघवेंद्र त्रिपाठी	ग्रंथपाल	एम.जे.एस. महा.वि.भिण्ड	उच्च शिक्षा	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	128	श्री रविकांत सिंह	ग्रंथपाल	एम.जे.एस. महा.वि.भिण्ड	उच्च शिक्षा	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	129	श्री वीरबलभद्र प्रताप सिंह	सहा.प्रध्यापक	एम.जे.एस. महा.वि.भिण्ड	उच्च शिक्षा	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	130	श्री विमल मालवीय	सहा.प्रध्यापक	एम.जे.एस. महा.वि.भिण्ड	उच्च शिक्षा	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	131	श्री राजेन्द्र सिंह राठौर	सहा.प्रध्यापक	एम.जे.एस. महा.वि.भिण्ड	उच्च शिक्षा	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	132	श्री प्रमोद कुशवाह	सहा.प्रध्यापक	एम.जे.एस. महा.वि.भिण्ड	उच्च शिक्षा	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	133	श्री रामअवधेश शर्मा	सहा.प्रध्यापक	एम.जे.एस. महा.वि.भिण्ड	उच्च शिक्षा	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	134	श्री कृष्णकुमार कौशल	सहा.प्रध्यापक	एम.जे.एस. महा.वि.भिण्ड	उच्च शिक्षा	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	135	श्री सुनील त्रिपाठी	सहा.प्रध्यापक	एम.जे.एस. महा.वि.भिण्ड	उच्च शिक्षा	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	136	श्री कमलेश रायपुरिया	सहा.प्रध्यापक	एम.जे.एस. महा.वि.भिण्ड	उच्च शिक्षा	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	137	श्री राम कुमार डण्डोलिया	सहा.प्रध्यापक	एम.जे.एस. महा.वि.भिण्ड	उच्च शिक्षा	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	138	श्री अरविन्द्र शर्मा	क्रीडाधिकारी	शा.कन्या महाविद्यालय भिण्ड	उच्च शिक्षा	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	139	श्री रामदत्त शर्मा	प्राचार्य	शा.कन्या महाविद्यालय भिण्ड	उच्च शिक्षा	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	140	श्री सुधीर दीक्षित	सहा.प्रध्यापक	शा.कन्या महाविद्यालय भिण्ड	उच्च शिक्षा	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	141	श्री मलखान सिंह कुशवाह	सहा.प्रध्यापक	शा.कन्या महाविद्यालय भिण्ड	उच्च शिक्षा	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	142	डा. वी.एस.चैहान	सहा.प्रध्यापक	शा.महाविद्यालय लहार	उच्च शिक्षा	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	143	श्री विकास छारी	सहा.प्रध्यापक	अरविन्द महाविद्यालय गोहद	उच्च शिक्षा	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	144	डा.ए.के.उपाध्याय	सहा.प्रध्यापक	अरविन्द महाविद्यालय गोहद	उच्च शिक्षा	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	145	श्री विक्रम शर्मा	सहा.प्रध्यापक	अरविन्द महाविद्यालय गोहद	उच्च शिक्षा	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	146	श्री रामजीलाल मांझी	क्रीडाधिकारी	अरविन्द महाविद्यालय गोहद	उच्च शिक्षा	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	147	श्री डी.पी.शर्मा	व्याख्याता	शा.उ.मा.वि.क्र.2 भिण्ड	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	148	श्री यू.के.करैया	प्राचार्य	शा.हाईस्कूल पुर	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	149	श्री महावीर सिंह नरवरिया	प्राचार्य	शा.हाईस्कूल कनावर	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	150	श्री नरेन्द्र सिंह भदौरिया	व्याख्याता	शा.उ.मा.वि.क्र.2 भिण्ड	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	151	श्री सुरेन्द्र सिंह नरवरिया	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि.अटेर	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	152	श्री धर्मेन्द्र नारायण वर्मा	व्याख्याता	शा.उ.मा.वि.क्र.1 भिण्ड	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	153	श्री रामबरन शर्मा	व्याख्याता	हाई स्कूल मिहानी	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	154	श्री जगदीश जाटव	व्याख्याता	शा.उ.मा.वि.क्र.1 भिण्ड	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	155	श्री जगतनारायण पाठक	व्याख्याता	शा.उ.मा.वि.क्र.1 भिण्ड	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	156	श्री सुभाष श्रीवास्तव	व्याख्याता	शा.उ.मा.वि.क्र.1 भिण्ड	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	157	श्री पी.के.मिश्रा	व्याख्याता	डाइट भिण्ड	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	158	श्री बी.के.त्रिपाठी	प्राचार्य	डाइट भिण्ड	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	159	श्री वी.के.तिवारी	व्याख्याता	डाइट भिण्ड	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
भिण्ड	160	श्री रविन्द्र सिंह	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि.लहरौली	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	161	श्री महेश चन्द्र द्विवेदी	व्याख्याता	शा.उ.मा.वि.क्र.2 भिण्ड	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	162	श्री शिवराज सिंह कुशवाह	प्राचार्य	शा.कन्या उ.मा.वि.लहार	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	163	श्री विद्याराम महेश्वरी	प्राचार्य	प्रा.शा.उ.मा.वि.अकोडा	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	164	श्री गोपाल सिंह	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि.क्र.1 भिण्ड	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	165	श्री व्ही.सी.शर्मा	व्याख्याता	शा.कन्या उ.मा.वि.भिण्ड	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	166	श्री विद्याप्रकाश पाण्डेय	व्याख्याता	शा.उ.मा.वि.क्र.2 भिण्ड	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	167	श्री राधामोहन शर्मा	व्याख्याता	शा.कन्या उ.मा.वि.भिण्ड	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	168	श्री यू.एस.तिवारी	व्याख्याता	शा.कन्या उ.मा.वि.भिण्ड	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	169	श्री एम.पी.सिंह यादव	व्याख्याता	शा.कन्या उ.मा.वि.भिण्ड	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	170	श्री आनंद सिंह कुशवाह	व्याख्याता	शा.कन्या उ.मा.वि.भिण्ड	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	171	श्री सोनेलाल पाण्डोलिया	व्याख्याता	शा.उ.मा.वि.क्र.1 भिण्ड	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	172	श्री हरनारायण शाक्य	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि.क्र.2 भिण्ड	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	173	श्री प्रदीप तोमर	व्याख्याता	हाई स्कूल ध्यारीपुरा	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	174	श्री अरविन्द्र सिंह भदौरिया	खण्ड स्त्रोत समन्वयक	शा.उ.मा.वि.क्र.2 भिण्ड	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
				जनपद शिक्षा केन्द्र मेहगांव	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	175	श्री आर.पी.नागर	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि.क्र.2 भिण्ड	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	176	श्री हरिचन्द्र मिश्रा	व्याख्याता	शा.उ.मा.वि.क्र.1 भिण्ड	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	177	श्री मनीष भट्टेले	सहायक यंत्री	जिला शिक्षा केन्द्र भिण्ड	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	178	श्री रवि शर्मा	उपयंत्री	जिला शिक्षा केन्द्र भिण्ड	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	179	श्री हरिकृष्ण शुक्ला	प्राचार्य	शा.क.उ.मा.वि.मेहगांव	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	180	श्री एस.एन.तिवारी	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि.खनेता	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	181	श्री सुरेश कुमार गोतम	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि.ऊमरी	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	182	श्री श्रीकृष्ण लोहरिया	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि.मेहगांव	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	183	श्री सतीश चन्द्र श्रीवीस्तव	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि.गोहद	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	184	श्री रामदास मिश्र	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि.गोरमी	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	185	श्री कोरेन लियूस खेस्स	प्राचार्य	शा.हाईस्कूल बरोही	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	186	श्री कैलाश चन्द्र शर्मा	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि.बवेड़ी	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	187	श्री व्ही एस जयंत	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि.चकरायतपुरा	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	188	श्री मुन्नालाल वर्मा	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि.शेरपुर	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	189	डा.0 पी. के. ओझा	व्याख्याता	शा.उ.मा.वि.गोरमी	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	190	श्री सुभाष तिवारी	व्याख्याता	शा.उ.मा.वि.मेहगांव	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	191	हरिश चन्द्र शर्मा	व्याख्याता	शा.उ.मा.वि.मेहगांव	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	192	श्री चतुरी लाल गोयल	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि.0 मेहगांव	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	193	श्री प्रह्लाद सिंह	व्याख्याता	शा.उ.मा.वि.0 मेहगांव	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
भिण्ड	194	श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव	व्याख्याता	शा03-चू830मा0वि0 मेहगांव	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	195	श्री रामनिवास शर्मा	व्याख्याता	शा03-चू830मा0वि0 मेहगांव	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	196	श्री ए0आर0 शेखवार	व्याख्याता	शा03-चू830मा0वि0 मेहगांव	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	197	श्री श्यामानन्द तिवारी	व्याख्याता	शा03-चू830मा0वि0 मेहगांव	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	198	श्री कर्न सिंह कुशवाह	खण्ड स्रोत समन्वयक	जनपद शिक्षा केन्द्र लहार	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	199	श्री देवेन्द्र सिंह गुर्जर	खण्ड स्रोत समन्वयक	जनपद शिक्षा केन्द्र गौहद	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	200	श्री टीकमसिंह कुशवाह	खण्ड स्रोत समन्वयक	जनपद शिक्षा केन्द्र भिण्ड	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	201	श्री महावीर सिंह तोमर	खण्ड स्रोत समन्वयक	जनपद शिक्षा केन्द्र अटेर	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	202	श्री आर के छारिया	डिप्टी रेंजर	वन विभाग मौ	वन विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	203	श्री ओ.पी. श्रीवास्तव	अनुविभागीय अधिकारी वन	वन विभाग	वन विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	204	श्री नरेन्द्र कुमार	रेंजर	वन विभाग	वन विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	205	श्री रोहित ग्रेवाल	वाणिज्यकर अधिकारी	वाणिज्य विभाग	वाणिज्य विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	206	डा.एम.आर.शाक्यवार	सहा.पशु.चिकित्सक	पशुचिकित्सा विभाग भिण्ड	पशु.चिकि.विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	207	डा.आर.एस.भदौरिया	सहा.पशु.चिकित्सक	पशुचिकित्सा विभाग भिण्ड	पशु.चिकि.विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	208	डा.एस.के.शर्मा	सहा.पशु.चिकित्सक	पशुचिकित्सा विभाग भिण्ड	पशु.चिकि.विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	209	डा.सी.एल.जयत	सहा.पशु.चिकित्सक	पशुचिकित्सा विभाग भिण्ड	पशु.चिकि.विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	210	डा.ए.एस.कुशवाह	सहा.पशु.चिकित्सक	पशु चिकित्सालय भिण्ड	पशु.चिकि.विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	211	डा.भूपेन्द्र सिंह	सहा.पशु.चिकित्सक	पशु चिकित्सालय भिण्ड	पशु.चिकि.विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	212	डा.के.जी.द्विवेदी	सहा.पशु.चिकित्सक	पशु चिकित्सालय भिण्ड	पशु.चिकि.विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	213	डा.के.एस.बघेल	सहा.पशु.चिकित्सक	पशु चिकित्सालय भिण्ड	पशु.चिकि.विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	214	डा.एम.एस.तोमर	सहा.पशु.चिकित्सक	पशुचिकित्सा विभाग भिण्ड	पशु.चिकि.विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	215	श्री बंशीधर चौरसिया	प्राचार्य	हाई स्कूल प्रतापपुरा	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	216	श्री ब्रजनारायण शर्मा	प्राचार्य	हाई स्कूल खरिका	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	217	श्री निवास मिश्रा	प्राचार्य	प्रा.गुरु वशिष्ठ शा.उ.मा.वि.जवासा	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	218	डा.एन.एस.सिंकरवार	सहा.पशु.चिकित्सक	पशु चिकित्सालय भिण्ड	पशु.चिकि.विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	219	डा.आर.पी.शर्मा	सहा.पशु.चिकित्सक	पशुचिकित्सा विभाग भिण्ड	पशु.चिकि.विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	220	डा.वी.के.स्वर्णकार	सहा.पशु.चिकित्सक	पशुचिकित्सा विभाग भिण्ड	पशु.चिकि.विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	221	डा.विनोद कुमार शर्मा	चिकित्सक	पशु चिकित्सालय मछण्ड	पशु.चिकि.विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	222	डा.योगेन्द्र सिंह जादौन	चिकित्सक	पशुचिकित्सा विभाग भिण्ड	पशु.चिकि.विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	223	डा.स्वदेश थापक	चिकित्सक	पशु चिकित्सालय भिण्ड	पशु.चिकि.विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	224	डा.वी.एन.शर्मा	चिकित्सक	पशु चिकित्सालय रौन	पशु.चिकि.विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	225	डा.योगेन्द्र सिंह जादौन	चिकित्सक	पशु चिकित्सालय नयागांव	पशु.चिकि.विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	226	श्री बी.एन.चतुर्वेदी	सहायक संचालक	कृषि विभाग भिण्ड	कृषि विभाग	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
भिण्ड	227	डा.कायम सिंह	एडीए	कृषि विभाग भिण्ड	कृषि विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	228	श्री अब्दुल सत्तार	वरि.कृषि वि.अधिकारी	कृषि विभाग मेहेगाव	कृषि विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	229	श्री मुन्शीसिंह	एसडीओ	कृषि विभाग मेहेगाव	कृषि विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	230	श्री जी.एस.यादव	एसडीओ	कृषि विभाग भिण्ड	कृषि विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	231	श्री एम.के.जैन	एडीएम	उद्योग विभाग भिण्ड	उद्योग विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	232	श्री मजहर हाशमी	जनरल मैनेजर	उद्योग विभाग भिण्ड	उद्योग विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	233	श्री एस.एन.तिवारी	सी.ई.ओ.	अंत्यवसायी भिण्ड	अंत्यवसायी वि.	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	234	श्री एल.आर.पंजाबी	जिला प्रबंधक	एम.पी.एचो भिण्ड	उद्योग विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	235	श्री बी.बी.मिश्रा	सहायक यंत्री	लोक स्वा.यात्रिकी गृहद	लो.स्वा.यात्रिकी	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	236	श्री डी.बी.मिश्रा	उपयंत्री	लोक स्वा.यात्रिकी भिण्ड	लो.स्वा.यात्रिकी	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	237	श्री के.आर.गोयल	कार्यपालन यंत्री	लोक स्वा.यात्रिकी भिण्ड	लो.स्वा.यात्रिकी	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	238	श्री कैलाश नारायण शर्मा	उपयंत्री	लोक स्वा.यात्रिकी भिण्ड	लो.स्वा.यात्रिकी	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	239	श्री जी.एस.भदौरिया	सहायक यंत्री	लोक स्वा.यात्रिकी भिण्ड	लो.स्वा.यात्रिकी	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	240	श्री महेश चन्द्र दुबे	उपयंत्री	लोक स्वा.यात्रिकी भिण्ड	लो.स्वा.यात्रिकी	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	241	श्री कपिल कुशवाह	उपयंत्री	लोक स्वा.यात्रिकी भिण्ड	लो.स्वा.यात्रिकी	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	242	श्री सुरेश बाबू शर्मा	उपयंत्री	लोक स्वा.यात्रिकी भिण्ड	लो.स्वा.यात्रिकी	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	243	श्री राधाकान्त द्विवेदी	उपयंत्री	लोक स्वा.यात्रिकी भिण्ड	लो.स्वा.यात्रिकी	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	244	श्री कालीचरण झा	उपयंत्री	लोक स्वा.यात्रिकी लहर	लो.स्वा.यात्रिकी	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	245	श्री ए.एन.मिश्रा	उपयंत्री	लोक स्वा.यात्रिकी लहर	लो.स्वा.यात्रिकी	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	246	श्री अरुण सिंह	क्रीडाधिकारी	खेल विभाग भिण्ड	पुलिस विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	247	श्री कमल नायक	मत्स्य अधिकारी	मत्स्य विभाग भिण्ड	मत्स्य विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	248	श्री प्रदीप मिश्रा सहायक	भू-जल विद अधिकारी	भू-जल सर्वेक्षण भिण्ड	भू-जल सर्वेक्षण	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	249	श्री सरनाम सिंह तोमर	भू-जल विद अधिकारी	भू-जल सर्वेक्षण भिण्ड	भू-जल सर्वेक्षण	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	250	श्री आर.एस.अग्रवाल	उपयंत्री	भू-जल सर्वेक्षण भिण्ड	भू-जल सर्वेक्षण	संपूर्ण जिले के लिए
भिण्ड	251	श्री वी.एस.जैन	उपयंत्री	भू-जल सर्वेक्षण भिण्ड	भू-जल सर्वेक्षण	संपूर्ण जिले के लिए
ग्वालियर	1	श्री के.एन.एस.सिकरवार	सचिव	कृषि उपज मण्डी ग्वालियर	कृषि विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
ग्वालियर	2	श्री एस.के.दीक्षित	अधीक्षक यंत्री	ए के व्ही एन ग्वालियर	उद्ध्योग विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
ग्वालियर	3	श्री एस.पी.त्रिपाठी	द्वितीय सलाहकार	ए के व्ही एन ग्वालियर	उद्ध्योग विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
ग्वालियर	4	श्री आई.ए.गौरी	कार्यपालन यंत्री	वि या भारी मशीनरी जल संसाधन ग्वालियर	जल संधान विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
ग्वालियर	5	श्री सौरभ गोल्या	कार्यपालन यंत्री	लोक स्वास्थ्य यात्रिकी ग्वालियर	लोक स्वास्थ्य यात्रिकी	संपूर्ण जिले के लिए
ग्वालियर	6	श्री मोहर सिंह सिकरवार	जिला शिक्षाधिकारी	ग्वालियर	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
ग्वालियर	7	श्री ए.के.राय	वरिष्ठ अभियंता	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ग्वालियर	उर्जा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए



1	2	3	4	5	6	7
गवालियर	श्री अनिल कुमार गुप्ता	सहायक प्रबंधक	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना गवालियर	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	संपूर्ण जिले के लिए	
गवालियर	श्री ए के निगम	सहायक यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें गवालियर	ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें	संपूर्ण जिले के लिए	
गवालियर	श्री एस पी एस चौहान	क्षेत्रीय प्रबंधक	नागरिक आपूर्ति निगम गवालियर	नागरिक आपूर्ति	संपूर्ण जिले के लिए	
गवालियर	श्री आर के सिंह	अनुविभागीय अधिकारी	के टी एफ सी रेहट्ट गवालियर	जल संसाधन विभाग	संपूर्ण जिले के लिए	
गवालियर	श्री प्रदीप अष्टपुत्रे	संभागीय परियोजना यंत्री	पी आई यू लोक निर्माण विभाग गवालियर	लोक निर्माण विभाग	संपूर्ण जिले के लिए	
गवालियर	श्री वी के करैया	कार्यपालन यंत्री	नगरीय प्रशासन	स्थानीय शासन	संपूर्ण जिले के लिए	
गवालियर	श्री एन सी दास	कार्यपालन यंत्री	पी एच ई मेकेनिकल गवालियर	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	संपूर्ण जिले के लिए	
गवालियर	श्री पी के शर्मा	मुख्य रसायन यज्ञ	क्षेत्रीय प्रदूषण कार्यालय गवालियर	प्रदूषण बोर्ड	संपूर्ण जिले के लिए	
गवालियर	श्री राहुल पाठक	परियोजना अधिकारी	महिला बाल विकास गवालियर	महिला बाल विकास	संपूर्ण जिले के लिए	
गवालियर	श्री व्ही के पालीवाल	क्षेत्रीय प्रबंधक	म प्र एगो लिमिटेड गवालियर	म प्र एगो लिमिटेड	संपूर्ण जिले के लिए	
गवालियर	श्री मनोज असाठी	महा प्रबंधक	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गवालियर	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	संपूर्ण जिले के लिए	
गवालियर	श्री राजेन्द्र मस्कोले	सहायक आयुक्त	वाणिज्यकर गवालियर	वाणिज्यकर	संपूर्ण जिले के लिए	
गवालियर	श्री एच डी भालेकर	सहायक आयुक्त	वाणिज्यकर गवालियर	वाणिज्यकर विभाग	संपूर्ण जिले के लिए	
गवालियर	श्री एस के भार्गव	कार्यपालन यंत्री	ए के व्ही एन गवालियर	ए के व्ही एन गवालियर	संपूर्ण जिले के लिए	
गवालियर	श्री आर बी राजौरिया	संयुक्त संचालक	उधान गवालियर	उधान गवालियर	संपूर्ण जिले के लिए	
गवालियर	श्री एस के सुमन	उपायुक्त	म प्र ग्रह निर्माण मण्डल गवालियर	म प्र ग्रह निर्माण मण्डल	संपूर्ण जिले के लिए	
गवालियर	श्री एस के दुबे	स्टेट ऑफिसर	म प्र ग्रह निर्माण मण्डल गवालियर	म प्र ग्रह निर्माण मण्डल	संपूर्ण जिले के लिए	
गवालियर	श्री पी के गुप्ता	क्षेत्रीय प्रबंधक	म प्र वित्त निगम गवालियर	म प्र वित्त निगम	संपूर्ण जिले के लिए	
गवालियर	श्री सोमजी इबने	संयुक्त पंजीयक	संयुक्त पंजीयक सहकरिता गवालियर	संयुक्त पंजीयक सहकरिता गवालियर	संपूर्ण जिले के लिए	
गवालियर	ए के तिवारी	सहायक वन संरक्षक	वन विभाग गवालियर	वन विभाग	संपूर्ण जिले के लिए	
गवालियर	श्री एस के एस चौहान	उर्जा अधिकारी	जिला अक्षय उर्जा अधिकारी गवालियर	जिला अक्षय उर्जा अधिकारी	संपूर्ण जिले के लिए	
गवालियर	श्री कृष्णराव पराडे	एस डी ओ	हाईड्रो मेटालॉजी गवालियर	हाईड्रो मेटालॉजी	संपूर्ण जिले के लिए	
गवालियर	श्री आर पी सिंह	संयुक्त संचालक	सामाजिक न्याय गवालियर	सामाजिक न्याय	संपूर्ण जिले के लिए	

1	2	3	4	5	6	7
गवालियर	31	श्री रामेश सिंह चौहान	सहायक यंत्री	ए के व्ही एन गवालियर	ए के व्ही एन	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	32	एस पी सिंह	वरिष्ठ बैज्ञानिक	आरू अनुसंधान केन्द्र गवालियर	आरू अनुसंधान केन्द्र	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	33	श्री बी एल नोरोजी	महाप्रबंधक	ए के व्ही एन गवालियर	ए के व्ही एन	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	34	श्री सुरेन्द्र शर्मा	प्राचार्य	महिला पोलीटेक्निक गवालियर	महिला पोलीटेक्निक	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	35	श्रीमती कल्पना बोहरे	जिला कार्यक्रम अधिकारी	महिला बाल विकास गवालियर	महिला बाल विकास गवालियर	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	36	श्री एम आर अहिरवार	उप संचालक	कृषि विभाग गवालियर	कृषि विभाग गवालियर	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	37	श्री रूप सिंह भदौरिया	सहायक संचालक	उद्यान विभाग गवालियर	उद्यान विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	38	आर के वाजपेयी	उपायुक्त	सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारिता गवालियर	सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारिता	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	39	श्रीमती उषा चौधरी	अनुविभागीय अधि ग्रामीण कार्यपालन यंत्री	अनुविभागीय अधि ग्रामीण यांत्रिकी	अनुविभागीय अधि ग्रामीण यांत्रिकी	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	40	ओमहरी शर्मा	कार्यपालन यंत्री	लोक निर्माण विभाग संभाग 2 गवालियर	लोक निर्माण विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	41	श्री आर के सक्सेना	उप वन मण्डलाधिकारी	वन विभाग गवालियर	वन विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	42	जी एल जौनवार	उप वन मण्डलाधिकारी	उप वन गवालियर	उप वन	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	43	श्रीमती मोहिनी पटसारिया	परियोजना अधिकारी	महिला बाल विकास गवालियर	महिला बाल विकास	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	44	श्री राजेश दिवेदी	अधीक्षण यंत्री	म प्र विधुत मण्डल गवालियर	म प्र विधुत विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	45	श्रीमती रेखा दीक्षित	परियोजना अधिकारी	महिला बाल विकास गवालियर	महिला बाल विकास विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	46	श्री आर के श्रीवास्तव	कार्यपालन यंत्री	हर्सी उच्च स्तरीय गवालियर	संभाग डबरा	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	47	श्री सी पी गुप्ता	प्राचार्य	परिवार कल्याण स्वास्थ्य केन्द्र गवालियर	परिवार कल्याण स्वास्थ्य केन्द्र विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	48	राकेश चतुर्वेदी	जिला कुष्ठ रोग निवारण अधिकारी	स्वास्थ्य विभाग गवालियर	स्वास्थ्य विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	49	एम एस राजपूत	परियोजना अधिकारी	जिला पंचायत गवालियर	पंचायत विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	50	श्री अशोक सोलंकी	कार्यपालन यंत्री	म प्र विधुत मण्डल गवालियर	म प्र विधुत मण्डल	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	51	श्री ब्रजेश राय	महाप्रबंधक	म प्र विधुत मण्डल गवालियर	म प्र विधुत विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	52	आर पी बिसारिया	उप महाप्रबंधक	म प्र विधुत मण्डल गवालियर	म प्र विधुत विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	53	डॉ आर के सोनी	जिला मलेरिया अधिकारी	स्वास्थ्य विभाग गवालियर	स्वास्थ्य विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	54	श्री ओ पी गुप्ता	सहायक यंत्री	जल संसाधन गवालियर	जल संसाधन विभाग	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
गवालियर	55	ओ पी शर्मा	एस डी ओ	जल संसाधन उपखण्ड गवालियर	जल संसाधन विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	56	श्री एस एन त्रिपाठी	अधीक्षण यंत्री	वि या भारी मशीनरी जल संसाधन गवालियर	वि या भारी मशीनरी विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	57	ओ पी शर्मा	अभियंता	हर्सी जल संसाधन गवालियर	हर्सी जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	58	एस आर खण्डेकर	एस डी ओ	लाईट मशीनरी जल संसाधन गवालियर	लाईट मशीनरी जल संसाधन विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	59	श्री ए के दिवेदी	अभियंता	जल संसाधन गवालियर	जल संसाधन विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	60	श्री आर सी शर्मा	अधीक्षक	सोन विडिया अभ्यारण गवालियर	सोन विडिया विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	61	श्री एन के वर्मा	कार्यपालन यंत्री	म प्र हाउसिंग बोर्ड गवालियर	हाउसिंग बोर्ड विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	62	आर डी शाक्य	कार्यपालन यंत्री	पी एच ई मण्डल गवालियर	पी एच ई विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	63	श्री आई बी सिंह	अतिरिक्त संचालक	उच्च शिक्षा गवालियर चम्बल संभाग	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	64	श्री राकेश उपाध्याय	एस डी ओ	लोक निर्माण विभाग खण्ड 2 गवालियर	लोक निर्माण विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	65	बी के गर्ग	कार्यपालन यंत्री	जल संसाधन गवालियर	जल संसाधन विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	66	श्री के एल डोगरे	कार्यपालन यंत्री	बाध सुरक्षा गवालियर	बाध सुरक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	67	श्री अग्निवेश सिंह	अभियंता	हर्सी जल संसाधन हर्सी	हर्सी जल संसाधन विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	68	श्री सुभाष गुप्ता	अभियंता	सांक स्वर्ण रेखा उप संभाग घाटगाँवजल सर्वेक्षण	सांक स्वर्ण रेखा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	69	श्री राजकिशोर वर्मा	अनुसंधान सहायक	भू जल सर्वेक्षण जल संसाधन विभाग	भू जल सर्वेक्षण विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	70	श्री पी के शर्मा	कार्यपालन यंत्री	हर्सी हाई लेवल गवालियर	हर्सी हाई लेवल	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	71	श्री डी के रत्नाकर	सहायक यंत्री	हर्सी हाई लेवल नहर संभाग गवालियर	हर्सी हाई लेवल	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	72	श्री अयतार सिंह	अभियंता	हर्सी हाई लेवल गवालियर	हर्सी हाई लेवल	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	73	ई एस डी एस कौरव	उप संचालक	पशु चिकित्सा सेवाएँ गवालियर	पशु चिकित्सा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	74	डॉ एस डी एस कौरव	उप संचालक	पशु चिकित्सा सेवाएँ गवालियर	पशु चिकित्सा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	75	श्री पी सी चतुर्वेदी	उप संचालक माता महामारी	पशु चिकित्सा सेवाएँ गवालियर	पशु चिकित्सा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	76	श्री नितिश कुमार	अभियंता	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन गवालियर	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन विभाग	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
ग्वालियर	77	श्री राजकुमार बुन्देला	सहायक संचालक	पिछडावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण ग्वालियर	पिछडावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
ग्वालियर	78	श्री डी के शर्मा	अधीक्षण यंत्री	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ग्वालियर	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
ग्वालियर	79	श्री के एम गुप्ता	कार्यपालन यंत्री	ग्रामीण यंत्रिकी सेवाएँ ग्वालियर	ग्रामीण यंत्रिकी सेवाएँ विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
ग्वालियर	80	श्री एस एल चौधरी	अधीक्षण यंत्री	पी एच ई ग्रामीण ग्वालियर	पी एच ई ग्रामीण विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
ग्वालियर	81	श्री एस के पुरोहित	क्षेत्रीय प्रबंधक	राज्य भण्डार ग्रह निगम ग्वालियर	राज्य भण्डार विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
ग्वालियर	82	श्री सतीश चन्द्र गुप्ता	अधीक्षण यंत्री	मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड ग्वालियर	कृषि विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
ग्वालियर	83	श्री डी के गोयल	सहायक निदेशक	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ग्वालियर	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
ग्वालियर	84	श्री योगेश सिंह	जिला प्रबंधक	नागरिक आपूर्ति निगम ग्वालियर	नागरिक आपूर्ति निगम विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
ग्वालियर	85	श्री आर एल खरे	अनुविभागीय अधि	ग्रामीण यंत्रिकी सेवाएँ डबरा ग्वालियर	ग्रामीण सेवाएँ विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
ग्वालियर	86	श्री बी पी अहिरवार	संयुक्त संचालक	शिक्षा विभाग ग्वालियर	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
ग्वालियर	87	श्री बी बी त्रिपाठी	अनुविभागीय अधि	हस्ती हाई लेवल उप खण्ड डबरा ग्वालियर	हस्ती हाई लेवल	संपूर्ण जिले के लिए
ग्वालियर	88	श्री राकेश कुमार शर्मा	सहायक प्रबंधक	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्वालियर	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
ग्वालियर	89	श्रीमती भूमिजा सक्सेना	नायब तहसीलदार	तहसील ग्वालियर	तहसील ग्वालियर	संपूर्ण जिले के लिए
ग्वालियर	90	श्री शिवनंदन सिंह कुशवाह	नायब तहसीलदार	तहसील ग्वालियर	तहसील ग्वालियर	संपूर्ण जिले के लिए
ग्वालियर	91	श्री प्रवीण प्रजापति	अधीक्षक	भू अभिलेख ग्वालियर	भू अभिलेख विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
ग्वालियर	92	श्रीमती नीना गौर	अपर तहसीलदार	तहसील मुरार	तहसील मुरार	संपूर्ण जिले के लिए
ग्वालियर	93	श्री प्रतिज्ञा देगुला	नायब तहसीलदार	तहसील ग्वालियर	तहसील ग्वालियर	संपूर्ण जिले के लिए
ग्वालियर	94	श्री देवदत्त शर्मा	तहसीलदार	तहसील ग्वालियर	तहसील ग्वालियर	संपूर्ण जिले के लिए
ग्वालियर	95	श्री ओ पी गुप्ता	डी ई	एम पी ईबी ग्वालियर	एम पी ईबी विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
ग्वालियर	96	श्री एस एस त्रिवेदी	उपायुक्त	आयुक्त भू अभिलेख ग्वालियर	भू अभिलेख विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
ग्वालियर	97	श्रीमती शारदा पाठक	अपर तहसीलदार	तहसील मुरार	तहसील मुरार	संपूर्ण जिले के लिए
ग्वालियर	98	श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता	अधीक्षक	भू अभिलेख ग्वालियर	भू अभिलेख विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
ग्वालियर	99	श्रीमती योग्यता वाजपेयी	नायब तहसीलदार	तहसील ग्वालियर	तहसील ग्वालियर	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
गवालियर	100	श्री सूबालाल राजपूत	सहायक अधीक्षक	भू अभिलेख गवालियर	भू अभिलेख विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	101	श्री कृपाराम शर्मा	सहायक अधीक्षक	भू अभिलेख गवालियर	भू अभिलेख विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	102	श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया	अधीक्षक	भू अभिलेख आयुक्त गवालियर	भू अभिलेख विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	103	श्री रविश सिंह भदौरिया	नायब तहसीलदार	तहसील गवालियर	तहसील गवालियर	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	104	श्री साहिर खान	तहसीलदार	तहसील गवालियर	तहसील गवालियर	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	105	श्री अनिल राघव	तहसीलदार	तहसील चीनौर गवालियर	तहसील चीनौर	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	106	श्रीमती पुष्पा पुशाम	अपर तहसीलदार	तहसील गवालियर	तहसील गवालियर	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	107	श्री बनी सिंह वर्मा	अधीक्षक	आयुक्त भू अभिलेख गवालियर	भू अभिलेख विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	108	उमेश कौरव	अपर तहसीलदार	तहसील गवालियर	तहसील गवालियर	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	109	श्री गुलाब सिंह बघेल	नायब तहसीलदार	तहसील डबरा	तहसील डबरा	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	110	श्री आर के सिन्हा	उपायुक्त	आयुक्त भू अभिलेख गवालियर	भू अभिलेख विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	111	श्री सुरेश बराहदिया	अधीक्षक	आर आई टेनिंग सेन्टर गवालियर	आर आई टेनिंग सेन्टर विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	112	श्री जे पी गौर	सहायक संचालक	कृषि विभाग गवालियर	कृषि विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	113	श्री बी के गुप्ता	क्षेत्रीय प्रबंधक	म प्र बीज निगम गवालियर	म प्र बीज निगम विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	114	श्री के के बेट	बीज परीक्षण अधिकारी	बीज परीक्षण प्रयोग शाला गवालियर	बीज परीक्षण विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	115	श्री विनोद शर्मा	अनुविभागीय अधि	के टी एफ सी मोहना गवालियर	के टी एफ सी मोहना	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	116	श्री एम एल अटल	महाप्रबंधक	जिला उद्योग केन्द्र गवालियर	जिला उद्योग केन्द्र विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	117	श्री अर्पित तिवारी	जिला विपणन अधिकारी	विपणन गवालियर	जिला विपणन विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	118	श्री बी के बसल	सहायक प्रबंधक	म प्र सडक विकास प्राधिकरण	म प्र सडक विकास विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	119	श्री राजन गुप्ता	सहायक प्रबंधक	हस्ति शिल्प एव हथकरथा विकास निगम	हस्ति शिल्प एव हथकरथा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	120	श्री स्वतंत्र पाल सिंह भदौरिया	सहायक भूमि	संरक्षण अधिकारी गवालियर	संरक्षण विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	121	श्री प्रदीप चतुर्वेदी	कार्यपालन यंत्री	नगर निगम गवालियर	जनकार्य विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	122	श्री शशि विकसित	प्राचार्य	डॉ भीमराव अम्बेडकर कॉलेज गवालियर	डॉ भीमराव अम्बेडकर कॉलेज	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	123	श्री एस एस मरकाम	उप संचालक	रोजगार कार्यालय गवालियर	रोजगार पंजीयन विभाग	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
गवालियर	124	श्री पी के मिश्रा	सहायक यंत्री	जनपद पंचायत घाटगाँव गवालियर	पंचायत विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	125	श्री बी एस चतुर्वेदी	सहायक यंत्री	संयुक्त संचालक मत्स्यउद्योग गवालियर	मत्स्यउद्योग विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	126	श्री बकार एहमद सिद्दकी	सहायक यंत्री	हर्सी हाई लेवल संभाग 4 गवालियर	हर्सी हाई लेवल	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	127	श्री डी सी तिवारी	सहायक प्रबंधक	हस्ति शिल्प एवं हाथकरधा विकास निगम	हस्ति शिल्प एवं हाथकरधा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	128	श्री एम एम श्रीवास्तव	कार्यपालन यंत्री	हर्सी जल संसाधन गवालियर	हर्सी जल संसाधन विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	129	श्री सतीश शर्मा	सहायक यंत्री	हर्सी हाई लेवल संभाग 2 गवालियर	हर्सी जल संसाधन विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	130	श्री शुभम अग्रवाल	अनुविभागीय अधि	हर्सी हाई लेवल संभाग 1 गवालियर	हर्सी जल संसाधन विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	131	श्री एच के तनेजा	सहायक यंत्री	हर्सी हाई लेवल गवालियर	हर्सी हाई लेवल विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	132	श्री महेंद्र कुमार नामदेव	कनिष्ठ तकनीसियन	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन गवालियर	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	133	श्री जे पी अवस्थी	सहायक संचालक	कृषि गन्ना डबारा	कृषि विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	134	श्री एस के राजौरिया	सहायक यंत्री	लोक निर्माण विभाग संभाग गवालियर	लोक निर्माण विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	135	श्री आर के सक्सेना	सहायक अभियंता	म प्र राज्य विद्युत वितरण कम्पनी गवालियर	म प्र विद्युत विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
गवालियर	136	श्री ए के त्रिपाठी	सहायक यंत्री	साक स्वर्ण रेखा तिक नहर	साक स्वर्ण रेखा तिक नहर	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	1	श्री हरनोद शर्मा,	परियोजना अधिकारी	महिला एवं बाल विकास विभाग भाण्डेर	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	2	श्री बी0डी0 वर्मा	बीईओ विकासखण्ड दतिया	विकासखण्ड दतिया	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	3	श्री पाण्डेय	अनुविभागीय अधिकारी	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा भाण्डेर	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	4	श्री डी0के0 गौर	कार्यपालन यंत्री	राजघाट संभाग क्र.9 दतिया	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	5	श्री महेश प्रकाश पट्टेरिया	एसडीओ	राजघाट उपसंभाग क्र.2 भाण्डेर	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	6	श्री आर0पी0 शर्मा	अनुविभागीय अधिकारी	मुख्य नहर संभाग भाण्डेर	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	7	श्री सदीप सोहेल	अनुविभागीय अधिकारी	मुख्य नहर संभाग भाण्डेर	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	8	श्री दिनेश कुमार सोनी	एसडीओ	राजघाट डिस्ट्रिक्ट संभाग दतिया	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	9	श्री एस.के. निरंजन	सीडीपीओ	विकास परि. ग्रामीण दतिया	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	10	श्री कोक सिंह दादौरिया	प्राध्यापक	पी0जी0 कॉलेज दतिया	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	11	श्री एस0एन0 जाटव	अनुविभागीय अधिकारी	राजघाट गुण नियुक्त संभाग दतिया	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
दतिया	12	श्री एसएन0 माथुर	मैनेजर	एगो दतिया	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	13	श्री एस0के0 जैन	कार्यपालन अधिकारी	अन्त्यव्ययसायी दतिया	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	14	श्री कल्प सिंह	सचिव	कृषि उपमण्डी समिति भाण्डेर	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	15	श्री एस0के0 मिश्रा	सहायक प्राध्यापक	पी0जी0कालेज दतिया	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	16	श्री सतीष श्रीवास्तव	सहायक यंत्री	म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	17	श्री प्रभा राय मोरे	सहायक यंत्री	म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	18	श्री नितिन वर्मा	सहा.मत्स्य अधिकारी	मत्स्य विभाग दतिया	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	19	श्री दिलीप व्यास	सहायक परियोजना समन्वयक	जिला शिक्षा केन्द्र दतिया	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	20	श्री आनंद कंद्र गुसा	सहायक परियोजना समन्वयक	जिला शिक्षा केन्द्र दतिया	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	21	श्री चेताराम गडरिया	सहायक यंत्री	राजघाट नहर मण्डल कार्यालय दतिया	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	22	कु.ममता चतुर्वेदी	जिला कार्यक्रम अधिकारी	महिला वल विकास दतिया	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	23	श्री बी.के. जोशी	सहायक यंत्री	लोक निर्माण विभाग इन्दरगढ़	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	24	श्री ए.के. त्रिपाठी	अनुविभागीय अधिकारी	राजघाट डिस्ट्रीब्यूटर उपसंभाग क्र. 28	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	25	श्री दीपक सतपुड़े	कार्यपालन यंत्री	राजघाट संभाग क्र. 9 दतिया	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	26	श्री डी.के. शुक्ला	अनुविभागीय अधिकारी	राजघाट क्र. 29 दतिया	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	27	श्री चेतन चौहान	अनुविभागीय अधिकारी	लघु सिंचाई दतिया	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	28	श्री एस0जी0एस0 जै.ेदी	खेल अधिकारी	पी0जी0 कालेज दतिया मी0-9893440441	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	29	श्री आर0के0 तिवारी	श्रम निरीक्षक	श्रम विभाग दतिया मी0-9713225858	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	30	श्री सुरेन्द्र शर्मा	कार्यपालन यंत्री	मुख्य नहर संभाग-भाण्डेर मी.नं.-8305721444	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	31	श्री हेमन्त श्रीवास्तव	सचिव	कृषि उपज मण्डी समिति दतिया, मी0-9425482070	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	32	श्री सर्वेश तिवारी	सहायक संचालक	उधानिकी विभाग दतिया मी0-9329825313	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	33	श्री एस.पी.गुसा	योजना अधिकारी	शिक्षा विभाग-दतिया मी.9425741484	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
दतिया	34	श्री आर०एन० मिश्रा	जिला संयोजक	आदिम जाति कल्याण विभाग दतिया मो०-9907004106	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	35	श्री आर.एस.दांगी	प्राध्यापक	पी.जी. कालेज-दतिया मो०-90399360206	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	36	श्री कुंजबिहारी गोस्वामी	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	प्रौढशिक्षा दतिया मो०-9425119505	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	37	श्री के०पी०सिंह गुर्जर	जिला प्रौढ शिक्षा अधिकारी	जिला-दतिया मो०-9926647811	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	38	श्री शरद सिद्धार्थ	प्रबंधक	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दतिया, मो०-9826258595	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	39	श्री एस.आर.लाहौरिया	सहा.प्राध्यापक	पी.जी.कालेज दतिया मो. 9425876771	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	40	श्री एम.पी.शर्मा	सहा.प्राध्यापक	पी.जी.कालेज-दतिया मो०-9425736556	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	41	श्री एम०एस० सिंसौदिया	सहायक प्राध्यापक	पी०जी० कालेज दतिया, मो०-9425482564	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	42	श्री बी के सक्सेना	अनुविभागीय अधिकारी	लहार, शाखा नहर उपसंभाग क्र० 1 इन्दरगढ जिला दतिया (स.प्र.) मो० 982668983	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	43	श्री एस०एस० गौतम	प्राध्यापक	पी०जी० कालेज दतिया, मो०-9685675511	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	44	श्रीमती ऊषा पी० शर्मा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत दतिया, मो०-9669207636	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	45	श्री डी.के.विश्वकर्मा	उप संचालक	पशु चिकित्सा सेवा-दतिया मो.9993278998	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	46	श्री अभय राहुल	सहायक प्राध्यापक	पी०जी० कालेज दतिया, मो०-9425339215	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	47	श्री ए०के० गुप्ता	प्राध्यापक	पी०जी० कालेज दतिया, मो०-9425619175	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	48	श्री दिनेश चौरसिया	सहायक आयुक्त	सस्कारिता विभाग दतिया मो.7566535494	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	49	श्री वृजेश जाटव	सहायक प्राध्यापक	पी.जी.कालेज-दतिया मो.9425721775	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए



1	2	3	4	5	6	7
दतिया	50	श्री अरूण कुमार नामदेव	सहायक यंत्री	नगर पालिका दतिया मो0-9425381303	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	51	श्री एल0पी0 शर्मा	एस0डी0ओ0	वन विभाग दतिया मो0-9424791792	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	52	श्री सतीष शर्मा	निरीक्षक	नापतौल दतिया, मो0-9826233931	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	53	श्री वी0के0 जैन	सहायक महाप्रबंधक	म.प्र.शा.स.वि.प्रा. दतिया, मो0-9993386213	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	54	श्री प्रेम सिंह राजपूत	बी0ई0ओ0	विकासखण्ड सेवडा मो0-9179088521	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	55	श्री भारत भूषण गंगाराने	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत सेवडा	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	56	श्री एल0एन0 चौरसिया	सहायक संचालक	कृषि विभाग दतिया, मो0-9893482047	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	57	श्री दीपक सकसेना	खनिज निरीक्षक	खनिज विभाग दतिया मो0-8269022935	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	58	श्री राकेश कुमार शर्मा	उपयंत्री	राजघाट उपसंभाग क.1 दतिया मो0-9425474624	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	59	श्री डी0एस0डी0 सिद्धार्थ	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी	भूमि संरक्षण दतिया मो0-8817563762	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	60	श्री जितेन्द्र कुमार मिश्रा	कार्यापालन यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग दतिया मो0-9926518790	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	61	श्री डी0आर0 राजपूत	उपसंचालक कृषि	विभाग दतिया मो0-9424313418	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	62	श्री जी0 सुनईया	अधीक्षण यंत्री	सिंचाई विभाग राजघाट परियोजना दतिया मो0-9425710463	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	63	श्री डी0के0 श्रीवास्तव	महाप्रबंधक	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दतिया मो0-8109167743	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	64	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	बीआरसी	जनपद शिक्षा केन्द्र सेवडा मो0-9893891344	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	65	श्री कैलाश स्वर्णकार	सहायक मत्स्य अधिकारी	मत्स्य विभाग दतिया मो0-8109294876	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
दतिया	66	श्री शैलेन्द्र सिंह ठाकुर	कार्यपालन यंत्री	म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड दतिया, मो0- 9827360806	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	67	श्री बी0के0 कौशल	सहायक प्राध्यापक	पी0जी0 कालेज दतिया मो0- 9893265826	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	68	श्री ऋषभ कुमार जैन	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	नगर परिषद इन्द्रगढ़ मो0- 9425482870	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	69	श्री बी0पी0 शर्मा	सहायक प्रबंधक	म0प्र0ग्रा स0वि. प्रथि0 दतिया मो0- 9406966310	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	70	श्री राजकुमार चौधरी	सहायक यंत्री	म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड दतिया मो0- 9425407180	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	71	श्री यू0सी0 अग्रवाल	सहायक महाप्रबंधक	म0प्र0ग्र0स0वि0प्रा0 दतिया, मो0- 9826266778	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	72	श्री डी.पी. अन्नुरागी	कार्यपालन यंत्री	गुणनियंत्रण संभाग दतिया	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	73	श्री अरविन्द तोमर	बी.एस.सी.	शिक्षा विभाग सैवठा मो0- 9039655782	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	74	श्री शिवसिंह	सहा.प्राध्यापक	पी.जी.कालेज-दतिया मो.नं.9826559588	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	75	श्री डी.पी. अहिरवार	सहायक प्राध्यापक	पी.जी.कालेज दतिया मो0- 9754165241	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	76	श्री एस0एस0 प्रजापति	जिला विपणन अधिकारी	विपणन कार्यालय दतिया मो0- 9826525050	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	77	श्री संजय श्रीवास्तव	सहायक प्राध्यापक	पी0जी0 कालेज दतिया मो0- 9425721596	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	78	श्री गुरा	मण्डी सचिव	कृषि उपज मण्डी समिति सैवठा	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	79	श्री अरविन्द्र उपाध्याय	सी.डी.पी.ओ.	ग्रामीण-1 दतिया	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	80	श्री ओ.पी.सिंह.	सी.डी.पी.ओ. ग्रामीण-2 दतिया	ग्रामीण-2 दतिया	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	81	श्री एम.बी. शर्मा	सहायक संचालक	आत्मा दतिया मोवा. 9826548577	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	82	श्री सियाराम शर्मा	बी.आर.सी.	सर्वशिक्षा अभियान दतिया मोवा. 7869577873	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	83	श्री जी.एस. गोरख	सहायक संचालक	आत्मा दतिया मोवा. 8437884257	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
दतिया	84	श्री रामवीरसिंह तोमर	पी.ओ.	शहरी विकास अभिकरण दतिया	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	85	श्री यशवंतसिंह गौर	अनुविभागीय अधिकारी	राजघाट गुणनियंत्रण संभाग दतिया. मोवा. 9893169414	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	86	सुश्री ज्योति वघेल	डी.एस.ओ.	खाद्य विभाग दतिया मोवा. 9479980929	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
दतिया	87	श्री आर.डी. कनेरिया	अनुविभागीय अधिकारी	राजघाट गुण नियंत्रण संभाग दतिया मोवा. 9425782085	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	1	सतीश कुमार पंचरतन	सहायक यंत्री	पी. एच. ई. करेरा	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	2	अरुण चकोरिया	उपयंत्री	जनपद पंचायत नरवर	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	3	बच्चू लाल शर्मा	सहायक यंत्री	राजघाट बायां नहर डिशनेट खनियाधाना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	4	हरीशरण शर्मा	सचिव	मंडी समिति मगरौनी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	5	एच. के. तिवारी	उपयंत्री	पक्का बाँध मंडीखड़ा सिंध परियोजना नरवर	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	6	आर के बाथम	कार्यपालन यंत्री	आर. बी. सी. करेरा	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	7	अशोक कुमार गुप्ता	ए.ई.	मनरेगा जनपद पंचायत करेरा	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	8	राजेंद्र पंचवेदी	ए.ई.	डी.पी. सी. शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	9	कृलदीप दत्ता	उपयंत्री	जनपद पंचायत	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	10	रे.एस. गौड़	मेनेजर	म.प्र.वि.क्षेत्र.वि.क. करेरा	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	11	जानकी प्रसाद प्रभाकर	उपयंत्री	जनपद पंचायत नरवर	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	12	आर.एस. सेगर	सहायक प्रबंधक	म.प्र.शा.वि.प्रा.पारि.ए. करा. 2 shivपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	13	सुरेश कुमार साहू	नायब तहसीलदार	तहसील करेरा	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	14	सतीश वर्मा	तहसीलदार	तहसील नरवर	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	15	एम.के. श्रीवास्तव	सहायक यंत्री	स्थि परियोजना मेसनरी मंडीखड़ा कैंप शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	16	एस. के. भदोरिया	ई.ई.	आर.बी.सी. सम्भाग नरवर	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	17	भगीरथ वर्मा	उप महा प्रबंधक	म.प्र.म.क्ष.वि.वि.क.	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	18	बाय एस. जादौन	सहायक यंत्री	जल संसाधन करेरा	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	19	दही. के. बाबू	उप महाप्रबंधक	म.प्र.म.क्ष.वि.वि.क.	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	20	आशुतोष भगत	सहायक यंत्री	जल संसाधन सम्भाग शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
शिवपुरी	21	रामप्रकाश दोहरे	सहायक यंत्री	जल संसाधन सम्भाग शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	22	डी. के. ढोडी	एस.डी.ओ	आर.बी.सी. करेरा	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	23	हरिश शर्मा	उपयंत्री	जनपद पंचायत पोहरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	24	शैलेन्द्र प्रकाश सारस्वत	सचिव	मण्डी समिति पोहरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	25	आर. के. सक्सेना	वन परिक्षेत्र अधिकारी	वन परिक्षेत्र पोहरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	26	शत्रुघ्न चौहान	नायब तहसीलदार	तहसील बैराड	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	27	अजय बंसल	उपयंत्री	जनपद पंचायत पोहरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	28	यादवेन्द्र शर्मा	सहायक यंत्री	जनपद पंचायत पोहरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	29	अशोक पालीवाल	उपयंत्री	जनपद पंचायत पोहरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	30	रामविलास गर्ग	उपयंत्री	पी. एच.ई. शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	31	दिनेश शर्मा	उपयंत्री	जनपद पंचायत पोहरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	32	पी.के. जैन	सहायक प्रबंधक	एम.पी.आर.आर.डी.ए.पी आई यु २ शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	33	प्रवेश पचोरी	सहायक अधीक्षक	भू अभिलेख शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	34	प्रशांत तिवारी	उपयंत्री	जनपद पंचायत शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	35	अरुण गोयल	वरिष्ठ उधान विकास अधिकारी	उधान विभाग शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	36	व्ही. के. छारी	ई.ई.	पी.एच.ई. शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	37	जीतेन्द्र सिंह चौहान	सहायक यंत्री	म.प्र.म.क्षे.वि.क. शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	38	अशोक कुमार कौशिक	वरिष्ठ उधान विकास अधिकारी	उधान विभाग शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	39	एस.एल.बाथम	सहायक यंत्री	पी.एच.ई. शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	40	एम.एल. तमोरी	उपसंचालक	पशु चिकित्सा शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	41	आर. बी. शर्मा	सहायक संचालक	उधानिकी शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	42	एस. के. सिंह कुशवाहा	उपसंचालक	कृषि शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	43	रामलखन मिश्रा	वरिष्ठ उधान विकास अधिकारी	उधान विभाग शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	44	बी. एस. देशलहरा	जिला शिक्षा अधिकारी	शिक्षा विभाग शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	45	एल. आर. शाक्य	एस. डी. ओ.	आर.ई.एस. शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	46	विजय कुमार मिश्रा	वरिष्ठ उधान विकास अधिकारी	उधान विभाग शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	47	शिरोमणि दूबे	डी.पी.सी.	सर्व शिक्षा विभाग शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	48	संदीप अथना	ए.पी.ओ.	जिला शिक्षा केंद्र शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	49	एस.एस. शर्मा	नायब तहसीलदार	तहसील पोहरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
शिवपुरी	राजेंद्र कुमार जायसवाल	सहायक वन संरक्षक	वन विभाग शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
शिवपुरी	मनीष जैन	नायब तहसीलदार	तहसील शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
शिवपुरी	श्रीमती रागिनी त्रिवेदी	परियोजना अधिकारी	बी.आर.जी.एफ. जिला पंचायत शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
शिवपुरी	श्रीमती उपासना राय	डी.पी.ओ.	महिना बल विकास शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
शिवपुरी	हर्ष गुप्ता	ई ई	मड़ीखेड़ा पॉवर जनरेशन शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
शिवपुरी	पी.पी. शुक्ला	जिला पंजीयक	पंजीयन विभाग शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
शिवपुरी	श्री श्रीनिवास शर्मा	सहायक यंत्री	सिंध परियोजना नहर सर्किल शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
शिवपुरी	रूपकिशोर श्रीवास्तव	सहायक यंत्री	मनरेगा जनपद पंचयत शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
शिवपुरी	खुशाली राम	सहायक यंत्री	सिंध परियोजना नहर सर्किल शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
शिवपुरी	मान सिंह रावत	नायब तहसीलदार	तहसील शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
शिवपुरी	सत्यमूर्ति पांडे	जिला समन्वयक	जिला पंचायत शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
शिवपुरी	बी पी उपाध्याय	सहायक डी एफ ओ	बन विभाग शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
शिवपुरी	ए के रोहित	सहायक संचालक	शिक्षा विभाग शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
शिवपुरी	जी के श्रीवास्तव	अनुविभागीय अधिकारी	आर ई एस क्रमांक २ शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
शिवपुरी	अवदेशा सक्सेना	सहायक यंत्री	जल ससाधन शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
शिवपुरी	अशोक राठोर	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी	भूमि संरक्षण कार्यालय शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
शिवपुरी	के के शर्मा	सहायक बन संरक्षक	बन विभाग शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
शिवपुरी	मोहम्मद आशिफ अफगानी	जिला प्रौढ शिक्षा अधिकारी	शिक्षा विभाग शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
शिवपुरी	के एन त्रिपाठी	बन परिक्षेत्र अधिकारी	बन परिक्षेत्र सतनवाड़ा	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
शिवपुरी	बी के पातीवाल	सहायक संचालक	मत्स्य उद्योग शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
शिवपुरी	एस एल वर्मा	जिला प्रवन्धक	नागरिक आपूर्ति निगम शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
शिवपुरी	यादवेंद्र भदोरिया	ए ई	मनरेगा आर ई एस खनियाधाना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
शिवपुरी	राकेश कुमार सिंह	सहायक यंत्री	म प्र वि क्षे वि कं पिछोर	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
शिवपुरी	अशोक चतुर्वेदी	उप यंत्री	पी एच ई पिछोर	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	
शिवपुरी	सतीश कुमार गोले	सहायक यंत्री	पी एच ई पिछोर	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए	

1	2	3	4	5	6	7
शिवपुरी	75	अनिल प्रकाश पट्टेरिया	उप यंत्री	मनरेगा जनपद पंचायत खनियाधाना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	76	राजेंद्र प्रसाद गुसा	सहायक यंत्री	राजघाट नहर नहर वितरण क्रमांक 1 खनियाधाना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	77	अशोक सक्सेना	नायब तहसीलदार	तहसील पिछोर	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	78	विश्वनाथ राजपूत	नायब तहसीलदार (ए एस एल आर )	तहसील पिछोर	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	79	हेमंत कुमार शिवहरे	सहायक प्रबन्धक	म प्र गा स यो पिछोर	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	80	रामसेवक शास्त्र्यवार	उप संचालक	कृषि तथा प्रशिक्षण भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	81	एम पी साहू	नायब तहसीलदार	तहसील पिछोर	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	82	एस.के.शर्मा	ए.ई.	मनरेगा जनपद पंचायत-पिछोर	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	83	बी पी पचोरी	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	कृषि विभाग खनियाधाना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	84	विनोद भदोरिया	डी.जी.एम.	वि.वि.कं.पिछोर	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	85	पियूष दिलोदरे	ए ई	म.प्र.वि.क्षे.वि.कं.पिछोर	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	86	सत्यप्रकाश पराशर	रेडिओ संपर्क अधिकारी	कृषि विभाग शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	87	व्ही.एन. लहरिया	सहायक संचालक	कृषि विभाग शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	88	के.एन. तिवारी	प्रभारी खनिज अधिकारी	खनिज विभाग शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	89	जे.एन. सूर्यवंशी	उप संचालक	कृषक कल्याण विभाग शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	90	अनिल बंसल	श्रम उप निरीक्षक	श्रम विभाग शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	91	एच.आर. वर्मा	उप संचालक	सामाजिक न्याय विभाग शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	92	पान सिंह करोरिया	सहायक संचालक	कृषि विभाग शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	93	पी.एन. राठोर	उप यंत्री	जनपद पंचायत शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	94	धर्मन्ध सिंह भदोरिया	उप यंत्री	जनपद पंचायत बदरवास	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	95	जनक सिंह अपोरिया	नायब तहसीलदार	तहसील कोलारस	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	96	एच.ए. खान	नायब तहसीलदार	रन्चोद	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	97	एन.के. शर्मा	सहायक यंत्री	मनरेगा जनपद पंचायत कोलारस	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	98	ओ.पी. राजपूत	उप यंत्री	पी.एच.ई. कोलारस	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	99	राजेश श्रीवास्तव	सहायक यंत्री	पी.एच.ई. कोलारस	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	100	दिनेश श्रीवास्तव	सचिव	मण्डी समिति बदरवास	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
शिवपुरी	101 दीपक कुमार त्रिपाठी		प्रबंधक	म.प्र.म.क्षे.वि.क. शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	102 सुनील प्रभात		नायब तहसीलदार	तहसील कोलारस	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	103 राजेंद्र प्रसाद मिश्रा		विकास खंड शिक्षा अधिकारी	शिक्षा विभाग बदरवास	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	104 दामोदर प्रसाद वर्मा		ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	शा. कृषि प्रक्षेत्र रन्नोद	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	105 आर.के. सक्सेना		सहायक प्रबंधक	एम.पी.आर.आर.डी.ए. पी आई यु २ शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	106 आनन्द पाठक		एस.एम्.एस.	शा.कृषि प्रक्षेत्र रन्नोद	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	107 राजेश श्रीवास्तव		सहायक यंत्री	पी.एच.ई. कोलारस	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	108 आर.के. गोयल		सहायक प्रबंधक	एम.पी.आर.आर.डी.ए. कोलारस	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	109 मुन्नालाल दुवेदी		उप यंत्री	पी.एच.ई. शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	110 पी.के. पटवा		सहायक प्रबंधक	एम.पी.आर.आर.डी.ए. बदरवास	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	111 जी. सराठे		उप महाप्रबंधक	म.प्र.म.क्षे.वि.क. पिछोरे	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	112 के.जी. सक्सेना		सहायक यंत्री	लोक स्वास्थ्य परियोजना उपखंड शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	113 संदीप कुमार पाण्डेय		प्रबंधक	म.प्र.म.क्षे.वि.क. शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	114 अरविन्द वाजपेयी		तहसीलदार	तहसील बदरवास	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	115 सोनाराम वर्मा		सहायक यंत्री	जनपद पंचायत बदरवास	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	116 दिनेश सुबीजा		उप महाप्रबंधक	म.प्र.म.क्षे.वि.क. डिवीजन २ शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	117 डी.के. श्रीवास्तव		एस.डी.ओ.	जल संसाधन केंद्र शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	118 एस.पी. शर्मा		अति. महाप्रबंधक	म.प्र.म.क्षे.वि.क. शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	119 नरेंद्र शंखवार		उप यंत्री	जनपद पंचायत करैया	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	120 एस.के. गुप्ता		उप यंत्री	जल संसाधन विभाग शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	121 एस.के. मिश्रा		उपयंत्री	जल संसाधन विभाग शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	122 दिनेश सिंह कुशवाह		उपयंत्री	जनपद पंचायत नरवर	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	123 आर.ए. शर्मा		उपयंत्री	जल संसाधन विभाग शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	124 एस.के. दोनोरिया		उपयंत्री	जल संसाधन विभाग शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	125 एन.के. शर्मा		ए.पी.ओ.	जनपद पंचायत पोहरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	126 सुरेश कुमार शान्मय		उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	127 देवेश पाण्डेय		उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	128 लियाकत खान		उपयंत्री	जनपद पंचायत पोहरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	129 कृष्ण कुमार शुकला		उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	130 गणेश कुमार पराशर		उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
शिवपुरी	131	राकेश हरिओद	उपयंत्री	जनपद पंचायत शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	132	ब्रजेश भागव	उपयंत्री	जल संसाधन शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	133	जे.पी. शर्मा	उपयंत्री	जल संसाधन शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	134	मादवेन्द्र सिंह चौहान	उपयंत्री	जनपद पंचायत शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	135	एल.एन. गुप्ता	उपयंत्री	जल संसाधन शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	136	सतीश बरेटिया	उपयंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	137	शशिपाल सिंह	उपयंत्री	जनपद पंचायत पिछोर	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	138	दीपक जैन	उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	139	मुरारी लाल धाकड़	उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	140	सी.एल. जैन	उपयंत्री	जनपद पंचायत पिछोर	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	141	पवन विसरिया	उपयंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	142	सुधीर कुमार शर्मा	उपयंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	143	अनुज भारद्वाज	उपयंत्री	जनपद पंचायत खनियाधाना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	144	सुरेन्द्र कुमार गुप्ता	उपयंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	145	गजेन्द्र सोलंकी	उपयंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	146	राकेश चितौड़िया	उप यंत्री	जनपद पंचायत कोलारस	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	147	राकेश कुमार तिवारी	उप यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	148	कृष्ण मोहन चतुर्वेदी	उप यंत्री	लोक निर्माण विभाग शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	149	श्याम बाबू वर्मा	उप यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	150	रमेश चन्द्र धाकड़	उप यंत्री	उप यंत्री	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	151	राम प्रकाश राजपूत	उप यंत्री	लोक निर्माण विभाग शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	152	एस के श्रीवास्तव	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत कररा	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	153	ए.पी.प्रजापति	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत नरवर	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	154	सत्यपाल शेखरन	परियोजना अधिकारी	महिला एवं बाल विकास नरवर	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	155	विनोद कुमार मुद्गल	बी.आर.सी.	शिक्षा विभाग पोहरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	156	डी.एम.शास्त्री	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	157	गोपाल अग्रवाल	अति.मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	158	हेरन्द्र सिंह यादव	उप यंत्री	जनपद पंचायत शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	159	घनश्याम झा	उप यंत्री	जनपद पंचायत पिछोर	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	160	अजय कुमार सिंह	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत खनियाधाना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	161	रतन सिंह गुड़िया	परियोजना अधिकारी	महिला एवं बाल विकास पिछोर	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	162	बी.आर.जाटव	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत कोलारस	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए



1	2	3	4	5	6	7
शिवपुरी	163	ब्रह्मचन्द्र कुमार गुप्ता	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत बदरवास	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	164	कृष्ण भूषण मिश्रा	परियोजना अधिकारी	महिला एवं बाल विकास कोलारस	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	165	सुरेन्द्र अर्धवयु	परियोजना अधिकारी	जिला पंचायत शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	166	एस.पी.एस.कुशवाह	जिला आपूर्ति अधिकारी	आपूर्ति विभाग शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	167	सी.एन.कटार	प्राचार्य	आई.टी.आई. शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	168	के.के. शर्मा	परियोजना अधिकारी	जिला पंचायत शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	169	राजेश गोयल	ए.पी.ओ.	जिला पंचायत शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	170	ए.एच.खान	अधीक्षक	भू-अभिलेख शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	171	पी.पी.शुक्ला	जिला पंजीयक	पंजीयन विभाग शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	172	एस.के.सिंह	उपायुक्त(सहकारिता समितिया)	सहकारिता विभाग	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	173	शैलेश सिंह	सहायक कमिश्नर	आबकारी शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	174	अरविन्द भार्गव	डी.पी.एम.	डी.पी.आई.पी. शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	175	ए.आर.रजक	महाप्रबन्धक	उद्योग विभाग शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	176	जी.के.भरदया	अधीक्षण यंत्री	म.प्र.विद्युत मंडल शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	177	पी.एस.झानिया	कार्यपालन यंत्री	लोक निर्माण विभाग शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	178	व्ही.के.ननमानी	अनुविभागीय अधिकारी	लो.नि.वि. शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	179	व्ही.एस.देशलहरा	डी.ई.ओ.	शिक्षा विभाग शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	180	सिरोमणि दुबे	डी.पी.सी.	शिक्षा विभाग शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	181	ओ.पी.पाण्डेय	परियोजना अधिकारी	महिला एवं बाल विकास	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	182	हेन्द्र सिंह राठौर	सचिव	मण्डी समिति बेराड	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	183	राजेंद्र पंचवर्दी	ए.ई.	जिला शिक्षा केंद्र शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	184	मनोज शर्मा	प्रोजेक्ट मैनेजर	एन.एच.ए.आई. शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	185	संदीप अस्थाना	ए.पी.सी.	जिला शिक्षा केंद्र शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	186	बलवीर सिंह तोमर	सचिव	मण्डी समिति पिछर	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	187	के.एन. भार्गव	सचिव	मण्डी समिति खनियाधाना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	188	जे.पी.गोड	सचिव	मण्डी समिति कोलारस	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	189	एच.के.तिवारी	उप यंत्री	पक्का बांध मड़ीखड़ा सिंध परियोजना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	190	पी.एन.राठौर	उप यंत्री	जनपद पंचायत बदरवास	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	191	मुकेश कुमार जमरा	उप यंत्री	जनपद पंचायत बदरवास	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	192	रविन्द्र झारिया	जिला प्रबन्धक	एम.पी.एचो.	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	193	बी.पी.पटैरिया	सहायक प्रबन्धक	तेखा एम.पी.एचो	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	194	एस.एन.पटसौरिया	सहायक यंत्री	लोक निर्माण विभाग शिवपुरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
शिवपुरी	195	अरविन्द शर्मा	मुख्य कार्य पालन अधिकारी	जनपद पंचायत पोहरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
शिवपुरी	196	केशव गोयल	परियोजना अधिकारी	महिला एवं बाल विकास पोहरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	1	यु. एस. तोमर	उपसंचालक कृषि	कृषि कार्यालय, गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	2	भावेश अग्रवाल	सहायक यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	3	संकल्प गोलिया	सहायक यंत्री	लो.नि.वि. भवन परियोजना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	4	आर.पी.भद्रसेन	जिला संयोजक	क्रियान्वयन ईकाई गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	5	सुश्री तीजा पंवार	विकासखंड अधिकारी	आदिम जाति कल्याण विभाग गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	6	आर.सी.त्रिपाठी	जिला कार्यक्रम अधिकारी	विकासखंड बमोरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	7	मनोज शर्मा	खण्ड शिक्षा अधिकारी	महिला एवं बाल विकास गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	8	श्रीमति अनीता चौधरी	सहायक संचालक	विकासखंड शिक्षा केन्द्र बमोरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	9	सी.बी.पाठक	सहायक संचालक	मत्स्यधोग गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	10	एस.एस.चौहान	सहायक भूमि.संरक्षणा अधिकारी	कृषि विभाग गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	11	सी.एस.राठौर	उप वनमण्डलाधिकारी	कृषि कार्यालय, गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	12	डॉ. सुरेश सिंह	पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी	वन विभाग गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	13	जितेन्द्र धाकरे	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	पशु चिकित्सालय गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	14	मोहम्मद आशिक इकबाल	प्रबंधक	जनपद पंचायत बमोरी	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	15	ओ.पी.अम्ब	जिला पंजीयक अधिकारी	म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कम्पनी लिमिटेड	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	16	एम.बी.सरसेया	उप वनमण्डलाधिकारी	ग्रामीण उपसंभाग गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	17	एन.के.मनहर	सहायक यंत्री	जिला पंजीयक कार्यालय गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	18	एस.के.मलिक	परियोजना अधिकारी	वन विभाग गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	19	विशाल आनंद श्रीवास्तव	परियोजना अधिकारी	म.प्र.गृह निर्माण मण्डल गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	20	अमर सिंह	अकेक्षण अधिकारी	जिला पंचायत गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	21	डॉ सुनील भार्गव	प्रभारी जिला योजना अधिकारी	एकीकृत महिला एवं बाल विकास परियोजना गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
				सहकारिता विभाग गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
				जिला योजना विभाग गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
गुना	22	एस.व्ही. जैन	सहायक जिला आपूर्ति अधिकारी	जिला आपूर्ति विभाग गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	23	अरुण देव	उपसंचालक	पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	24	जी.एस. तोमर	अनुविभागीय कृषि अधिकारी	कृषि विभाग गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	25	श्रीमति कामिनी देशपांडे	परियोजना अधिकारी	एकीकृत महिला एवं बाल विकास परियोजना ग्रामीण गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	26	विजय पुरोहित	सहायक यंत्री	जिला शिक्षा केन्द्र गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	27	वाय.एस. रघुवंशी	रज अफिसर	वन मंडल गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	28	लक्ष्मण सिंह डिण्डोर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	29	आर.एस. विश्वकर्मा	उप महाप्रबंधक	म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कम्पनी लिमिटेड सतकंठा संभाग गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	30	टी.डी. चौबे	श्रम पदाधिकारी	श्रम विभाग गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	31	पी.एस. बुंदेला	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	नगर परिषद गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	32	आर.एस. राय	सहायक प्रबंधक	म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कम्पनी लिमिटेड सिविल संभाग गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	33	पी.सी. उच्चरिया	क्षेत्रीय अधिकारी	म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गैल विजयपुर	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	34	आर.के. अहिरवार	कार्यपालन यंत्री	लो.नि.विभाग संभाग गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	35	आर.बी. गुला	कार्यपालन यंत्री	नगर परिषद गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	36	के.सी. पालिया	उपसंचालक	ग्राम तथा नगर निवेश गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	37	श्रीमति राजकुमारी जैन	परियोजना अधिकारी	एकीकृत महिला एवं बाल विकास परियोजना आरोन	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	38	आर.एस.अहिरवार	सहायक संचालक	श्रम विभाग गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	39	डॉ रामवीर सिंह रघुवंशी	जिला मलेरिया अधिकारी	जिला चिकित्सालय गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	40	डॉ बी.के.पटेल	उपसंचालक	पशु चिकित्सालय गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	41	दशरथ सिंह मीना	खण्ड शिक्षा अधिकारी	विकासखंड शिक्षा केन्द्र चौचौड़ा	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	42	पुनीत खरे	सहायक यंत्री	लो.नि.विभाग उपसंभाग चौचौड़ा	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	43	आर.एस. रघुवंशी	सहायक प्रबंधक	म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
गुना	44	शहजाद अली खान	सहायक यंत्री	लो.नि.विभाग (वि/या) उपसंभाग गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	45	डॉ. एस.एच.मिर्जा	पशु प्रजनन कार्यक्रम अधिकारी	पशु चिकित्सालय गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	46	सी.पी.सिंह भदौरिया	उपायुक्त	सहकारिता विभाग गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	47	टी.के.गर्ग	कार्यपालन यंत्री	विद्युत सुरक्षा गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	48	एन.आर.बघेल	सहायक संचालक	कृषि विभाग गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	49	अरुण चालीसगांवकर	सहायक प्रबंधक	म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कम्पनी लिमिटेड	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	50	पी.सी.गौर	उप महाप्रबंधक	सिविल संभाग गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	51	मनोज भारद्वाज	परियोजना अधिकारी	म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कम्पनी लिमिटेड संभाग गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	52	डॉ.के.डी.शर्मा	पशु चिकित्सक	एकीकृत महिला एवं बाल विकास परियोजना चोचौड़ा	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	53	डॉ.एम.के.गुप्ता	पशु चिकित्सक	पशु चिकित्सालय गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	54	अजय कटियार	सहायक संचालक	पशु चिकित्सालय गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	55	एम.एल.कोरी	सहायक यंत्री	शिक्षा विभाग गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	56	ओ.पी.झा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जल संसाधन विभाग संभाग गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	57	अमित सिंह	सहायक संचालक	जनपद पंचायत चोचौड़ा	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	58	बी.के.जेन	सहायक यंत्री	कृषि विभाग गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	59	बी.के.शर्मा	उप वनमण्डलाधिकारी	जल संसाधन विभाग उपसंभाग चोचौड़ा	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	60	प्रकाश सिंह रघुवंशी	सहायक यंत्री	वन विभाग बीनागज	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	61	एन.बी.मान्ये	प्रभारी सहायक यंत्री	एन.आर.ई.जी.एस. जनपद पंचायत गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	62	पुष्पेन्द्र सिंह रावत	सहायक वाणिज्यकर अधिकारी	लो.स्वा.यांत्रिकी विभाग गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	63	डी.एन.नीखरा	प्रभारी कार्यपालन यंत्री	वाणिज्यकर विभाग गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	64	ए.के.जेन	संभागीय परियोजना यंत्री	लो.स्वा.यांत्रिकी विभाग गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	65	नरेन्द्र उपाध्याय	जिला परियोजना समन्वयक	लो.नि.विभाग (पी.आई.यू) संभाग गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	66	बी.एल.उच्चारिया	अनुविभागीय कृषि अधिकारी	जिला शिक्षा केन्द्र गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना				कृषि विभाग राधोगढ	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
गुना	67	अजय कुमार गुप्ता	सहायक प्रबंधक	म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	68	के.एस.राजपूत	सहायक यंत्री	जल संसाधन विभाग संभाग राधौगढ़	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	69	ओ.पी.कोठारी	खण्ड शिक्षा अधिकारी	विकासखंड शिक्षा केन्द्र राधौगढ़	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	70	मुकुल भटनागर	सहायक यंत्री	लो.स्वा.यांत्रिकी विभाग राधौगढ़	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	71	सतोष खटीक	सहायक यंत्री	जल संसाधन विभाग संभाग राधौगढ़	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	72	डॉ. आर.एस.सिकरवार	पशु चिकित्सक	पशु चिकित्सालय गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	73	आर.एम.साहू	वाणिज्य कर अधिकारी	वाणिज्यकर विभाग गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	74	एस.के.राजोरिया	सहायक यंत्री	जल संसाधन विभाग संभाग गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	75	विजय सिंह कोरी	परियोजना अधिकारी	एकीकृत महिला एवं बाल विकास परियोजना राधौगढ़	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	76	जे.के.पंत	सहायक यंत्री	लो.नि.विभाग उपसंभाग राधौगढ़	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	77	दीपक बसोड	कार्यपालन यंत्री	म.प्र.गृह निर्माण मण्डल गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	78	भगवान स्वरूप चतुर्वेदी	सहायक संचालक	कृषि (गन्ना) विभाग गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	79	उदयभान मर्सकोले	सहायक यंत्री	जल संसाधन विभाग संभाग राधौगढ़	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	80	एस.के.जैन	सहायक यंत्री	जल संसाधन विभाग संभाग राधौगढ़	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	81	अशोक सिंह चौहान	जिला प्रौढ शिक्षा अधिकारी	जिला प्रौढ शिक्षा केन्द्र गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	82	ए.के.रघुवंशी	सहायक यंत्री	एन.आर.ई.जी.एस. जनपद पंचायत आरोन	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	83	जी.एस.कुल्मी	कार्यक्रम समन्वयक	कृषि विज्ञान केन्द्र आरोन	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	84	आर.के.एस.भदौरिया	सहायक भूमि.संरक्षणा अधिकारी	भूमि संरक्षण विभाग आरोन	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	85	बी.पी.सक्सेना	सहायक यंत्री	लाईट मशीनरी नलकूप एवं गेट जल संसाधन विभाग उपखंड गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
गुना	86	डी.आर.आर्य	प्रबंधक	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र गुना	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	87	आर.सी.शर्मा	सहायक यंत्री	जल संसाधन विभाग संभाग आरोन	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	88	सुनील गोयल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत आरोन	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
गुना	89	दही.एस.रावत	दही.ए.एस.	पशु चिकित्सालय आरोन	राज्य स्तरीय	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	1	मनोज श्रीवास्तव	रे दही औ	पशु चिकित्सा विभाग अशोकनगर	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	2	एम एल सोनी	व्याख्याता	गो.पोली कॉलेज अशोकनगर	फर्स्ट क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	3	पी गुजरे	उप संचालक	कृषि अशोकनगर	फर्स्ट क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	4	के के सुराना	प्राध्यापक	गो नेहरू डिग्री कॉलेज अशोकनगर	फर्स्ट क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	5	जी एन चौबे	सहायक वणिज्यकर अधिकारी अशोकनगर	वणिज्यकर विभाग	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	6	एस एस लहरिया	सहायक प्राध्यापक	गो नेहरू डिग्री कॉलेज अशोकनगर	फर्स्ट क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	7	पी के सिधल	रे दही औ	पशु चिकित्सा विभाग अशोकनगर	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	8	रमेश मोर्य	व्याख्याता	गो पोली टेक्निक कॉलेज अशोकनगर	फर्स्ट क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	9	मनीष वैध	व्याख्याता	गो पोली टेक्निक कॉलेज अशोकनगर	फर्स्ट क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	10	आर पी एस भदौरिया	रे दही औ	पशु चिकित्सा विभाग अशोकनगर	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	11	बाय एस रघुवंशी	रे दही औ	पशु चिकित्सा विभाग अशोकनगर	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	12	रे के जैन	प्राध्यापक	गो नेहरू डिग्री कॉलेज अशोकनगर	फर्स्ट क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	13	बी एस यादव	एस ओ	गो पोली टेक्निक कॉलेज अशोकनगर	फर्स्ट क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	14	एम के नेमा	व्याख्याता	गो पोली टेक्निक कॉलेज अशोकनगर	फर्स्ट क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	15	उपेन्द्र शर्मा	व्याख्याता	गो पोली टेक्निक कॉलेज अशोकनगर	फर्स्ट क्लास	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
अशोक नगर	16	बी डी पुरोहित	व्यख्याता	गो पाली टेक्निक कॉलेज अशोकनगर	फर्स्ट क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	17	व्ही के गुसा	व्याख्याता	गो पाली टेक्निक कॉलेज अशोकनगर	फर्स्ट क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	18	अनिल धकाते	व्याख्याता	गो पाली टेक्निक कॉलेज अशोकनगर	फर्स्ट क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	19	सचिन शर्मा	व्याख्याता	गो पाली टेक्निक कॉलेज अशोकनगर	फर्स्ट क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	20	सीताराम चौहान	व्याख्याता	गो पाली टेक्निक कॉलेज अशोकनगर	फर्स्ट क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	21	मोनेश जैन	व्याख्याता	गो पाली टेक्निक कॉलेज अशोकनगर	फर्स्ट क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	22	अनुभा सूद	उप आयुक्त	सहकारिता विभाग अशोकनगर	फर्स्ट क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	23	एस के तिवारी	प्राध्यापक	नेहरू डिग्री कॉलेज अशोकनगर	फर्स्ट क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	24	ए के शर्मा	प्राध्यापक	नेहरू डिग्री कॉलेज अशोकनगर	फर्स्ट क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	25	फैविओला तिकी	जिला पंजीयक	पंजीयन विभाग अशोकनगर	फर्स्ट क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	26	S. S. Chouhan	उप पंजीयक अशोकनगर	पंजीयन विभाग	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	27	रामवीर सिंह	प्राध्यापक	नेहरू डिग्री कॉलेज मुंगावली	फर्स्ट क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	28	आर एन तिवारी	प्राचार्य	गवर्नमेंट हाई स्कूल बहादुरपुर	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	29	जगत सिंह बरैया	प्राचार्य	गवर्नमेंट हाई स्कूल मल्हारगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	30	ऋषि कुमार शर्मा	प्राचार्य	गवर्नमेंट हाई स्कूल मुंगावली	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	31	एन एस बेस	प्राचार्य	गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल मुंगावली	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	32	डी के श्रीवास्तव	सी ई ओ	जनपद पंचायत अशोकनगर	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	33	योगेश पाटीदार	व्याख्याता	गो पाली टेक्निक कॉलेज अशोकनगर	फर्स्ट क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	34	जे एस वर्मा	जिला महिला बाल विकास अधिकारी अशोकनगर	जिला महिला बाल विकास अधिकारी अशोकनगर	फर्स्ट क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	35	हेमंत आठवले	मैनेजर	जिला एवं उद्योग व्यापार केंद्र अशोकनगर	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
अशोक नगर	36	बी एल परमार	जिला संयोजक	आदिम जाति कल्याण विभाग अशोकनगर	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	37	राम सहाय कटारे	बी आर सी	चंदेरी	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	38	मनोहर लाल शर्मा	बी ई ओ	चंदेरी	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	39	टेक सिंह	सहायक वन मंडल अधिकारी	वन मंडल चंदेरी	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	40	प्रकाश कुमार	सहायक वन मंडल अधिकारी	वन मंडल अशोकनगर	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	41	जी एस राजपूत	सहायक संचालक	उधानिकी अशोकनगर	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	42	डी के दोहरे	पशु चिकित्सा अधिकारी	पशु चिकित्सा चंदेरी	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	43	आर के जैन	सहायक यंत्री	राजघाट विधुत चंदेरी	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	44	के के पटेल	बी ई ओ	मुंगवाली	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	45	परमजीत सिंह गिल	जिला शिक्षा अधिकारी	एजुकेशन डिपार्टमेंट अशोकनगर	फर्स्ट क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	46	योगेन्द्र हजेल	सहायक संचालक	अन्य पिछडा वर्ग अशोकनगर	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	47	एस के शक्य	सहायक संचालक	हल्द्वारा चंदेरी	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	48	एम के नवैया	जिला संखतिके अधिकारी	प्लानिंग अशोकनगर	अशोकनगर	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	49	कमलेश सिंह	डी डी पी अशोकनगर	पंचायत विभाग अशोकनगर	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	50	अशोक कुमार बाथम	सहायक भूमि अधिकारी	अशोकनगर	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	51	जे के चौबे	लिब्ररियन	नेहरू डिग्री कॉलेज चंदेरी	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	52	आर एस चौहान	ई ई	राजघाट विधुत चंदेरी	फर्स्ट क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	53	माधो सिंह तोमर	वरिष्ठ उधान विकास अधिकारी	उधानिकी अशोकनगर	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	54	डॉ पी एस गोयल	जिला परियोजना समन्वयक	जिला शिक्षा केंद्र अशोकनगर	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	55	हीरालाल अहिरवार	सी एम् ओ	नगर पालिका चंदेरी	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	56	राम प्रसाद नरवरे	परियोजना संचालक	आत्मा समिति अशोकनगर	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	57	एस एस रघुवंशी	अनुविभागीय अधिकारी	पी एच ई मंगावाली	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	58	एन एस राजपूत	सहायक यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अशोकनगर	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	59	मनोज जाटव	रेजर	वन विभाग मुंगवाली	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	60	आर पी एस नरवरिया	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी	मुंगवाली	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	61	एम पी सिंह	डी ई	विधुत मंडल मुंगवाली	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	62	सालिगराम सोलंकी	बी ई ओ	ईसागढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए



1	2	3	4	5	6	7
अशोक नगर	एस एस चौहान		सहायक यंत्री	पी एच ई अशोकनगर	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	ए के अंगरवाल		सहायक वाणिज्यकर अधिकारी	वाणिज्यकर विभाग अशोकनगर	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	विक्रम धुर्वे		सहायक प्राध्यापक	नेहरू डिग्री कॉलेज अशोकनगर	फर्स्ट क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	पी एस मीना		सहायक मत्स्य अधिकारी	मत्स्य विभाग अशोकनगर	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	यू एस वर्मा		ई ई	पी एच ई अशोकनगर	फर्स्ट क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	चिता मणि पाण्डेय		बी ई ओ	अशोकनगर	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	के के शर्मा		प्राचार्य	गौ पाली टेक्निक कॉलेज अशोकनगर	फर्स्ट क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	हेमराज कोरी		सहायक यंत्री	पी डब्लू डी mungawali	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	विनय कुमार जैन		परियोजना अधिकारी	महिले बाल विकास अशोकनगर	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	आर के खंडेलवाल		सहायक यंत्री	पी एच ई अशोकनगर	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	डॉ कल्पना दीवान			पशु पालन विभाग	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	अमित तिवी		सहायक संचिकये अधिकारी	योजना मंडल अशोकनगर	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	मनोज रघुवंशी		सहायक परियोजना संचालक	आत्मसा समिति अशोकनगर	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	अशोक कुमार रघुवंशी		सहायक संचिकये अधिकारी	योजना मंडल अशोकनगर	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	मनोज शर्मा		सचिव	कृषि मंडी समिति शांडौरा	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	आर के जैन		सचिव	कृषि मंडी समिति मुंगावली	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	रामचरण अहिरवार		सी एम ओ	नगरपालिका मुंगावली	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	एम पी शर्मा		सचिव	कृषि मंडी समिति अशोकनगर	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	आर के खातरकर		खनिज अधिकारी	खनिज विभाग अशोकनगर	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	ओ पी झा		सी एम ओ	नगर पालिका अशोकनगर	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	हेमंत श्रीवास्तव		उप यंत्री	जनपद पंचायत अशोकनगर	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	हीरालाल अहिरवार		सी एम ओ	नगर पालिका चंदेरी	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	हेमंत श्रीवास्तव		सहायक यंत्री	सिंचाई विभाग ईसागढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	शिवराम जाटव		सी एम ओ	नगर पालिका ईसागढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	रमाशंकर शर्मा		ए ई	पी डब्लू डी विभाग मुंगावली	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	वीरेंद्र शाव्य		ए ई	सिंचाई विभाग मुंगावली	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	प्रणव पाठक		ए ई	पी एच ई अशोकनगर	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	हीरालाल बाथम		ए ई	जल संसाधन विभाग अशोकनगर	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
अशोक नगर	91	पी के झारिया	कार्यपालन यंत्री	जल संसाधन विभाग अशोकनगर	फर्स्ट क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	92	रोमिन शुक्ला	रे ई	राजघाट चंदेरी	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	93	नीरज शुक्ला	प्राचार्य	शासकीय कन्या उच्चतर विद्यालय अशोकनगर	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	94	डी के रघुवंशी	रे ई	राजघाट विधुत चंदेरी	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	95	सैयद मजर अली	सी ई ओ	जनपद पंचयत मुंगावली	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	96	अशोक बाथम	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी	भूमि संरक्षण विभाग अशोकनगर	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	97	महेन्द्र सिंह अम्ब	परियोजना अधिकारी	महिले वाल विकास चंदेरी	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	98	दामोदर पालीवाल	सचिव	कृषि उपज मंडी ईसागढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	99	सुरेश कुमार श्रीवास्तव	एस एल आर	भू अभिलेख अशोकनगर	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	100	अरविन्द जैन	रे एस अल आर	भू अभिलेख अशोकनगर	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	101	ब्रज भूषण श्रीवास्तव	रे एस अल आर	भू अभिलेख अशोकनगर	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
अशोक नगर	102	अनिल कुमार शर्मा	रे एस अल आर	भू अभिलेख अशोकनगर	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	1	श्री आर सी गुसा	प्राध्यापक	शास स्नात महा बीना	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	2	श्री बी पी पटेल	अभि विधुत बीना	अभि विधुत बीना	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	3	श्री गोपीचंद मर्सकोल	कार्यपालन यंत्री	जल संसाधन विभाग	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	4	श्री एम के सक्सेना	उपयंत्री	आर ई एस बीना	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	5	श्री आर यू खान	कार्यपालन यंत्री	गृह निर्माण मंडल सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	6	श्री अनुराग श्रीवास्तव	सहायक यंत्री	गृह निर्माण मंडल सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	7	श्री बोरेंद्र सिंह बघेल	क्षेत्रीय प्रबंधक	राज्य बीज निगम सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	8	डॉ आर के सराफ	वैज्ञानिक	कृषि अनुसन्धान केंद्र गढ़ाकोटा	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	9	डॉ ए एस यादव	वैज्ञानिक	कृषि विज्ञान केंद्र सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	10	श्री जी डी विश्वकर्मा	अनुविभागीय अधिकारी	आर ई एस बीना	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	11	श्री बलराम सिंह	सहायक प्राध्यापक	शास स्नात महा बीना	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	12	श्री डी पी यादव	सहायक प्राध्यापक	शास स्नात महा बीना	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	13	श्री विनोद घाटगे	सहायक नियंत्रक	नाप तोल विभाग सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	14	श्री पी सी तोमर	कार्यपालन यंत्री	वेयर हाउस सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	15	श्री ई के यदुशंकर	कार्यपालन यंत्री	वेयर हाउस सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	16	श्री आर के भगत	आंचलिक अभियंता	वेयर हाउस सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	17	श्री प्रदीप जैन	सहायक संचालक	लोक शिक्षण संभाग सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	18	श्री एस के जैन	सहायक अभियंता	विधुत मंडल सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	19	श्री एस के विश्वास	उपकुलसचिव	सागर विश्वविद्यालय	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
सागर	श्री एस के गुप्ता	सहायक यंत्री	सहायक यंत्री	जल संसाधन विभाग खुरई	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री के एस ठाकुर	सहायक संचालक	सहायक संचालक	लोक शिक्षण संभाग सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री संतोष मंदसोर	जिला प्रबंधक	जिला प्रबंधक	एम पी एगो सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री एच बी चंदेरिया	जिला ग्रामो अधिकारी	जिला ग्रामो अधिकारी	जिला पंचायत	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री एस आर पटेल	सहायक यंत्री	सहायक यंत्री	लो स्वा यां सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री गौतम सिंह यादव	सहायक संचालक	सहायक संचालक	पिछडा वर्ग अल्प संख्यक सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री बी एस पटेल	सहायक अभियंता	सहायक अभियंता	विद्युत् मंडल सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री पी सी वर्मा	कार्यपालन यंत्री	कार्यपालन यंत्री	राष्ट्रीय राजमार्ग सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री आर पी चक्रवर्ती	उपसंचालक	उपसंचालक	म प्र कृषि विपणन सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री आर के तामकार	कार्यपालन यंत्री	कार्यपालन यंत्री	म प्र कृषि विपणन सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री कर्नेश तिवारी	सहायक संचालक	सहायक संचालक	म प्र कृषि बोर्ड सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री नरेन्द्र कुमार खरे	सहायक यंत्री	सहायक यंत्री	म प्र कृषि विपणन सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	डॉ ए के गुप्ता	पशु चिकित्सा सहा शल्यज्ञ	पशु चिकित्सा सहा शल्यज्ञ	पशु चिकित्सा विभाग खुरई	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री पी एल प्रजापति	प्राधापक	प्राधापक	शास पोलीटेक्निक खुरई	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री आर एस कुर्मी	प्राचार्य	प्राचार्य	शास हाई स्कूल कठेली खुरई	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री जे एम तिवारी	अनुविभागीय अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी	लो नि वि सेतु सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री हरीश दुबे	जिला प्रबंधक	जिला प्रबंधक	डी पी आई पी - 2 सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री अजय सिंह ठाकुर	सहायक प्राधापक	सहायक प्राधापक	शास कन्या स्नात महा खुरई	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री एम एल साहू	व्याख्याता	व्याख्याता	शास ऊ मा वि खुरई	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री आर एस शर्मा	प्राचार्य	प्राचार्य	पथरिया जेगन	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	डॉ आर के जैन	पशु चिकित्सा सहा शल्यज्ञ	पशु चिकित्सा सहा शल्यज्ञ	संयु संचालक पशु चिकित्सा सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री बी एस मरावी	कार्यपालन यंत्री	कार्यपालन यंत्री	लो नि वि पी आई यू सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री राजीव खलको	सहायक प्राधापक	सहायक प्राधापक	सागर विश्वविद्यालय	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री संतोष सोहगोरा	उपकुलसचिव	उपकुलसचिव	सागर विश्वविद्यालय	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री एस पी उपाध्याय	उपकुलसचिव	उपकुलसचिव	सागर विश्वविद्यालय	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	डॉ एस सी पालीवाल	पशु चिकित्सा सहा शल्यज्ञ	पशु चिकित्सा सहा शल्यज्ञ	पशु चिकित्सा विभाग राहतगढ़	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री पी के जैन	उपसंचालक खादी	उपसंचालक खादी	जिला पंचायत	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री राकेश अमपुरी	सहायक अभियंता	सहायक अभियंता	विद्युत् मंडल सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री शशि कुमार सिंह	सहायक प्राधापक	सहायक प्राधापक	सागर विश्वविद्यालय	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री जी पी सिन्हा	प्राचार्य	प्राचार्य	शास ऊ मा वि बिचपुरी	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री पी के शर्मा	रोजगार अधिकारी	रोजगार अधिकारी	रोजगार कार्यालय सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
सागर	श्री आर के साहू	वरिष्ठ भू जल	भू जल कार्यालय सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए	
सागर	श्री एस के सक्सेना	वरिष्ठ भू जल	भू जल कार्यालय सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए	
सागर	श्री के सी कोरी	सहायक यंत्री	अधी यंत्री या यां से सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए	
सागर	श्री जी एस रोहित	प्राचार्य	शास महा राहतगढ़	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए	
सागर	श्री जे के मिश्र	एसोशिएट प्रोफेसर	सागर विश्वविद्यालय	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए	
सागर	श्री अनिल मिश्रा	प्राचार्य	शास ऊ मा वि तिली सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए	
सागर	श्री ललित कुमार खरे	कार्यपालन यंत्री	धसान केन सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए	
सागर	श्री राधेश्याम पाण्डेय	सहायक यंत्री	धसान केन सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए	
सागर	श्री अवधेश कुमार चौबे	सहायक यंत्री	धसान केन सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए	
सागर	श्री सी के जायसवाल	सहायक यंत्री	विद्युत् यन्त्र नलकूप सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए	
सागर	डॉ रामहेत गौतम	सहायक यंत्री	सागर विश्वविद्यालय	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए	
सागर	श्री कालीनाथ झा	एसोशिएट प्रोफेसर	सागर विश्वविद्यालय	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए	
सागर	श्री मोती लाल वर्मा	एसोशिएट प्रोफेसर	जल संसाधन मंडल सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए	
सागर	श्री एन पी चौधरी	सहायक यंत्री	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए	
सागर	डॉ वी के श्रीवास्तव	प्राचार्य	महिला आई टी आई सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए	
सागर	डॉ डी एस राजपूत	असिस्टेंट प्रोफेसर	सागर विश्वविद्यालय	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए	
सागर	श्री वी के पन्था	उपसंचालक	स्थानीय निधि संपरीक्षा सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए	
सागर	डॉ के बी जोशी	असिस्टेंट प्रोफेसर	सागर विश्वविद्यालय	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए	
सागर	श्री एल पी पाठक	अनुविभागीय अधिकारी	जल संसाधन विभाग सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए	
सागर	डॉ पी डी राजपूत	प्राधापक	शास स्नात महा देवरी	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए	
सागर	श्री एच एन तिवारी	प्राचार्य	शास ऊ मा वि देवरी	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए	
सागर	डॉ के एस राजपूत	पशु चिकित्सा सहा शल्यज्ञ	पशु चिकित्सा विभाग केसली	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए	
सागर	डॉ ललित मोहन	एसोशिएट प्रोफेसर	सागर विश्वविद्यालय	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए	
सागर	डॉ प्रभुमन कुमार	एसोशिएट प्रोफेसर	सागर विश्वविद्यालय	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए	
सागर	डॉ पी के सिंह	पशु चिकित्सा सहा शल्यज्ञ	पशु चिकित्सा विभाग नरयावली	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए	
सागर	डॉ एस के नामदेव	पशु चिकित्सा सहा शल्यज्ञ	पशु चिकित्सा विभाग जरआखंडा	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए	
सागर	डॉ एस के अग्रवाल	पशु चिकित्सा सहा शल्यज्ञ	पशु चिकित्सा विभाग सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए	
सागर	डॉ डी डी चढार	पशु चिकित्सा सहा शल्यज्ञ	पशु चिकित्सा विभाग सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए	

1	2	3	4	5	6	7
सागर	श्री ओ पी विश्वकर्मा		प्राचार्य	आई टी आई सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	डॉ ए के मिश्रा		पथु चिकित्सा सहा शल्यज्ञ	पथु चिकित्सा विभाग रतौना सागर	राजपत्रित	
सागर	श्री प्रो एस के गुप्ता		एसोशिएट प्रोफेसर	सागर विश्वविद्यालय	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	डॉ गोपाल प्रसाद		एसोशिएट प्रोफेसर	सागर विश्वविद्यालय	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री इन्दुनाथ तिवारी		प्राचार्य	शास ऊ मा वि गढ़ाकोटा	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री एम एम असाढी		सहायक यंत्री	जल संसाधन मंडल सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	डॉ विमलेश चन्द्र		असिस्टेंट प्रोफेसर	सागर विश्वविद्यालय	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	डॉ मन्मथन्य देव प्राण		असिस्टेंट प्रोफेसर	सागर विश्वविद्यालय	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री एस के प्रजापति		सहायक वनसंरक्षक	उत्तर वनमंडल	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री बी एस ठाकुर		अनुविभागीय अधिकारी	लो लि वि देवरी	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री राजेश कुमार गौतम		असिस्टेंट प्रोफेसर	सागर विश्वविद्यालय	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री आर के गुप्ता		प्राचार्य	शास ऊ मा वि चनौआ	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री एम एम पटेल		सहायक यंत्री	नगरीय प्रशासन सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री मेघराज सिंह		उपयंत्री	लो स्वा या सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री राजशेखर पाण्डेय		प्रबंधक	जिला उद्योग केंद्र सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	डॉ डी सी शर्मा		असिस्टेंट प्रोफेसर	सागर विश्वविद्यालय	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री एम एल तिवारी		सहायक यंत्री	नगरीय प्रशासन सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री सी के सिंह		अधीक्षक यंत्री	लो स्वा या सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री दीपक कुमार शाक्य		सहायक कुलसचिव	सागर विश्वविद्यालय	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	डॉ आर पी पाण्डेय		असिस्टेंट प्रोफेसर	सागर विश्वविद्यालय	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री संजीव कुमार जैन		सहायक कुलसचिव	सागर विश्वविद्यालय	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री बी एल प्रजापति		उपसंचालक	महिला सशक्तिकरण सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री उत्सव आनंद		असिस्टेंट प्रोफेसर	सागर विश्वविद्यालय	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री आर के पाल		सहायक कुलसचिव	सागर विश्वविद्यालय	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री पी सी वैश्य		सहायक आयुक्त	वार्षिक विभाग सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री विवेक विसारिया		सहायक कुलसचिव	सागर विश्वविद्यालय	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	डॉ पी डी पाल		पथु चिकित्सा सहा शल्यज्ञ	सागर विश्वविद्यालय	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री पी के अवस्थी		सहायक अभियंता	पथु चिकित्सा विभाग देवरी	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री आर के जैन		सहायक यंत्री	विद्युत् मंडल केसली	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	डॉ वसीम अनवर		असिस्टेंट प्रोफेसर	जल संसाधन क्र 1 सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री अबू शहीम खान		असिस्टेंट प्रोफेसर	सागर विश्वविद्यालय	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	डॉ देवशीष बोस		असिस्टेंट प्रोफेसर	सागर विश्वविद्यालय	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	श्री आर के गुप्ता		प्राचार्य	शास ऊ मा वि बमोरी रंगुआ	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
सागर	113	श्री वी के सिंघई	सहा परि प्रबंधक	पी एम यू क्र -3 सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	114	श्री आर एस तोमर	सहा परि प्रबंधक	पी एम यू क्र -3 सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	115	श्री पी के जवार	कार्यपालन यंत्री	भरी मशीनरी संभाग सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	116	श्री अशोक श्रीवास्तव	प्रबंधक	जिला उद्योग केंद्र सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	117	श्री अखिलेश पाठक	प्राचार्य	शास हाई स्कूल भैंसा नाका सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	118	श्री प्रशांत बामनकर	जिला विपणन अधिकारी	राज्य विपणन संघ सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	119	श्री आर के शर्मा	उपसंचालक	नगरीय प्रशासन सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	120	श्री ए के जैन	सहा प्रबंधक	जिला उद्योग केंद्र सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	121	श्री पी एन अहिरवार	सहा प्रबंधक	जिला उद्योग केंद्र सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	122	श्री के बी पटेल	सहा प्रबंधक	जिला उद्योग केंद्र सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	123	श्री आर के श्रीवास्तव	सहायक वनसंरक्षक	उत्तर वनमंडल सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	124	श्री एस आर पटेल	प्राचार्य	शास ऊ मा वि पामाखेडी	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	125	श्री जे पी लारिया	सहायक यंत्री	लो स्वा यां खंड शाहगढ़	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	126	श्री एच एन मिश्रा	सहायक यंत्री	लो स्वा यां देवरी	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	127	श्री पी एल चौधरी	सहायक यंत्री	लो स्वा यां खुरई	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	128	श्री राजेंद्र कुसराम	सहायक वाणिज्यिक्य अधि	वाणिज्यिक विभाग सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	129	श्री जी एस चौहान	सहायक वनसंरक्षक	अनुसन्धान एवं विस्तार सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	130	श्री आर एस पाण्डेय	सहायक संचालक	संयुक्त संचालक कृषि सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	131	श्री एल एल चौहान	उपसंचालक	उपसंचालक कृषि सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	132	श्री के एल रोहित	सहायक संचालक	पशु चिकित्सा विभाग संभाग सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	133	डॉ एस के वर्मा	एसोशिएट प्रोफेसर	इंजीनियरिंग कॉलेज सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	134	श्री ज्ञानेंद्र पाण्डेय	महा प्रबंधक	जिला सहकारी केंद्रीय बैंक सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	135	श्री वी एस राय	कार्यपालन यंत्री	पट्टण बोर्ड सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	136	डॉ आनंद तिवारी	सहायक प्राधापक	शास कन्या महा सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	137	श्री जमुना प्रसाद सेनी	सहायक कुलसचिव	सागर विश्वविद्यालय	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	138	श्री एम जे चौधरी	सहायक कुलसचिव	सागर विश्वविद्यालय	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	139	डॉ नीलमेश वर्मा	ग्रंथपाल	शा कला वाणि महा सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	140	श्री पी एस मोहनिया	कार्यपालन यंत्री	जल संसाधन मंडल सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	141	डॉ एस पी बिजौरिया	विभाग अध्यक्ष	शास पोलीटेक्निक सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	142	श्री एम एल तिवारी	सहायक यंत्री	नगरीय प्रशासन सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	143	श्री आर पी कुर्मी	ट्याख्याता	शा कृषि उ मा वि रहली	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
सागर	144	डॉ संजय बरोलिया	असिस्टेंट प्रोफेसर	सागर विश्वविद्यालय	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	145	डॉ आशुतोष गोस्वामी	अति जिला परि समन्वयक	सर्व शिक्षा सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	146	डॉ पंकज चतुर्वेदी	असिस्टेंट प्रोफेसर	सागर विश्वविद्यालय	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	147	श्री संतोष कुमार	सहायक कुलसचिव	सागर विश्वविद्यालय	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	148	श्री आर आर निगम	सहायक कुलसचिव	सागर विश्वविद्यालय	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	149	श्री पी एल प्रजापति	व्याख्याता	शास पोलीटेक्निक खुरई	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	150	श्री एम पी शर्मा	सहायक यंत्री	भरी मशीनरी संभाग सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	151	श्री आर के जैन	मुख्या वैज्ञानिक अधिकारी	म प्र प्रदूषण बोर्ड सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	152	श्री आशीष वर्मा	असिस्टेंट प्रोफेसर	सागर विश्वविद्यालय	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	153	डॉ अमर कुमार जैन	सहायक प्राध्यापक	शा कला वाणि महा सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	154	श्री एन के जैन	कार्यपालन यंत्री	जल संसाधन क्र 2 केसली	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	155	श्री बी के जैन	सहायक यंत्री	जल संसाधन क्र 2 केसली	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	156	श्री हरगोविंद कुम्हार	सहायक यंत्री	जल संसाधन क्र 2 केसली	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	157	श्री के एस ठाकुर	खंड शिक्षा अधिकारी	बी ई ओ देवरी	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	158	श्री आदिनाथ चतुर्वेदी	सहायक यंत्री	जल संसाधन क्र 2 बीना परि सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	159	श्री अनिरुद्ध आनंद	सहायक यंत्री	जल संसाधन क्र 2 सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	160	श्री बी पी सिंह	परि अधि	एकीकृत बाल विकास परि राहतागढ़	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	161	श्री श्रवण कुमार गंडाम	सहायक अभियंता	विद्युत् वितरण केंद्र सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	162	श्री आर के श्रीवास्तव	अनुविभागीय अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी बडा	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	163	डॉ आर के गौतम	पशु चिकित्सा सहा शल्यज्ञ	पशु चिकित्सा विभाग बडा	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	164	श्री आर के जैन	सहायक यंत्री	धसान केन कछार सागर मंडल	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	165	डॉ सतीश श्रीवास्तव	पशु चिकित्सा सहा शल्यज्ञ	पशु चिकित्सा विभाग सिरौजा सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	166	श्री अशोक तिवारी	प्राचार्य	शास उत्कृष्ट विद्या शाहगढ़	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	167	श्री जे एस ठाकुर	प्राचार्य	शास ऊ मा वि करीपुर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	168	डॉ पी आर घोष	पशु चिकित्सा सहा शल्यज्ञ	पशु चिकित्सा विभाग खुरई	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	169	श्री जी पी पन्त	कार्यपालन यंत्री	लो नि वि सेतु सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	170	श्री एस के जैन	सहायक आयुक्त	सहकारिता सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
सागर	171	डॉ धर्मन्द्र सिंह	पशु चिकित्सा सहा शल्यज्ञ	पशु चिकित्सा विभाग सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	172	श्री आर के सैनी	अनुविभागीय अधिकारी	लो स्वा यां	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	173	श्री आर बी खरे	सहायक संचालक	स्थानीय निधि संपरीक्षा सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	174	श्री सी पी श्रीवास्तव	सहा प्रबंधक	रोड डेवलपमेंट सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	175	श्री एम के नागवंशी	उपसंचालक	रोजगार कार्यालय सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	176	श्री ज्ञानेश कुमार तिवारी	असिस्टेंट प्रोफेसर	सागर विश्वविद्यालय	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	177	श्री राम चरण सिंह रावत	प्राध्यापक	इंजीनियरिंग कॉलेज सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	178	श्री हेमंत कुमार मिश्रा	प्राध्यापक	इंजीनियरिंग कॉलेज सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	179	डॉ ए सी जैन	प्राध्यापक	शा कला वाणि महा सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	180	डॉ आर के अग्रवाल	रीडर	इंजीनियरिंग कॉलेज सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	181	डॉ अखिलेश कुमार	प्राध्यापक	शास स्वा कन्या स्नात महा सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	182	डॉ पंकज सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर	सागर विश्वविद्यालय	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	183	श्री श्याम मनोहर पचौरी	प्राध्यापक	शास महाविद्यालय गढाकोटा	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	184	श्री दीपक राज दुबे	प्राध्यापक	इंजीनियरिंग कॉलेज सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	185	श्री अमरेन्द्र त्रिपाठी	असिस्टेंट प्रोफेसर	सागर विश्वविद्यालय	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	186	श्री नत्थुलाल प्रजापति	रीडर	इंजीनियरिंग कॉलेज सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	187	श्री उमेश कुमार साहू	कार्यपालन यंत्री	शा यां से सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	188	डॉ निर्भय सिंह	प्राध्यापक	शास नेहरु स्नात महा देवरी	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	189	श्री नरेन्द्र सिंह ठाकुर	प्राध्यापक	शास स्वा कन्या स्नात महा सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	190	श्री मनीराम अहिरवार	प्राध्यापक	इंजीनियरिंग कॉलेज सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	191	डॉ रामकृष्ण राजोरिया	प्राध्यापक	शास नेहरु स्नात महा देवरी	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	192	श्री सुनील रावत	सहायक यंत्री	विद्युत् यांत्रिकी सेवा सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	193	श्री आर के दीक्षित	सहायक यंत्री	शा यां से सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	194	डॉ गोविन्द सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर	सागर विश्वविद्यालय	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	195	श्री नीरज दुबे	प्राध्यापक	शा कला वाणि महा सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	196	डॉ ललित मोहन	विभागाध्यक्ष	सागर विश्वविद्यालय	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	197	श्री मोतीलाल वर्मा	मानचित्रकार	अधीक्षक यंत्री जल संसाधन मंडल सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	198	श्री देवेन्द्र कुमार जैन	उपयंत्री	जल संसाधन क्र 1 सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	199	श्री एम पी लोधी	उपयंत्री	जल संसाधन क्र 1 सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
सागर	200	श्री प्रेमलाल राय	उपयंत्री	जल संसाधन क्र 1 सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए



1	2	3	4	5	6	7
सागर	201	श्री के बी मिश्रा	उपयंत्री	जल संसाधन क्र 1 सागर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	1	सेफ उल्ला खान	जिला क्रीडा अधिकारी	SUPD. OF POLICE टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	2	राम अवतार सिंह इंदूरिया	सहा. भू. संरक्षण अधिकारी	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	3	रामलखन पटैरिया	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	पशु पालन विभाग टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	4	मुन्नालाल सेवार	पशु चिकित्सा शल्यज्ञ	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवार्य टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	5	डॉ हरदास अहिरवार	पशु चिकित्सक	उप संचालक कृषि टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	6	डॉ कृष्णमुरारी राजपत	पशु चिकित्सा शल्यज्ञ	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवार्य टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	7	विकेश राय	परियोजना अधिकारी	परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना बल्लेवगढ़.	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	8	डॉ अजित दीक्षित पशु चिकित्सा शल्यज्ञ उप संचालक पशु चिकित्सा सेवार्य टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए		
टीकमगढ़	9	ओ.पी.कोरी	उपयंत्री	जनपद पंचायत जतारा जिला टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	10	जी.डी.शुक्ला	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी प्रथीपुर	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	11	दीपक श्रीवास्तव	उपयंत्री	जनपद शिक्षा केन्द्र जतारा	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	12	सुरेश सिंह कुशवाह	सहायक संचालक उद्यान	सहायक संचालक उद्यान टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	13	गोविन्द सिंह शाक्य	जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी	जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	14	वी.पी रावत	जिला पंजीयक	जिला मुद्रांक एवं पंजियन विभाग टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	15	सनत कुमार त्यागी	सहायक संचालक मत्स्य	सहायक संचालक मत्स्योद्योग टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	16	डॉ. एस.के.चौरसिया	प्रमुख बैज्ञानिक	कार्यालय अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	17	सुरेश कुमार खरे	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बल्लेवगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	18	आर.पी.समले	उपयंत्री	कार्यालय कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	19	एम.के.अथवाल	प्राचार्य	प्राचार्य शास. पोलीटेक्निक महाविद्यालय टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	20	ओ.पी.मिश्रा	प्रभारी प्राचार्य	प्राचार्य शास. पोलीटेक्निक महाविद्यालय टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	21	विनोद गुप्ता	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	22	आर.के.पाठक	प्रमुख बैज्ञानिक	कार्यालय अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	23	दही एस राजपूत	प्रध्यापक भूगोल विभाग	कार्यालय कार्यपालन यंत्री	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	24	उदय वर्णाकर	उपयंत्री	सर्वेक्षण एवं अनुसंधान ट	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	25	के.के.गुप्ता	संचालक	प्रबंधक, हाथकरघा निवाडी जिला टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	26	डी.आर.कुम्हार	उपयंत्री	जिला गरीबी उन्मूलन परि.डी.पी.आई.पी.टी	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	27	डी.एस.चौहान	एस.डी.ओ.	वन विभाग निवाडी	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	28	पी.एन.यादव	उपयंत्री	कार्यपालन अभि एसटीएम म.प्र.क्ष.वि.वि.लि.टी	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	29	सुरेन्द्र कुमार सक्सेना	जिला परियोजना समन्वयक	जिला शिक्षा केन्द्र टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	30	जी.पी. तिवारी	अनुविभागीय अधिकारी	SUB DIVISIONAL OFFICER (AGRI.) TKG	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	31	शेख मुवारिक खां	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	32	रमेशचन्द्र बंशकार	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	33	डॉ. आर.के.जैन	पशु चिकित्सक	सहायक संचालक पशु चिकित्सा सेवा भंड फार्म मिर्जौरा ट	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	34	डी.के.दीक्षित	परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास परियोजना निवाडी	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	35	एम.एस. राजपूत	उपयंत्री	कार्यालय कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान ट	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	36	एस.के. चौबे	उपयंत्री	कार्यालय कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान ट	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	37	व्ही.के. जैन	उपयंत्री	कार्यालय कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान ट	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	38	भानू प्रताप सिंह	श्रम अधिकारी	LABOUR OFFICER Tikamgarh	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	39	मथुरा प्रसाद रजक	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	40	शैलेंद्र तिवारी	अनुविभागीय अधिकारी	कार्य.यंत्री म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड सं.2टी.	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	41	व्ही.के. अग्रवाल	कार्यपालन अधिकारी	जिला अंत्यावसायी सह.विकास समिति मर्या	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	42	दीपक सतपुते	कार्यपालन यंत्री	कार्यालय कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान ट	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	43	जे.पी. रोहित	कार्यपालन यंत्री	कार्यपालन यंत्री आर0ई0एस0 टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	44	मनोज कुमार मित्तल	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	45	योगेन्द्र कुमार गुप्ता	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	46	बी.एस. तोमर	सहा.अभि.	म.प्र.विद्युत मण्डल टीकमगढ़ 9	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	47	ओम प्रकाश शर्मा	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री आर0ई0एस0 टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	48	भानूप्रताप शर्मा	सहायक संचालक	उप संचालक कृषि टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	49	विजय कुमार सोनी	उपयंत्री	नगर परिषद जतारा	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	50	पी.एन. श्रीवास्तव	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	51	आर.के. मैत्रा	अनुविभागीय अधिकारी	कार्य.यंत्री म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड सं.2टी.	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	52	आर.के. चौरसिया	उपयंत्री	कार्यालय कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान ट	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	53	रजनीश कुमार तिवारी	उपयंत्री	कार्यालय कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान ट	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	54	डी.डी. अहिरवार	अधीक्षक	अधीक्षक आई.टी.आई.टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	55	टी.के. सरखेल	सहायक यंत्री	कार्य.अभि.सं./सं.पू.क्ष.वि.वि.कं.लि पृथ्वीपुर	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	56	हरप्रसाद अहिरवार	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री आर0ई0एस0 टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	57	सी.डी. पाठक	उपयंत्री	सहा.यंत्री लोक स्वा.यांत्रिकी विभाग मेके.उप.टी	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	58	अनिल कुमार लगरखा	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	59	डी.पी. चौरसिया	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	60	एस.के. राणा	उपयंत्री	कार्यालय कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान ट	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	61	राजेश कुमार पाठक	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री आर0ई0एस0 टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	62	एस.के. खरे	पशु चिकित्सा	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	63	एस.सी. शुक्ला	ए.पी.ओ.	जिला पंचायत टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	64	देवेन्द्र सिंह सैंगर	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	65	संजय कुमार वर्मा	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	66	भरत कुमार साहू	उपयंत्री	CEO J P TIKAMGARH	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	67	पंकज कुमार शुक्ला	प्रशिक्षण अधीक्षक	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ओरछा	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	68	ए.डी. समाधिया	उपयंत्री	सहा.यंत्री लोक स्वा.यांत्रिकी विभाग मेके.उप.टी	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	69	प्रमोद कुमार नायक	विकास खण्ड अधिकारी	CEO J P TIKAMGARH	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	70	जगदीश प्रसाद दुबे	उपयंत्री	जनपद पंचायत निवाडी	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	71	मुकेश चौर	सहा.अभि.	म.प्र.विद्युत मण्डल टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	72	अजब सिंह ठाकुर	सहायक संचालक	कार्या. जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	73	ओ.पी. त्रिपाठी	योजना अधिकारी	कार्या. जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	74	बजबिहारी दुबे	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	75	डॉ. आर.एन्.नीखरा	जिला शिक्षा अधिकारी	कार्या. जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	76	कालीचरण राजपूत	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री आर0ई0एस0 टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	77	भगवानदास कोरी	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री आर0ई0एस0 टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	78	एल.एल.धतरा	सहायक यंत्री	सहा.यंत्री लोक स्वा.यात्रिकी विभाग मेके.उप.टी	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	79	ए.एस.कुशवाह	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	80	सजीव कुमार शर्मा	सहायक मृदा सर्वेक्षण अधिकारी	सहायक मृदा सर्वेक्षण अधिकारी	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	81	रामनाथ अहिरवार	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	82	राजेन्द्र सिंह सोलंकी	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	83	देवीप्रसाद साहू	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	84	योगेन्द्र सिंह भदौरिया	सहायक यंत्री	कृषि अभियांत्रिकीय विभाग टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	85	महेश बादल	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी जतारा	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	86	ए.के.शर्मा	परियोजना अधिकारी नरेगा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	87	एस.के.अग्निहोत्री	प्रोजेक्ट मैनेजर	कार्यपालन यंत्री आर0ई0एस0 टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	88	अशोक कुमार खरे	जिला परियोजना प्रबंधक	जिला गरीबी उन्मूलन परि.डी.पी.आई.पी.टी	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	89	दही के सिंह	सहायक प्रध्यापक	कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	90	के.पी.पटैरिया	पशु चिकित्सा सहायक	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	91	बी.एस.राठौर	प्रबंधक	म0य0 वेयर हाउसिंग लॉजी0 कार्पो.टी	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	92	अयोध्या प्रसाद सुमन	परियोजना संचालक आत्मा	उप संचालक कृषि टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	93	आर.के.साहू	मैनेजर	DPIP	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	94	अखिलेश जैन	उपायुक्त	सहायक पंजीयक अंकेक्षण सहकारी संस्थाने टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	95	देवेन्द्र शुक्ला	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	96	सतीश कुमार यादव	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	97	आर.डी. गुप्ता	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	98	प्रकाश सिंह	अनुविभागीय अधिकारी	कार्ययंत्री म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड सं.2टी.	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	99	पुरुषोत्तम लाल पटेल	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री आर0ई0एस0 टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	100	सुरेन्द्रपाल सिंह	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यात्रिकी	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	101	बी.के. चतुर्वेदी	उपयंत्री	नगर पालिका परिषद टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	102	मौलाबक्स मसूरी	उपयंत्री	कार्यालय कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	103	मुकेश चतुर्वेदी	उपयंत्री	कार्यालय कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान ट	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	104	संतोष कुमार खरे	उपयंत्री	कार्यालय कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान ट	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	105	अनीश कुमार खरे	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यात्रिकी	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	106	आनंद कुमार सोनी	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	107	आलोक कुमार खरे	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	108	इन्द्र भूषण तिवारी	परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास सेवा टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	109	जुरगा प्रसाद अहिरवार	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यात्रिकी	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	110	प्रमोद कुमार जैन	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	111	राम कृपाल रघुवंशी	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यात्रिकी	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	112	राम कुमार0 बर्मा	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यात्रिकी	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	113	हेमंत कुमार शर्मा	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	114	एन.के.शर्मा	उपयंत्री	कार्यालय कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान ट	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	115	अतर सिंह पहाडिया	अनुविभागीय अधिकारी	SUB DIVISIONAL OFFICER (AGRI.) NIWARI TKG	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	116	अमित कुमार तिवारी	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	117	आर.के.अथवाल	उपयंत्री	नगर पालिका परिषद टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	118	उमेशचन्द्र त्रिपाठी	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	119	एस.एल.त्रिपाठी	उपयंत्री	नगर पालिका परिषद टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	120	डी.के.अथवाल	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	121	नूतन श्रीवास्तव	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	122	प्रशांत कौर्या	सहा.अभि.	म.प्र.विद्युत मण्डल टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	123	राजेश कुमार पाठक	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	124	राम किशोर दुबे	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	125	सुरेन्द्र कुमार जैन	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	126	सुरेन्द्र भूषण नायक	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	127	हरीश कुमार बिरथरे	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	128	डॉ. इन्द्रजीत जैन	प्राध्यापक	शास.स्नातकोत्तर महाविद्यालय टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	129	डा. के.सी.शुक्ला	सहायक प्राध्यापक	कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	130	डॉ. विजयसिंह शाक्य	सहायक प्राध्यापक	शास.महाविद्यालय टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	131	डॉ.आर.एस.रघुवंशी	सहायक प्राध्यापक	कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	132	डॉ. राममोहन दुबे	सहायक प्राध्यापक	कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	133	श्री आर.के.प्रजापति	विषयवस्तु विशेषज्ञ	कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	134	श्री आर.सी.तिवारी	सहायक प्राध्यापक	कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	135	श्री एस.एस.गौतम	विषयवस्तु विशेषज्ञ	कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	136	श्री एस.के.खरे	विषयवस्तु विशेषज्ञ	कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	137	श्री एस.पी.गुप्ता	प्रमुख वैज्ञानिक	कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	138	श्री डॉ.व्ही.के.दीक्षित	सहायक प्राध्यापक	कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	139	श्री वी.एल.साहू	विषयवस्तु विशेषज्ञ	कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	140	डॉ. एन.पी.प्रजापति	सहायक प्राध्यापक	शास.महाविद्यालय टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	141	श्री सुनील वर्मा	जिला परियोजना प्रबन्धक	तेजस्वनी परियोजना टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	142	श्री ए.पी.चतुर्वेदी	प्राध्यापक	शा.स.स्नातकोत्तर महाविद्यालय टीकमगढ़	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	143	श्री पी के त्रिपाठी	सहायक यंत्री	जल संसाधन विभाग	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
टीकमगढ़	144	राकेश कौशल	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	सेकंड क्लास	संपूर्ण जिले के लिए
छतरपुर	1	shri samar bahadur	adhikari	छतरपुर		संपूर्ण जिले के लिए
छतरपुर	2	सी बी त्रिपाठी	सहायक यंत्री	जनपद पंचयत नौगाँव	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
छतरपुर	3	कृष्ण कुमार मिश्रा	सहायक यंत्री	कुटनी बांध खजवा राजनगर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
छतरपुर	4	अभय कुमार जैन	कार्यपालन यंत्री	जल संसाधन सम्भाग नौगाँव	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
छतरपुर	5	व्ही.डी.नाट्	योजना अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
छतरपुर	6	एम.आई.कुरेशी	अनुविभागीय अधिकारी	जल मौसम विज्ञान उप क्रमांक ९ छतरपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
छतरपुर	7	एस.के.जैन	रोजगार अधिकारी	कार्यालय रोजगार अधिकारी छतरपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
छतरपुर	8	व्ही.के.जैन	कार्यपालन अधिकारी	जिला अत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित छतरपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
छतरपुर	9	भानु प्रताप सिंह	उप परियोजना संचालक	आत्मा छतरपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
छतरपुर	10	बी.एस.कोठारी	सहायक कृषि यंत्री	krishi abhiyantriki छतरपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
छतरपुर	11	vimal tiwari	पशु चिकित्सा chhetra अधिकारी	कार्यालय पशु चिकित्सा chhetra अधिकारी छतरपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
छतरपुर	12	see.em. sharama	सहायक आयुक्त	a.aar.see.es. (audit) chhatarpur	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
छतरपुर	13	ashok kumar chauhan	prachaanya	gramin vikas prashikshan kendra नौगाँव	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
छतरपुर	14	anil kumar jain	pariyojana adhikari	mahil bal vikas buxwaha	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
छतरपुर	15	ramchandra tiwari	कार्यपालन यंत्री(ru.)	कार्यालय अधीक्षक यंत्री bariyarpur urmil pariyojana mandal chhatarpur	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
छतरपुर	16	eh.es.thakur	सहायक यंत्री	कार्यालय bariyarpur urmil pariyojana mandal jal sansadhan chhatarpur	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए



1	2	3	4	5	6	7
छतरपुर	17	बी.पी. सिंह बघेल	सहायक संचालक	उद्यानिकी छतरपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
छतरपुर	18	एस.के. राय	सहायक यंत्री	कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग छतरपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
छतरपुर	19	आलोक जैन	नायब तहसीलदार	तहसील नौगांव	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
छतरपुर	20	बी.के. सिंह	ज़िला आपूर्ति अधिकारी	ज़िला आपूर्ति अधिकारी छतरपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
छतरपुर	21	पी.के. मिश्रा	मुख्य करपालन अधिकारी	मुख्य करपालन अधिकारी जनपद पंचायत नौगांव	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
छतरपुर	22	महेश चन्द्र भरद्वाज	सहायक यंत्री, मनरेगा	जनपद पंचायत लवकुशनगर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
छतरपुर	23	जीतेन्द्र सिंह राजपूत	सहायक संचालक	कृषि विभाग छतरपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
छतरपुर	24	एस.के. खरे	सहायक यंत्री	लोक स्वस्थय यांत्रिकी छतरपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
छतरपुर	25	सुरेन्द्र सिंह	विकासखंड शिक्षा अधिकारी	विकासखंड शिक्षा अधिकारी लवकुशनगर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
छतरपुर	26	लल्ला जगत सिंह चौरसिया	सहायक यंत्री	कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन नौगांव	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
छतरपुर	27	एल. सी. जैन	सहायक प्रबंधक	महाप्रबंधक म्.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना छतरपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
छतरपुर	28	वीरेश सिंह बघेल	उप संचालक	सामाजिक न्याय छतरपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
छतरपुर	29	हरप्रसाद रजक	सहायक अधीक्षक	भू-अभिलेख छतरपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
छतरपुर	30	एस.एन.तिवारी	विकासखंड शिक्षा अधिकारी	विकासखंड शिक्षा अधिकारी बारीगाढ़	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
छतरपुर	31	देवदास गंगेले	सहायक संचालक	मत्स्य उप संचालक मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र नौगांव	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
छतरपुर	32	डी.एल.स्वर्णकार	सहायक यंत्री	लोक स्वस्थय यांत्रिकी छतरपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
छतरपुर	33	ब्रजलाल प्रजापति	सहायक यंत्री	जल संसाधन नौगांव	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
छतरपुर	34	कीर्ति कुमार गुप्ता	श्रम पदाधिकारी	श्रम पदाधिकारी छतरपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
छतरपुर	35	निदेशक शर्मा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बारीगाढ़	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
छतरपुर	36	ए.के. जैन	उप संचालक कृषि	प्राचार्य कृषि विस्तार प्रशिक्षण केंद्र नौगांव	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
छतरपुर	37	ए.के.अग्रवाल	सहायक प्रबंधक	महाप्रबंधक म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना छतरपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
छतरपुर	38	सुरेशचंद्र नामदेव	सहायक यंत्री	कार्यालय कार्यपालन यंत्री बरियारपुर डिवी. क्र. 2 छतरपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
छतरपुर	39	अशोक कुमार सक्सेना	सहायक यंत्री	कार्यालय कार्यपालन यंत्री बरियारपुर डिवी. क्र. 2 छतरपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
छतरपुर	40	अनिल कुमार चौरसिया	सहायक यंत्री	कार्यालय कार्यपालन यंत्री बरियारपुर डिवी. क्र. 2 छतरपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
छतरपुर	41	एफ़.जे.खान	महाप्रबंधक	महाप्रबंधक म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना छतरपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
छतरपुर	42	आर.पी.एस.बघेल	सहायक संचालक	कृषि विभाग छतरपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
छतरपुर	43	रामाश्रय सिंह	सहायक यंत्री	कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन नौगांव	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	1	श्री अमर जैन	एसडीओ	लो स्टा यां विभाग		2 संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	2	श्री एन.के. मनोरिया	एसडीओ	डब्ल्यूआरडी दमोह		2 संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	3	श्री व्ही.एस. ठाकुर	एसडीओ	डब्ल्यूआरडी, दमोह		2 संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	4	श्री आर.के. विश्वकर्मा	सहायक यंत्री	जनपद, पंचायत बटियागाढ़		2 संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	5	श्री शिवराय	परियोजना अधिकारी	म.बा.विकास, बटियागाढ़		2 संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	6	श्री एल.पी. लडिया	जिला रोजगार अधि.	जि.रो.कार्यालय दमोह		2 संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	7	श्री दिलीप मिश्रा	सहायक यंत्री	जनपद पंचायत हटा		2 संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	8	श्री आर.जी. अहिरवार	सीईओ	जनपद पंचायत बटियागाढ़		2 संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	9	श्री आर.के.नामदेव	सहा.परि.प्रबंधक	डब्ल्यूआरडी दमोह		2 संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	10	श्री आर.के.दीक्षित	कार्यपालन यंत्री	आरईएस क्रमांक 2 दमोह		2 संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	11	श्री अवधेश चौबे	कार्यपालन यंत्री	पंचमनगर		2 संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	12	श्री अब्दुल रशीद कुरैशी	सहायक संचालक	मत्स्य विभाग दमोह		2 संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	13	श्री एम.एल.अहिरवार	सहायक यंत्री	हाऊसिंग बोर्ड दमोह		2 संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	14	श्री अशोक राठौर	परियोजना अधिकारी	जिला पंचायत दमोह		2 संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	15	श्री आर.डी. पटेल	एसडीओ	लो.नि.वि. दमोह		2 संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	16	डा. ए.डब्ल्यू. खान	प.चि.शल्य	प.चि. सेवार्थ पथरिया		2 संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	17	श्री एस.के.श्रीवास्तव	कार्यपालन यंत्री	आरईएस क्रमांक 2 दमोह		2 संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	18	श्री भागचंद कोरी	एसडीओ	पंचमनगर दमोह		2 संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	19	श्री अवधेशप्रसाद केवट	सहा.पंजी. (आॅडिट)	सह.समितिया दमोह		2 संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	20	श्री भूपेन्द्र सोलंकी	वन क्षेत्रपाल	वन विभाग दमोह		3 संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
दमोह	21	श्री संतोष चौहान	वन क्षेत्रपाल	वन विभाग दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	22	डा० राजेश कुमार चौधरी	सहायक प्राध्यापक	शा. महाविद्यालय, पथरिया	3	संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	23	श्री राजेश पट्टेरिया	सीईओ	जनपद पंचायत पथरिया	2	संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	24	श्री देवकुमार श्रीवास्तव	एसडीओ	डब्ल्यूआरडी दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	25	श्री एस.सी. खरे	एसडीओ	भूजल विट दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	26	श्री एम.एस. उईके	उप वनमंडल अधिकारी	वनमंडलाधिकारी दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	27	श्री टी.एन. भारद्वाज	उप प्रबंधक	वनमंडलाधिकारी दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	28	श्री जी.एस.दुबे	सहा.प्रबंधक	म.प्र.सड़क विकास प्राधि. दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	29	श्री एम.आर. मेहरा	सीईओ	जनपद पंचायत दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	30	श्री एच.एन. सक्सेना	कार्यपालन यंत्री	आरईएस दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	31	श्री एस.एल. अहिरवार	कार्यपालन यंत्री	पीएचई दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	32	श्री एस.के. पांडे	महाप्रबंधक	जिला उद्योग दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	33	श्री के.के. तिवारी	सहा. परि. प्रबंधक	आरईएस क्र. 2 दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	34	श्री वैदिका प्रसाद पटेल	सहा. यंत्री	बीआरजीएफजि. पचा. दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	35	श्री जे.के. तिवारी	एसडीओ	पीएचई तेंदुखड़ा	2	संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	36	डा० पन्नालाल जैन	प्राध्यापक	पी. जी. कॉलेज, दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	37	श्री आलोक कुमार दुबे	वि.व. विशेषज्ञ	वि.व. विशेषज्ञ	2	संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	38	श्री मुंशीलाल ठाकुर	सहा. संचा.	कृषि विभाग दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	39	श्री आर.के. श्रीवास्तव	उप परियोजना अधिकारी	आत्मा. दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	40	श्री पी.के. शर्मा	महाप्रबंधक	प्र.म.ग्रा.स.वि.प्रा. दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	41	श्री आर.डी. दीक्षित	वाणिज्यिककर अधिकारी	वाणिज्य विभाग दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	42	श्री आर.के. गंगोल.	प्रबंधक	केन्द्रीय सहकारी बैंक, दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	43	कु. शिखा सिंह वर्मा	जिला विपणन अधिकारी	विपणन विभाग दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	44	सुश्री दीपिका तिवारी	सहा. मृदा सर्वेक्षण अधिकारी	मृदा सर्वेक्षण विभाग दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	45	श्री आर0आर0 पटेल	अनुविभागीय अधिकारी (संतु)	अनुविभागीय अधिकारी (संतु)	2	संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	46	श्री धमेन्द्र सिंह	सहा. यंत्री	जनपद पंचायत दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	47	श्री आलोक जैन	प्राध्यापक	के.एन. कॉलेज, दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	48	श्री एम.के. जासवाल	कार्य यंत्री	म.प्र.वि.वि.कं.दक्षिण दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	49	डा० अनिल कुमार जैन	प्राध्यापक	पी. जी. कॉलेज, दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	50	श्री एस.सी. तिवारी	एसडीओ	आरईएस दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	51	श्री विनोद जैन	परियोजना अधिकारी	जिला पंचायत दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	52	श्री वीरेन्द्र कुमार दुबे	उपवनसंरक्षक	वन विभाग दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
दमोह	डा. एस.के. सोनी	प.चि.शल्य	पशु चिकि. सेवायें जबेरा	2	संपूर्ण जिले के लिए	
दमोह	श्री रामेश्वर प्रसाद पटेल	सीईओ	जनपद पंचायत जबेरा	2	संपूर्ण जिले के लिए	
दमोह	डा. रोहित कुमार छलोत्रे	एस.डी.ओ.	वि.यां ल.म.न. एवं गेट दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए	
दमोह	श्री आर.के. तिवारी	सहा. संचालक	उद्यानिकी दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए	
दमोह	श्री नरेन्द्र सिंह परिहार	वन क्षेत्रपाल तेजगढ़	वन विभाग तेंदुखेड़ा	2	संपूर्ण जिले के लिए	
दमोह	श्री ए.के. उदैनिया	कार्यपालन अधिकारी	जिला अन्त्यवसायी दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए	
दमोह	श्री दरोगा सिंह ठाकुर	एसडीओ	कृषि विभाग दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए	
दमोह	श्री सजय वैशंपायन	कार्य.सम	कृषि विज्ञान केन्द्र दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए	
दमोह	श्री अद्वप सिंह उईके	वन क्षेत्रपाल	वन विभाग सिधामपुर	2	संपूर्ण जिले के लिए	
दमोह	श्री सुरेन्द्र पीतलिया	कार्यपालन यंत्री	जलसंसाधन विभाग दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए	
दमोह	श्री जे.पी. आर्य	एसडीओ	आरईएस तेंदुखेड़ा	2	संपूर्ण जिले के लिए	
दमोह	श्री अमित कुमार सिंह	सी.ई.ओ.	जनपद पंचायत तेंदुखेड़ा	2	संपूर्ण जिले के लिए	
दमोह	श्री बी.पी. खरे	एसडीओ	लो.नि.वि. तेंदुखेड़ा	2	संपूर्ण जिले के लिए	
दमोह	श्री डी.के. अग्रवाल	एसडीओ	पीएचई दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए	
दमोह	श्री मुकेश वर्मा	सहायक यंत्री	जनपद पंचायत तेंदुखेड़ा	2	संपूर्ण जिले के लिए	
दमोह	श्री आर.के. खरे	एसडीओ	डब्ल्यूआरडी तेंदुखेड़ा	2	संपूर्ण जिले के लिए	
दमोह	श्री एस.के. अग्रवाल	प्राध्यापक	पी.जी. कालेज, दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए	
दमोह	डा. विपिन बिहारी शुक्ल	प.चि.शल्य	पशु चिकि. सेवायें तेंदुखेड़ा	2	संपूर्ण जिले के लिए	
दमोह	श्री एन.सी. जैन	एसडीओ	भजिया सीट जलसंसाधन विभाग दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए	
दमोह	श्री के.आर. चढार	एसडीओ	लो.नि.वि. दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए	
दमोह	श्री जगदीश प्र. सोनकर	एसडीओ	लो.नि.वि. दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए	
दमोह	श्री जी.पी. उपाध्याय	सहायक यंत्री	डब्ल्यूआरडी दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए	
दमोह	श्री राहुल गुप्ता	एसडीओ	डब्ल्यूआरडी हटा	2	संपूर्ण जिले के लिए	
दमोह	श्री डी.एस. बघेल	एसडीओ	आर.ई.एस.दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए	
दमोह	श्री एस.के. पाराशर	एसडीओ	आरईएस हटा	2	संपूर्ण जिले के लिए	
दमोह	डा. बुजेंद्र कुमार असाठी	प.चि.शल्य	प.चि. सेवायें दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए	
दमोह	श्री एम.के. असाठी	सहा. यंत्री मेकेनिकल	पीएचई दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए	
दमोह	डा. विनोद कुमार जैन	प.चि.शल्य	प.चि. सेवायें दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए	
दमोह	सुश्री शक्ति जैन	सीईओ	जनपद पंचायत हटा	2	संपूर्ण जिले के लिए	
दमोह	श्री आर.पी.एस. भदोरिया	खनिज अधिकारी	खनिज विभाग दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए	
दमोह	श्री वीरन सिंह रेपूरिया	एस डी ओ	कृषि विभाग हटा	2	संपूर्ण जिले के लिए	
दमोह	श्री सुरेशचंद्र जैन	सहा.भूमि संर.अधि.	भूमि संरक्षण कार्या.हटा	2	संपूर्ण जिले के लिए	
दमोह	श्री एस.पी. मिश्रा	सहायक यंत्री	जनपद पंचायत पटेरा	2	संपूर्ण जिले के लिए	

1	2	3	4	5	6	7
दमोह	86	श्री प्रमोद कुमार ठाका	सहा.प्रध्यापक	राघवेंद्र सिंह हजारी कालेज हटा	6	7
दमोह	87	डॉ. बैजनाथ पटेल	पशु चि. वि. अधि.	पशु चिकि. सेवाये दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	88	श्री पी.के.पटोरिया	उप परि.अधि. (आत्मा)	परियोजना आत्मा दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	89	श्री रविशंकर गुप्ता	सहा. संचा. कृषि	उपसंचालक कृषि दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	90	श्री जयशंकर तिवारी	सीईओ	जनपद पंचायत पटेरा	2	संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	91	श्री राजकुमार कटारे	वन क्षेत्रपाल	वन विभाग पटेरा	2	संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	92	श्री भगोला प्रसाद चधरी	सहायक कृषि यंत्री	उपसंचालक कृषि दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	93	श्री सलिल गर्ग	कार्यपालन यंत्री	बुदेलखंड परि.भाग-1 दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए
दमोह	94	श्री ए.के. त्रिपाठी	सहायक कृषि यंत्री	उपसंचालक कृषि दमोह	2	संपूर्ण जिले के लिए
पन्ना	1	बिन्नावन मिश्रा	सहा. संचालक	मत्स्य विभाग पन्ना		संपूर्ण जिले के लिए
पन्ना	2	सुरेंद्र कुमार खरे	सहा. यंत्री	आरईएस पन्ना		संपूर्ण जिले के लिए
पन्ना	3	महेश प्रसाद नागिल	समन्वयक	नेहरु युवा केंद्र पन्ना		संपूर्ण जिले के लिए
पन्ना	4	के एस कुशवाहा	जिला शिक्षा अधिकारी	शिक्षा विभाग पन्ना		संपूर्ण जिले के लिए
पन्ना	5	पी एल अहिरवार	जिला रोजगार अधिकारी	रोजगार कार्यालय पन्ना		संपूर्ण जिले के लिए
पन्ना	6	महेन्द्र द्विवेदी	सहा. संचालक	शिक्षा विभाग पन्ना		संपूर्ण जिले के लिए
पन्ना	7	एस बी मिश्रा	डी.पी.मिश्रा	जिला शिक्षा केंद्र पन्ना		संपूर्ण जिले के लिए
पन्ना	8	एम एल द्विवेदी	अनुविभागीय अधिकारी	गृह निर्माण मंडल पन्ना		संपूर्ण जिले के लिए
पन्ना	9	यू पी एस गहरवार	अनुविभागीय अधिकारी	दक्षिण वन मंडल पन्ना		संपूर्ण जिले के लिए
पन्ना	10	पी एल पटेल	सहा. यंत्री	गायासे पन्ना		संपूर्ण जिले के लिए
पन्ना	11	आर ए पाण्डे	अनुविभागीय अधिकारी	लोक स्वा. यांत्रिकी पन्ना		संपूर्ण जिले के लिए
पन्ना	12	एस के एस तिवारी	क्षेत्र संयोजक	आदिम जाति कल्याण विभाग पन्ना		संपूर्ण जिले के लिए
पन्ना	13	नरेन्द्र सिंह	वन क्षेत्रपाल	वन विभाग देवेन्द्रनगर		संपूर्ण जिले के लिए
पन्ना	14	आर के निरंजन	अनुविभागीय अधिकारी	वन विभाग		संपूर्ण जिले के लिए
पन्ना	15	रमेश चन्द त्रिपाठी	सहा. वन संरक्षक	वन विभाग		संपूर्ण जिले के लिए
पन्ना	16	रमेश कुमार दीक्षित	हीरा अधिकारी	हीरा कार्यालय पन्ना		संपूर्ण जिले के लिए
पन्ना	17	एस एल निम्जे	कार्यपालन यंत्री	आरईएस पन्ना		संपूर्ण जिले के लिए
पन्ना	18	एच एस त्रिपाठी	सहा. प्रो.मैने.	आरईएस पन्ना		संपूर्ण जिले के लिए
पन्ना	19	डी एल कनेल	अनुविभागीय अधिकारी	लोक स्वा. या मैकेनिकल पन्ना		संपूर्ण जिले के लिए
पन्ना	20	दिनकर सिंह	सहा. संचालक	उद्यान पन्ना		संपूर्ण जिले के लिए
पन्ना	21	बी के रिहानिया	सहा. प्रो.मैने.	आरईएस पन्ना		संपूर्ण जिले के लिए
पन्ना	22	कमल कुमार	परियोजना अधिकारी	आईसीडीएस गुनौर		संपूर्ण जिले के लिए
पन्ना	23	संजय सिंह	परियोजना अधिकारी	आईसीडीएस पर्वई		संपूर्ण जिले के लिए

८१

1	2	3	4	5	6	7
पन्ना	महेन्द्र सिंह यादव	सहा. यंत्री	जनपद पंचायत शाहनगर	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	डी के जैन	कार्यपालन यंत्री	जल संसाधन विभाग पन्ना	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	एच एल अहिरवार	अनुविभागीय अधिकारी	लोक स्वा. यांत्रिकी पवई	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	आर के खरे	अनुविभागीय अधिकारी	लोक निर्माण विभाग पन्ना	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	एल एल धान्या	सहा. संचालक	कृषि विभाग पन्ना	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	पी के त्रिपाठी	सहा. यंत्री	जल संसाधन विभाग पवई	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	जी पी कोरी	सहा. यंत्री	ग्रायासे पवई	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	पी के त्रिपाठी	अनुविभागीय अधिकारी	जल संसाधन विभाग पवई	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	हीरेन्द्र सिंह रघुवंशी	जिला विपणन अधिकारी	विपणन कार्यालय पन्ना	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	आर एस ठाकुर	अनुविभागीय अधिकारी	जल संसाधन विभाग पवई	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	धीरेन्द्र खरे	परियोजना अधिकारी	जिलापंचायत पन्ना	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	डॉ. बी एस तिवारी	पशु चिकि. से. विस्तार अधिकारी	पशु चिकित्सालय	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	बी एस कुरील	उप संचालक	कृषि आत्मा पन्ना	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	के के शुक्ला	क्षेत्र संयोजक	अजाक पन्ना	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	रामेश्वर सोलंकी	उप संचालक	कृषि विभाग पन्ना	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	ओ पी तिवारी	सहा. यंत्री	जनपद पंचायत शाहनगर	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	डी एस परमार	वन परिक्षेत्राधिकारी	दक्षिण वन मंडल शाहनगर	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	एन एल श्रीवास्तव	महाप्रबंधक	जिला उद्योग केंद्र पन्ना	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	अवतार सिंह	अन्त्यव्यवसायी अधिकारी	अन्त्यव्यवसायी विभाग	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	अरविन्द सिंह धाकड़	अनुविभागीय अधिकारी	ग्रायासे पवई	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	प्रताप सिंह	सहा. वन संरक्षक	उत्तर वन मंडल पन्ना	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	बी के त्रिपाठी	अनुविभागीय अधिकारी	लोक निर्माण विभाग पन्ना	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	बी एम अहिरवार	कार्यपालन यंत्री	पीआइयू पन्ना	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	डी के ओमरे	सहा. प्रबंधक	म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा.पन्ना	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	देवेन्द्र अनुरागी	सहा. प्रबंधक	म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा.पन्ना	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	आर के त्रिपाठी	सहा. प्रबंधक	म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा.पन्ना	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	जे आर लहरिया	पशु चिकित्सा शल्यज्ञ	पशु चिकित्सालय पन्ना	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	सावित खान	जिला संयोजक	आदिम जाति कल्याण विभाग पन्ना	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	सुरेश त्रिपाठी	सहा. यंत्री	जनपद पंचायत अजयगढ़	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	एच आर राय	अधीक्षक	आधुनिक प्रशिक्षण संस्थान पन्ना	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	डी एम मिश्रा	अनुविभागीय अधिकारी	जल संसाधन विभाग अजयगढ़	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	

1	2	3	4	5	6	7
पन्ना	55 अशोक कुमार विश्वकर्मा	परियोजना अधिकारी	आईसीडीएस अजयगढ़	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	56 गजराज सिंह आठया		एआरसीएस पन्ना	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	57 जगेश्वर अवस्थी	पी.एस.ई.ओ.	जनपद पंचायत अजयगढ़	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	58 इंदरीश खान	अनुविभागीय अधिकारी	लोक निर्माण विभाग पन्ना	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	59 सरोज सिंह	अनुविभागीय अधिकारी	जल संसाधन विभाग अजयगढ़	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	60 आर सी तिवारी	कार्यपालन यंत्री	जल संसाधन विभाग	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	61 सी पी चौरसिया	पशु चिकि. विस्तार अधिकारी	पशु चिकित्सालय	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	62 आर पी निगम	बी पी ओ	जनपद पंचायत पन्ना	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	63 अमित यादव	अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी	जनपद पंचायत अजयगढ़	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	64 नरेश पाठक	संग्रहाध्यक्ष	पुरातत्व विभाग पन्ना	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	65 के के मिश्रा	कार्यपालन यंत्री	लोक निर्माण विभाग पन्ना	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	66 शरद बिशेन	कार्यपालन यंत्री	म.प्र.वि.मं. पन्ना	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	67 सी एम पाण्डेय	सहा. यंत्री	जल संसाधन विभाग पन्ना	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	68 बी के श्रीवास्तव	अनुविभागीय अधिकारी	लोक स्वा. यांत्रिकी पन्ना	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	69 राम सिंह पटेल	वन क्षेत्रपाल	उत्तर वन मंडल पन्ना	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	70 आरएच यादव	प्रबंधक	नागरिक आपूर्ति निगम पन्ना	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	71 आर पी एस बुंदेला	पशु चिकित्सा शल्यज्ञ	पशु चिकित्सालय पन्ना	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	72 बी एल अहिरवार	सहा. मत्स्य अधिकारी	मत्स्य विभाग पन्ना	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	73 आईडी त्रिपाठी	सहा. यंत्री	जनपद पंचायत पन्ना	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	74 बी एल विश्वाई	जिला कार्यक्रम अधिकारी	आईसीडीएस पन्ना	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	75 ओमकार सिंह चौहान	अनुविभागीय अधिकारी	तैद्रु पत्ता वन विभाग पन्ना	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
पन्ना	76 जे एस बराच	अनुविभागीय अधिकारी	उत्तर वन मंडल पन्ना	प्रशासनिक	संपूर्ण जिले के लिए	
सतना	1 श्याम सिंह बड़रिया	सीईओ	जनपद पंचायत मझगांव	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	
सतना	2 जी पी चतुर्वेदी	बी डी ओ	जनपद पंचायत मझगांव	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	
सतना	3 डी पी त्रिपाठी	सहायक यंत्री	जनपद पंचायत मेहर	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	
सतना	4 दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तवा	सीईओ	जनपद पंचायत अमरपाटन	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	
सतना	5 अनिल कुमार तिवारी	सीईओ	जनपद पंचायत सोहावल	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	
सतना	6 डी पी तिवारी	सहायक यंत्री	जिला पंचायत सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	
सतना	7 सुरेन्द्र सिंह	सहायक परियोजना अधिकारी	जिला पंचायत सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	
सतना	8 एम आर पटेल	परियोजना अधिकारी रोजगार गारंटी	जिला पंचायत सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	

~

1	2	3	4	5	6	7
सतना	9	बी के सिंह	सीईओ	जनपद पंचायत उंचेहरा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	10	एस के शर्मा	उपसंचालक कृषि	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	11	गंगा प्रसाद शर्मा	सहायक संचालक कृषि	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	12	ओ पी तिवारी	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	13	अनिल कुमार मिश्रा	सहायक संचालक कृषि	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	14	अशोक राय त्रिपाठी	उपसंचालक कृषि आत्मा	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	15	एस के शाक्य	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	16	उपेन्द्र मिश्रा	परियोजना प्रबंधक	मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	17	अमित सिंह	रोजगार अधिकारी	जिला रोजगार कार्यालय सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	18	मिथलेश सिंह गहरवार	जिला परियोजना समन्वयक	जिला शिक्षा केंद्र सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	19	प्रदीप त्रिपाठी	सहायक परियोजना समन्वयक	जिला शिक्षा केंद्र सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	20	उपेन्द्र सिंह	परियोजना समन्वयक	जिला शिक्षा केंद्र सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	21	ओम नारायण मिश्रा	सहायक यंत्री	जिला शिक्षा केंद्र सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	22	सी एस मिश्रा	वाणिज्यकर अधिकारी	संभागीय आयुक्त वाणिज्य कर	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	23	अनिल कुमार राय	वाणिज्यकर अधिकारी	संभागीय आयुक्त वाणिज्य कर	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	24	गणेश सिंह	सहायक आयुक्त	सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	25	प्रदीप पाठक	महाप्रबंधक	म0प्र0 ग्रामीण सड़क प्राधिकरण इकाई सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	26	धीरेन्द्र सिंह	बी ई ओ मझगाँवाँ	जिला शिक्षा अधिकारी सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	27	गिरीश कुमार अग्निहोत्री	ए डी पी सी	जिला शिक्षा अधिकारी सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	28	श्रीकान्त पाण्डेय	योजना अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	29	रामहर्ष वर्मा	प्राचार्य	जिला शिक्षा अधिकारी सतना	द्वि	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	30	जमुना सिंह	प्राचार्य	जिला शिक्षा अधिकारी सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए



1	2	3	4	5	6	7
सतना	नीरज खरे		प्राचार्य	जिला शिक्षा अधिकारी सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	गोरेलाल सिंह दहायत		बी ई ओ	जिला शिक्षा अधिकारी सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	अंजनीनंदन मिश्रा		प्राचार्य	जिला शिक्षा अधिकारी सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	के पी शुक्ला		वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी	सहायक संचालक उद्यान विभाग	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	आर के पाण्डेय		सहायक वन संरक्षक	वन मण्डलाधिकारी सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	विद्याभूषण सिंह		सहायक वन संरक्षक	वन मण्डलाधिकारी सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	आर के एस चौहान		सहायक वन संरक्षक	वन मण्डलाधिकारी सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	ए बी निगम		सहायक यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	रावेन्द्र सिंह		सहायक यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	एच एस धुर्वे		कार्यपालन यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	पी के साहू		क्षेत्रीय प्रबंधक	मण्डल राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	राजेन्द्र कुमार उपाध्याय		जिला प्रौढ शिक्षा अधिकारी	जिला प्रौढ शिक्षा अधिकारी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	आशीष कुमार पौलीवाल		सहायक श्रमायुक्त	सहायक श्रमायुक्त सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	ए डी सत		मुख्य रसायनज्ञ	प्रदूषण नियंत्रण मण्डल सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	संतोष तिवारी		मुख्य रसायनज्ञ	मण्डल प्रदूषण नियंत्रण मण्डल सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	डी एन त्रिपाठी		सहायक संचालक	सहायक संचालक मत्स्य उद्योग सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	विनोद कुमार सिंह		सहायक संचालक	सहायक संचालक मत्स्य उद्योग पौडी मेहर	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	डी पी बागरी		कार्यपालन यंत्री	अधीक्षण यंत्री नर्मदा विकास मण्डल सतना	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	राजेश तिवारी		कृषि यंत्री	कृषि यंत्री सतना	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	बी पी त्रिपाठी		यांत्रिकी सहायक	कृषि यांत्रिकी कर्मशाला सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	सुनील रावत		अनुबिभागीय अधिकारी	विद्युत/यांत्रिकी स्टोर अनु० जल संसाधन विभाग सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	यू पी त्रिपाठी		प्रबंधक	जिला व्यापार उद्योग केन्द्र सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	आर के सिंह		प्रबंधक	जिला व्यापार उद्योग केन्द्र सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
सतना	के एल गर्ग		कार्यपालन यंत्री	अति उच्च दाब पतैरी M0प्र0प0टा0लि० सतना	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	संदीप गौयल		सहायक यंत्री	अति उच्च दाब पतैरी M0प्र0प0टा0लि० सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	सन्नी कुमार		सहायक यंत्री	अति उच्च दाब पतैरी M0प्र0प0टा0लि० सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	कुमार विशाल		सहायक यंत्री	अति उच्च दाब पतैरी M0प्र0प0टा0लि० सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	देवदत्त ओझा		सहायक यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	महेश कुमार धुर्य		सहायक यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	उपेन्द्र कुमार मिश्रा		परियोजना प्रबंधक	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	शिवशरण राजपुत		सहायक प्रबंधक	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	धनंजय श्रीवास्तव		सहायक प्रबंधक	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	प्रकाशचन्द्र रोहित		सहायक प्रबंधक	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	अनिल कुमार चौरै		कार्यपालन यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सतना	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	आर० के० जैन		सहायक यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	शत्रुभान रावत		सहायक यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	बी के चौबे		अनुविभागीय अधिकारी मझगवाँ	लोक निर्माण विभाग सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	विनय कुमार सिंह बघेल		अनुविभागीय अधिकारी	लोक निर्माण विभाग वि/यां सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	आर के पारियाल		जिला प्रबंधक	एम पी स्टेट एगो इंडस्ट्री सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	ललित ग्वालवंशी		सहायक अधीक्षक	भू अभिलेख सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	कृष्ण कुमार द्विवेदी		अनुविभागीय अधिकारी	लोक निर्माण सेतु विभाग	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	डी के खरे		अनुविभागीय अधिकारी मैहर	लोक निर्माण विभाग भ/स सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	द्वी आर सिंह		अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन	लोक निर्माण विभाग भ/स सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	एस के पाण्डेय		अनुविभागीय अधिकारी नागौद	लोक निर्माण विभाग भ/स सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	मिथलेश कुमार श्रीवास्तव		सहायक यंत्री	जल संसाधन सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	तरुण कुमार मिश्रा		सहायक यंत्री	जल संसाधन सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	राघवेंद्र गौतम		सहायक यंत्री	जल संसाधन सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	नारायण प्रसाद मिश्रा		सहायक यंत्री	जल संसाधन सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
सतना	79	सुभाष कुमार जैन	कार्यपालन यंत्री	जल संसाधन सतना	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	80	डी पी दुबे	प्राचार्य	आई टी आई सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	81	अरविन्द कुमार ताम्रकार	सचिव	कृषि उपज मण्डी सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	82	कृष्ण कुमार तिवारी	उपपंजीयक	उपपंजीयक अमरपाटन	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	83	रमार्शंकर पाण्डेय	परियोजना अधिकारी	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	84	एस के पाण्डेय	सहायक परियोजना अधिकारी	शहरी विकास अभिकरण	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	85	यू के गर्ग	उपसंचालक	पशु चिकित्सा सेवायें	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	86	अमिलाष चतुर्वेदी	प्राचार्य	डाइट सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	87	बी के नामदेव	क्षेत्र संयोजक	आदिम जाति कल्याण विभाग सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	88	अवधेश कुमार सिसधिया	अधीक्षण यंत्री	नर्मदा विकास मण्डल सतना	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	89	नीरज कुमार गर्ग	सहायक यंत्री	अधीक्षण यंत्री नर्मदा विकास मण्डल सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	90	जागत भगत	सहायक यंत्री	नर्मदा विकास प्राधिकरण संभाग ७ सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	91	राजेंद्र पाठक	कार्यपालन यंत्री	लोवर पुरवा नहर संभाग २ सतना	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	92	जे एस मरावी	सहायक यंत्री	अनुविभागीय अधिकारी पुरवा नहर उपसंभाग क्रमांक ४	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	93	सहज श्रीवास्तव	सहायक यंत्री	अनुविभागीय अधिकारी पुरवा नहर उपसंभाग क्रमांक २	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	94	एस सी गुप्ता	विपणन अधिकारी	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	95	आर के पचौरी	महाप्रबंधक	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	96	राकेश कुमार सिंह	उपसंचालक	सामाजिक न्याय सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	97	सी एस सिंह	सहायक संचालक	नगर तथा ग्राम निवेश सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	98	नागेंद्रमणि मिश्रा	सहायक संचालक	पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
सतना	99	ए पी मिश्रा	कार्यपालन यंत्री	निर्माण संभाग विद्युत मण्डल प्रेम नगर सतना	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	100	एस एम पाण्डेय	सम्पत्ति प्रबंधक	म0प्र0ग0नि0 एवं अधीसरचना विकास मण्डल सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	101	आर के बोहरा	सहायक सम्पत्ति प्रबंधक	म0प्र0ग0नि0 एवं अधीसरचना विकास मण्डल सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	102	पी एस परिहार	अनुबिभागीय अधिकारी	लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग उपसंभाग सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	103	शेर सिंह कलेश	सहायक यंत्री	म0प्र0ग0नि0 एवं अधीसरचना विकास मण्डल सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	104	आर के बाथम	सहायक यंत्री	म0प्र0ग0नि0 एवं अधीसरचना विकास मण्डल सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	105	अनिल सिंह	प्रबंधक	क्षेत्रीय कार्यालय लीड बैंक इलाहाबाद बैंक सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	106	आर एस बघेल	कार्यपालन यंत्री	अधीक्षण यंत्री परीक्षण एवं संचार म0प्र0पा0ट0क0लि0 पतौरी सतना	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	107	आर एस सिंगरौल	कार्यपालन अभियंता	कार्यपालन अभियंता क्षेत्रीय भण्डार म0प्र0पु0क्षे0वि0वि0अ0क0लि0 प्रेमनगर सतना	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	108	राजमणि गर्ग	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	मुख्य नगरपालिका अधिकारी उचहरा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	109	लालमणि शुक्ला	उपसंचालक उद्यान	उपसंचालक उद्यानिकी सतना	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	110	योगेश तिवारी	जिला प्रबंधक	ई गवर्नमेन्स सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	111	गजेन्द्र सिंह बघेल	सहायक भू जल विद	जिला भू जल सर्वेक्षण इकाई २२ सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	112	विजय कुमार कुकरेजा	कार्यपालन यंत्री	नर्मदा विकास प्राधिकरण संभाग अमरपाटन	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
सतना	113	आर एन राय	सहायक यंत्री	नर्मदा विकास प्राधिकरण संभाग अमरपाटन	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	114	के के नाग	सहायक यंत्री	नर्मदा विकास प्राधिकरण संभाग अमरपाटन	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	115	राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	सहायक यंत्री	नर्मदा विकास प्राधिकरण संभाग १ नागौद	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	116	अजय सिंह	सहायक यंत्री	नर्मदा विकास प्राधिकरण संभाग १ नागौद	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	117	अशोक कुमार विनोदिया	कार्यपालन यंत्री	नर्मदा विकास प्राधिकरण संभाग १ नागौद	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	118	बीरेन्द्र सिंह	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	नगर परिषद नागौद	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	119	एस के तिवारी	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी	सैनिक कल्याण बोर्ड सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	120	बी एन सिंह	सचिव	ऋषि उपज मण्डी नागौद	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	121	सजय सोनी	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	नगर परिषद रामपुर बघेलान	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	122	जे पी तिवारी	सचिव	ऋषि उपज मण्डी मैहर	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	123	आदित्य प्रकाश मिश्रा	कार्यपालन अभियंता	कार्यपालन यंत्री एस टी सी म0प्र0पु0क्षे0वि0वि0क0लि0 सतना	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	124	राजेन्द्र कुमार मिश्रा	परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास परियोजना रामनगर	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	125	हेमंत सिंह	परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास परियोजना चित्रकूट	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	126	राजनारायण सिंह	परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास परियोजना अमरपाटन	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	127	धरनीश द्विवेदी	बी ई ओ	जनपद शिक्षा केन्द्र रामनगर	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	128	तेजप्रकाश शुक्ला	प्राचार्य	शास० कन्या हाई स्कूल कोठी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	129	रामखेलावन साकेत	प्राचार्य	शास० उ० मा० वि० गोलहटा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	130	संतोष कुमार मिश्रा	उपपंजीयक	उपपंजीयक मैहर	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	131	सुबोध गर्ग	परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास परियोजना मैहर नंबर 2	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
सतना	132	प्रदीप पाठक	महा प्रबंधक	म प्र ग्रामीण सड़क विकास परियोजना सतना	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	133	उदय प्रताप सिंह	सी इ ओ	जनपद पंचायत नागोद	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	134	डा. अमर सिंह परिहार	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	नगर परिषद् चित्रकूट	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	135	अम्बिका प्रसाद पाण्डेय	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	नगर परिषद् बिरसिंगपुर	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	136	समोधी प्रसाद साकेत	बी इ ओ	बिकास खंड सोहावल	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	137	हरी मित्र श्रीवास्तवा	सी एम ओ	नगर पालिका परिषद् मैहर	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	138	रे के तिवारी	प्रबंधक	जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	139	एस एस चौरसिया	कार्यपालन यंत्री	नर्मदा विकास सम्भाग नं. ९ मैहर	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	140	प्रभु नाथ वर्मा	बी इ ओ	विकास खंड अमरपाटन	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	141	के बी शर्मा	प्राचार्य	शासकीय कन्या उ.मौ. वि जेतवारा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	142	आई रे शेख	कार्यपालन यंत्री	लोक निर्माण विभाग सतना	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	143	राम चरण मिश्रा	बी इ ओ	विकास खंड उंचेहरा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	144	विजय कान्त पाण्डेय	उपायुक्त सहकारिता	उपायुक्त सहकारिता सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	145	भोला नाथ बूनकर	बी इ ओ	विकास खंड रामनगर	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सतना	146	धीरेन्द्र सिंह	बी इ ओ	विकास खंड मझगवां	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	1	बी. एस. तिवारी	सहस्राध्यक्ष	कार्यालय संग्रहाध्यक्षपुरातत्य अभिलेखागार एवं व्यंकट भवन रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	2	आर . के. गुप्ता	परियोजना अधिकारी	जिला शहरी विकास अभिकरण	वर्ग ख	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	3	डा. राजा भैया मिश्रा	पशु चिकि. सहायक शल्य	सभागीय पशु चिकित्सा रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	4	डॉ. पी. पी. गौतम	पशु चिकि. सहायक शल्य	सयुक्त सचालक पशु चिकि	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	5	डा. वाई. पी. सिंह	समन्वयक	म. प्र. डीपीआई पी जिला सहयोग इकाई	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	6	पी. एस. परिहार	जिला महिला शशाक्तिकरण अधिकारी	जिला महिला शशाक्तिकरण अधिकारी जिला रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	7	डा. श्रीमोहन त्रिपाठी	प्राध्यापक	शांकेदारनाथ महा० मऊगंज	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
रीवा	डॉ.जे.पी.सिंह		सहायक अनुशंधान अधिकारी	सम्भागीय उपायुक्त आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	डॉ.रजीव मोहन नाथ खरे		पशु चिकि. सहायक शल्य	संभागीय पशु चिकित्सा रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	डॉ.अनवरआलमखान		पशु चिकि. सहायक शल्य	संभागीय पशु चिकित्सा रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	डॉ.शंकर दयालपांडेय		पशु चिकि. सहायक शल्य	संभागीय पशु चिकित्सा रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	रामानंद सिंह		सहायक यंत्री	वरि.भू.जलविद	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	पी.वाइकर		सहा.भू.रसा.विद	सम्भा.भूजलसर्वे.इ.क्र.४	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	एस.सी.सिन्गादिया		सन्मुखसंचालक कृशी	वरि.भू.जलविद	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	एस.एस.बलारी		सहायक संचालक	सम्भा.भूजलसर्वे.इ.क्र.४	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	आर.के.तिवारी		सहायक संचालक	सं.सं.किक.क.एव क्र.वि.	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	आर.जी.शिल्पकार		मुख्यअभियंता	सं.सं.किक.क.एव क्र.वि	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	यू.एस.पांडेय		अधी.यंत्री	कार्यालय मुख्यअभियंता गंगाकछार	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	अनिल कुमारमिश्रा		कार्यपालन यंत्री	कार्यालय मुख्यअभियंता गंगाकछार	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	दिनकरप्रसाद चतुर्वेदी		कार्यपालन यंत्री	कार्यालय मुख्यअभियंता गंगाकछार	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	एस.एम.अस्थना		कार्यपालन यंत्री	कार्यालय मुख्यअभियंता गंगाकछार	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	के.पी.सिंह		सहायकयंत्री	कार्यालय मुख्यअभियंता गंगाकछार	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	डा.कमल इजहार		सहायक प्राध्या०	शा.टी.आर.एस० कालेज रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	राजेश कुमार तिवारी		सहायक यंत्री	कार्यालय मुख्यअभियंता गंगाकछार	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	सफात खान		सहायक यंत्री	कार्यालय मुख्यअभियंता गंगाकछार	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	बी.के.अग्रवाल		सहायक यंत्री	कार्यालय मुख्यअभियंता गंगाकछार	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	हरिचंद्र सूतकार		ए०जी०एम	महाप्रबंधक एम०पी०आर०डी०सी०रीवा २	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
रीवा	एस.के.चौरसिया		सहायक यंत्री	कार्यालय मुख्यअभियंता गंगाकछार	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	जे.पी.अहिरवार		सहायक यंत्री	कार्यालय मुख्यअभियंता गंगाकछार	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	श्री राम शर्मा		अति.अधी.यंत्री (सिविल)	सर्व.एव अनु.सम्भागएम,पी.पीजी.सी.एल.सि लपरा	प्रथम श्रेणी	
रीवा	ए.के.सिंह		उप प्रबंधकजिला यूनियन	वन मं.अधिकारी म.रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	ए.के.शर्मा		अनुदेशक	वन र.प्र.शाला गोविंद.	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	आर.एल.एस.परस्ते		उप वनम.अधि.मऊगंज	कार्या.उप वनम.अधि.मऊगंज	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	अरुनेंद्र शुक्ला		पशु चिकि. सहायक शल्य	कार्या.उप संचालक प.चि.से.रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	डॉ.उदित नारायण मिश्रा		पशु चिकि.	पशु चिकि.गूढ	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	डा०एस.के.द्वेदी		पशु चिकि. सहायक शल्य	के०वी०सं०रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	डा०एस०के०दुबे		पशु चिकि. सहायक शल्य	पशु चिकि.हनुमना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	डॉ.नरबदा सिंह गहरवार		पशु चिकि. सहायक शल्य	पशु चिकि.मऊगंज	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	डा०के०के०गुप्ता		पशु चिकि. सहायक शल्य	पशु चिकि.त्यौथर	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	डा०एस०डी०द्वेदी		पशु चिकि. सहायक शल्य	के०वी०सं०रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	डा०पुष्पराज सिंह		पशु चिकि. सहायक शल्य	पशु चिकि.मनगवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	डा०आर०पी०गौतम		पशु चिकि. सहायक शल्य	पशु चिकि.जवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	ड०एस०के०पाण्डेय		पशु चिकि. सहायक शल्य	पशु चिकि.गगेव	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	डा०पी०एन०तिवारी		पशु चिकि. सहायक शल्य	कार्या.उप संचालक प.चि.से.रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	डॉ.जगदम्बा प्रसाद त्रिपाठी		पशु चिकि. सहायक शल्य	पशु चिकित्सा विकास खण्ड रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	डॉ.मनु दीक्षित		पशु चिकि. सहायक शल्य	पशु चिकि.बर्ौ	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	डॉ०अश्वयुक्त प्रताप सिंह		पशु चिकि. सहायक शल्य	पशु चिकि.चाकघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	डॉ०विवेक मिश्रा		पशु चिकि. सहायक शल्य	पशु चिकि.गढ	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	डॉ.कृष्णकुमार पांडेय		पशु चिकि. सहायक शल्य	पशु चिकि.लौवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	के०के०गर्ग		ए०जी०एम	महाप्रबंधक एम०पी०आर०डी०सी०रीवा १	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	ड०पी०यूष दुबे		पशु चिकि. सहायक शल्य	पशु चिकि.दादर	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	राजकुमार पटेल		पशु चिकि. सहायक शल्य	पशु चिकि.रायपुर कर्चु०	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	सशीलकुमारयादव		पशु चिकि. सहायक शल्य	पशु चिकि.नईगढी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	डा०भूपेन्द्रकुमारमिश्रा		पशु चिकि. सहायक शल्य	पशु चिकि.बैकठपुर	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए



1	2	3	4	5	6	7
रीवा	55	डॉ.अखिलेशमिश्रा	पशु चिकि. सहायक शल्य	पशु चिकि.गौरी(हनुमना)	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	56	डॉ.अनिल प्रताप सिंह	पशु चिकि. सहायक शल्य	पशु चिकि.बैकुण्ठपुर	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	57	एस्.पी.सिंह	कार्यपालन यंत्री(सि)	कार्यालय कार्यपालन यंत्री(सि) ३म्.प्र.पा.जं.क.लि.सिलपरा	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	58	एम्.के.नामदेव	सहायक यंत्री (सि)	कार्यालय कार्यपालन यंत्री(सि) ३म्.प्र.पा.जं.क.लि.सिलपरा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	59	ए.एस्.दुबे	सहायक यंत्री(सि)	कार्यालय कार्यपालन यंत्री(सि) ३म्.प्र.पा.जं.क.लि.सिलपरा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	60	जे.के.दुरखरे	कार्यपालन यंत्री(सि)	अधी.यंत्री (सिविल) ३ टी.एच.म्.प्र.पा.जं.क.लि.सिलप रापी०	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	61	ए.के.दुबे	सहायकयंत्री(सि)	कार्यालय कार्यपालन यंत्री(सि) ३म्.प्र.पा.जं.क.लि.सिलपरा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	62	प्रभात सिंह	सहा. भू.वेज्ञा.	अधी.यंत्री (सिविल) ३ टी.एच.म्.प्र.पा.जं.क.लि.सिलप रापी०	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	63	एन.एन.अवस्थी	सहायक यंत्री	अधी.यंत्री (सिविल) ३ टी.एच.म्.प्र.पा.जं.क.लि.सिलप रापी०	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	64	बी.के.मिश्रा	वाणिज्यिक कर अधि.	कार्या.सहा.आयुक्त वाणिज्यिक कर वृत्त रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	65	दिलीप कुमार सिंह	सहा.वाणिज्यिक कर अधि.	कार्या.सहा.आयुक्त वाणिज्यिक कर वृत्त रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	66	शिवकुमार उडके	सहायक नियन्त्रक	कार्यालय सहा. नियन्त्रक नाप तौल	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	67	रमेश कुमार सिंह	सहायक मी.परी. अधि.	सहायक मी.परी. अधि.रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	68	ओ.सी.मिश्रा	सहा.संचा. कृषि	प्रभारी अनु-कृषि अधि.त्यांथर	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	69	डॉ.दिनेश कुमार सिंह	अनु. कृषि अधि.	अनु. कृषि अधि.रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	70	अनुराग पटेल	सहायक भू. संर. अधि.	सहायक भू. संर. अधि. रेगुलर रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	71	डॉ. बी.पी. सूत्रकार	सहायक परियोजना अधिकारी आल्मा	प्रभारी अनु-कृषि अधि.मऊगंज	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	72	पी. एन. गोडरिया	उपायुक्त सहकारिता	उपायुक्त सहकारिता जिला रीवा शिल्पी प्लाजा अ ब्लाक	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
रीवा	73	मोतीलाल प्रजापति	सहायक आयुक्त	उपायुक्त सहकारिता जिला रीवा शिल्पी प्लाजा अ ब्लाक	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	74	ए.के.द्विवेदी	सहायक आयुक्त ऑडिट	सहायक आयुक्त सहकारिता ऑडिट जिला रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	75	रामचरित चतुर्वेदी	सहा.प्राध्या.०	टी.आर.एस.कालेज रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	76	अवध प्रताप शुक्ल	सहायक प्राध्या.०	टी.आर.एस.कालेज रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	77	रवि प्रताप दवेदी	सहायक प्राध्या.०	शा. केदारनाथ महा. मऊगंज	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	78	सोमदत्त पाण्डेय	सहायक प्राध्या.०	शा. केदारनाथ महा. मऊगंज	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	79	डा. राजेंद्र कुमार दूये	सहायक प्राध्या.०	शा.वि.महा. रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	80	आर . बी.तिवारी	सहायक यंत्री	बाणसागर जल विद्युत् गृह क्र.४	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	81	विवेक सिंह	सहायक यंत्री	झिन्ना जिला सतना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	82	नीरव दीक्षित	सहायक संचालक	बाणसागर जल विद्युत् गृह क्र.४	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	83	बृजेश कुमार मिश्रा	सहायक संचालक	कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सम्भाग रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	84	ओमप्रकाश गुप्ता	सहायक प्राध्या.०	शा.वि.महा. रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	85	पी.पी.पाठक	उप.संचा.	कार्यालय उप.संचा.जल मौसम विज्ञान सम्भाग क्र.३ जल संसा.रीवा	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	86	बी.पी.दुबे	सहायक यंत्री	कार्यालय उप.संचा.जल मौसम विज्ञान सम्भाग क्र.३ जल संसा.रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	87	राम सिंह कुशवाह	कार्यपालन यंत्री	कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन सम्भाग रीवा	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	88	अनिल कुमार मिश्रा	सहा.यंत्री	कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन सम्भाग रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	89	बाल्मीक प्रसाद मिश्रा	सहा.यंत्री	कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन सम्भाग रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	90	केदार नाथ गुप्ता	सहा.यंत्री	कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन सम्भाग रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	91	भूपेंद्र सिंह	सहा.यंत्री	कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन सम्भाग रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
रीवा	92	रविदीप बैन	सहा.यंत्री	कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन सम्भाग रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	93	ए.पी. एस.जादौन	अधी.यंत्री (बि.सु.) एवं उप मुख्य वि.नि.	कार्या.अधी.यंत्री (बि.सु.) एवं उप मुख्य वि.नि.	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	94	अरविंद बोहरे	कार्यपालन यंत्री (बि.सु.) एवं उप मुख्य वि.नि.	कार्या.अधी.यंत्री (बि.सु.) एवं उप मुख्य वि.नि.	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	95	यु.बी. पटेल	जिला शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी रीवा	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	96	रेवती रमन कालभोरे	कार्यपालन यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सम्भाग क्र.2	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	97	विजय बहादुर सिंह	योजना अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	98	डी.के. अमदापुरकर	कार्यपालन यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सम्भाग क्र.2	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	99	ब्रिज भूषण मिश्रा	अनुविभागीय अधिकारी	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सम्भाग क्र.2	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	100	डी. पी. सोनी	अनुविभागीय अधिकारी	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सम्भाग क्र.2	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	101	डी. आर. मैश्राम	अनुविभागीय अधिकारी	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सम्भाग क्र.2	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	102	आर. एस. गौतम	अनुविभागीय अधिकारी	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सम्भाग क्र.2	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	103	एस.एम. शुक्ला	सहायक यंत्री	कार्यालय कार्यपालन यंत्रीलो. स्वा.या.	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	104	बसंत राम	सहा.भौ.विद.	कार्यालय क्षेत्रीय प्रमुख भौ. तथा ख0 ख 0साधनविभाग	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	105	एस.के.दिवेदी	जिला प्रबन्धक	जिला प्रबन्धक नाग.आपूर्ती निगम	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	106	डी.के. तिवारी	प्रवर श्रेणी उप यंत्री	अधी. यंत्री ग्रा. या. सेवा रीवा सम्भाग	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	107	सुभाष नागोथर	सहा. अभि.	कार्या.अधी.यन्त्री पू. 0. क्षे. वि. म. रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	108	श्रीराम पाण्डेय	कार्य. अभि.	कार्या. 0. कार्य. यंत्री उत्तर सम्भाग म. प्र. पु. क्षे. वि. वि. क. लि. रीवा.	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	109	शिव राम कुम्हार	उप यंत्री राज पत्रित	कार्य. 0. यंत्री ग्रामीण या. सेवा रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
रीवा	110	डा०सी०एम०मिश्रा	सहा०प्राध्या०	शा०टी०आर०एस०महावि०रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	111	आर० एस० भाटी	कार्य० यंत्री	कार्य० यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	112	बालेन्द्र शेखर तिवारी	सहायक यंत्री	कार्यालय कार्यपालन यंत्री अपर पुरवा कैनाल डिवीजन रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	113	डी० के० श्रीवास्तव	प्राचार्य	उप संचा० कृ० वि० एवं प्र० के० कुरु० रीवा	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	114	आर० पी० कुशवाहा	उप यंत्री राज पत्रित	कार्य०कार्य० व्यन्त्री आ०व्या०सेवा रीवा म०	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	115	अभिषेक शुक्ला	सहायक यंत्री	कार्य०अधी०व्यन्त्री पु० क्षे० वि० म० रीवा म०	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	116	वही एस० तिवारी	सहायक यंत्री	कार्य०कार्य० व्यन्त्री आ०व्या०सेवा रीवा म०	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	117	कमलेश कुमार तिवारी	सहायक यंत्री	कार्यालय कार्यपालन यंत्री पी डब्ल्यू० डी०ब्रिज रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	118	आर० के० बादल	सहायक यंत्री(सि)	कार्यालय कार्यपालन यंत्री(सि) 3 टी० एच० पी० सिलपरा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	119	जे० पी० सिंह	उप संचालक	उप संचालक नगर एवं ग्राम निवेश रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	120	डब्ल्यू० पी० मालवीय	अधी० यंत्री	कार्यालय मुख्यअभियंता म० प्र० वि० म०	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	121	कमलेश्वर प्रसाद द्विवेदी	वि० ख० शिक्षा अधि०	वि० ख० शिक्षा अधि० रायपुर कर्चु० 0	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	122	राम मणि शर्मा	कार्य० यंत्री	कार्य० कार्य० पालन यंत्री भूअर्जन एवं पुनर्वास बाण सागर परे	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	123	एच० एन० गौतम	सहा० प्रब०	एम्० पी० आर० डी० सी० क्र० 2 रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	124	एस० पी० दाहिया	परियो०अधि०	परियोजना इकाई प्रोजेक्ट पिपराही हनुमना द्वारा जिला संयोजक रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	125	आलोक श्रीवास्तव	सहायकयंत्री	संभागीय प्रोजे०परियो०यंत्री रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
रीवा	126	प्रेमलाल गर्ग	उपयंत्री राजपत्रित	कार्योकार्य यन्त्री ग्रा.या.सेवा रीवा म.प्र.	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	127	एन्.जी.सिंह	सहायक यंत्री	म.प्र.औद्योगिक केंद्र विकास निगम मर्या. रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	128	देवराज पटेल	सहायक यंत्री	कार्यो. कार्य पालन यंत्री भूअर्जन एवं पुनर्वास बाण सागर परि.	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	129	एन्.के.शुक्ला	सहा.प्रबं	म.प्र.औद्योगिक केंद्र विकास निगम मर्या. रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	130	आर.डी.अहिरवार	कार्यपालन यंत्री	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर रीवा	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	131	राजेंद्र प्रसाद पयासी	वरिष्ठ शोध अधि.	कार्यो.एवको.ए.पी.एस्.वि.वि.री वा	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	132	मोती सिंह राजपूत	सम्भा.बीज प्रमणीकरण अधि.	सम्भा.बीज प्रमणीकरण अधि. बोदाबाग रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	133	अनिलसिंह	सहायक यंत्री	कार्यालय ग्रामीण यांत्रिकी सेवा रायपुर रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	134	सुशील कुमार मुकाती	महा प्रबन्धक	एम.पी.आर.डी.सी.क्र.रीवा	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	135	पी.एल.यादव	संभागीय परि.यंत्री	कार्यो.लो.नि.वि.पी.आई.यू.यूनि ट रीवा	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	136	तरुणेंद्र प्रताप सिंह	सहायक संचालक	कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सम्भाग रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	137	एस.के.सिंह	सहायक यंत्री	कार्यालय मुख्य अभियंता गंगाकछार रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	138	डी.के.शुक्ला	सहा.महा प्रबन्धक	म.प्र.ग्रा.सडक वि.प्रा.परि.क्रिया.ईकाई ?	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	139	वी.डी.सिंह	उप संचालक	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाये रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	140	दही.सी.श्रीवास्तव	उपयंत्री राजपत्रित	कार्यालय ग्रामीण यांत्रिकी सेवा रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	141	आदित्य कुमार सिंह	अनु. अधि.	सव डिवीजन आफिस लाइट मशीनरी रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	142	जी.के.विजय	सहा. भू.सं.अधिकारी बेहड	कार्यालय उप.संचा.किसान कल्याण एव कृषि विकास रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
रीवा	143	सतीश कुमार तिवारी	सहा० प्राध्या०	टी०आर०एस०कालेज रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	144	डा० सुखराज सिंह	पशु चिकि. सहायक शल्य	प्रबन्धक कुक्कुट फार्म कार्या०जे०डी०व्ही०एस०रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	145	वाई०के०सिधई	उप यंत्री (ओ०एण्ड एम०)	एम०पी०एस०ई०बी०रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	146	संतलाल प्रजापति	उपयंत्री राजपत्रित	कार्या०कार्य ०यन्त्री ग्रा०व्या०सेवा रीवा म०प्र०	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	147	डा० रमेश कुमार पाण्डेय	पशु प्रजनन कार्यक्रम अधिकारी	उप सचालक पशु चिकित्सा सेवाये रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	148	पी०पी०मिश्रा	सहा.भौ.विद.	कार्यालय क्षेत्रीय प्रमुख भौ० तथा खनिकर्म खनिज संसाधन विभाग रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	149	चंद्रप्रकाश नामदेव	सहायक यंत्री	कार्यालय मुख्यअभियंता गंगाकछार रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	150	कमल कुमार सिंह	सहायक प्राध्या०	टी०आर०एस०कालेज रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	151	शैलेंद्र वर्मा	उपायुक्त	कार्या०म०प्र०गृहनिर्माण एव अधो०विकास मण्डल रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	152	हरजाप सिंह उन्नी	सहायकयंत्री(सि)	कार्यालय कार्यपालन अभियंता सि०भू०अर्जन म०प्र०प०ज०क०लि०सिरमौर	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	153	आशीष बैन	सहा०अभि०	कार्या०अधी०यंत्री पूर्वी क्षेत्र वि०म० रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	154	आर०एन०सिंह	सयुक्त पंजीयक	कार्या० सयुक्त रजिस्टार को०रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	155	जी०एस्०अग्रवाल	कार्यपालन यंत्री	कार्या०कार्य ०यन्त्री लो०स्वा०व्या०खण्ड रीवा म०प्र०	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	156	नरेंद्र सिंह	कार्यपालन यंत्री	कार्या०अधी०यंत्री बि०म० गल्ला मण्डी रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	157	एम०के०अहिरवार	सहायक यंत्री	कार्या०म०प्र०पूर्वी क्षेत्र वि०म०क०लि०मि० रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	158	ड०सशील कुमार दूबे	सहायक प्राध्या०	टी०आर०एस०कालेज रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	159	टी०के०मिश्रा	अधी०यंत्री	कार्यालय मुख्यअभियंता एम०पी०एस०ई०बी०रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	160	बृजेंद्र सिंह	विकास प्रबंधक	जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
रीवा	161	जी०सी०गुप्ता	मुख्य कार्य०अधि०	अंतःव्यवसायी सहविकाससमिति मर्या०	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	162	सतोस तिवारी	सह०यंत्री	कार्य० यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मऊगंज	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	163	आर०के० दवे	महाप्रबंधक	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परि०रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	164	बबलू इनवाती	सहा०अभि०	मीटर परि०म०प्र०पु०क्ष०वि०वि०क०लि०रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	165	लोकेश सिंह	सहा०यंत्री	कार्य०म०प्र०ग्र०ह०निर्माण एव अघो०विकास मण्डल रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	166	डा०एस०डी०तिवारी	वैज्ञानिक	क्षेत्रीय कार्य०म०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	167	ए०पी०एस०धाकरे	सहा०यंत्री(सि०)	कार्य०कार्य०यंत्री सि० ५ टी०एच०पी०सिलपरा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	168	बसंत कुमार लाल	परियोजना अधि०	कार्यालय परियोजना अधि०आई०सी०डी०ए०ए०ए०नईगढी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	169	राजमणि सिन्हा	सहा०यंत्री	अधी०यंत्री पु०क्ष०वि०म०रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	170	एस्०डी०बालमीक	क्षेत्रीय अधि०	क्षेत्रीय कार्य०म०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	171	जे०के०नागर	महा प्रबंधक	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परि०मऊगंज	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	172	पी०एल०साकेत	उपयंत्रीराजपत्रित	कार्य० यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	173	भागवत प्रसाद मिश्रा	सहा०यंत्री	कयोटी कैनाल डिविजन रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	174	आर०पी०मिश्रा	उपयंत्री	कार्य०कार्य०यन्त्री ग्रा०या०सेवा रीवा म०प्र०	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	175	पंकजराव गोरखडे	कार्यपालन यंत्री	कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो. स्वा.या.मकै०डी०एल०रीवा	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	176	के०पी०मिश्रा	सहायक यंत्री	कार्यालय कार्य० यंत्री ग्रा०या० सेवा रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	177	अश्वनी कुमार पाठक	जिला परि०समंवायक	जिला परि०समंवायक रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	178	उपेंद्र प्रसाद सिंह	सहा०प्राध्या०	शास०कालेज मऊगंज	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	179	राजकुमार तिवारी	सहायक यंत्री	कार्य०कार्य०यंत्री बी /एस डिस्ट्रीब्यूट्री दिवि०रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
रीवा	180	युंपीशुक्ला	ई०ई०	एम०पी०एस०ई०वी०रीवा	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	181	पी०पल्ल०रथे	कार्यपालन यंत्री	एम०पी०एस०ई०वी० गल्लामंडी रीवा	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	182	हर प्रसाद कुम्हार	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	183	तरुन कुमार नंदी	सहायक यंत्री	कार्यालय कार्यपालन यंत्री अपर पुरवा कैनाल डिवीजन रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	184	सुरेंद्रपाल सिंह	उप पंजियक	कार्यालय पंजियक रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	185	अजय कुमार झा	सहायक प्राध्या०	टी० आर०एस० कालेज रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	186	आर०धन्व०द्विवेदी	कार्य० यंत्री	कार्यालय कार्य०अभियंता सि०क्र०4टो०ज०वि०प०सिरमौर	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	187	सी०बी०त्रिपाठी	सहायक यंत्री	कार्यालय भू-अर्जन एवम पुर्नवास बाणसागर परियोजना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	188	अरविदकुमार त्रिपाठी	सहायक यंत्री	कार्यालय कार्यपालन यंत्री अपर पुरवा कैनाल डिवीजन रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	189	एम०एम०मिश्रा	सहायक प्रबंधक	म०प्र०ग्रा०सडक वि०प्रा०परि०क्रि०ई०1	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	190	ए०के० जैन	सहायक यंत्री	कार्य०म०प्र०गृहनिर्माण एव अधो०विकास मण्डल रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	191	शेषमणि त्रिपाठी	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	192	रवींद्र कुमार धुर्वे	सहा०प्राध्या०	टी०आर०एस०कालेज रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	193	एल्०बी०सिंह	सहायक यंत्री	अधी०यंत्री (सिविल) 5 टी०एच०म०प्र०पा०ज०क०लि०सिलप रा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	194	रत्नेश्वर प्रसाद दुर्वेदी	सहायक प्राध्या०	शास०महावि०मऊगंज	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	195	पी०के० शर्मा	सहायक यंत्री	कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	196	आर०एस० पांडेय	प्रबंधक	औ० केंद्र वि० निगम मर्या० रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	197	राजमणी सिंह	उप पंजियक	संस्थार सहकारिता विभाग रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए



1	2	3	4	5	6	7
रीवा	198	अजय वैन	परियोजना यंत्री	संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग पी०आई०यू०रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	199	एस्०एस्०गौतम	कार्य० यंत्री	कार्यालय अक्षय उर्जा अधि०रीवा	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	200	एम्०के०अंसारी	कार्य० यंत्री	कार्यालय कार्य० यंत्री रा०श०मा०रीवा	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	201	आर्०के०प्रजापति	परियोजना संचालक	आत्मा कार्यालय उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	202	वाई०के०गुप्ता	कार्यपालन यंत्री	अधी०यंत्री (सिविल) 3 टी०एच०म्०प्र०पा०ज०क०लि०सिलपरा	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	203	रामानुज ओझा	सहायक यंत्री	कार्यालय कार्य० यंत्री ई०ई०/एम्०सम्भाग रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	204	बृजराज सिंह	उप संचालक	कार्यालय उप संचालक भौमि०एवम खनि०संचा०रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	205	वाई०के०दोहरे	कार्यपालन यंत्री	कार्यालय कार्यपालन यंत्री म०प्र०हा०बो०रीवा	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	206	सुभाष चंद्र रैकवार	संयुक्त संचालक	संयुक्त संचालक पशु चि०रीवा	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	207	डी०एल्०फड्डीश	सहायक यंत्री	कार्यालय कार्य०अभियंता सि०भूअर्जनम०प्र०प० ज०क०लि०सिरमौर	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	208	पुष्पराज गिरि	कार्यपालन यंत्री	कार्या०कार्य०पालनयंत्री भूअर्जन एवं पुन०बाणसागर रीवा	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	209	नवीन पांडेय	कार्य०यंत्री	अभियंता एस्०टी०सी०म०प्र०प०क्षे०वि०रीवा	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	210	रामप्रकाश शुक्ला	अनु०अधि०	कार्या०कार्य०यंत्री पी०ब०इ०ब्ल्यू०डी०बी०आर०सम्भागरीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	211	आर्०डी०पांडेय	उप यंत्री	कार्य० यंत्री ग्रामीण या० सेवा रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
रीवा	212	सी०एल्०सोनी	सहा०संचा०	कार्या०पि०वर्गातथाअल्पसंख्यक कल्याण वि०रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	213	अशोक कुमार तिवारी	उपयंत्री	कार्य० यंत्री ग्रामीण या० सेवा रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	214	नारेंद्र कुमारशर्मा	उपयंत्री	कार्य० यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	215	आंकार सिंह मात्लिक	उप यंत्री	कार्या० कार्य० यंत्री या० या० सेवा रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	216	एस०के० कुमरे	उप संचा०	उप संचा० म०प्र० राज्य क्र०विप ० बोर्ड	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	217	सकल्प श्रीवस्तव	सहा०यंत्री	कार्यालयभू०अर्जन एवं पुनर्वास क्र०1 त्र्याथर	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	218	सत्य नारायन चतुर्वेदी	उप यंत्री	कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	219	के०के० ० तिवारी	सहायक यंत्री	कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभागा सेत् निर्माण विभाग रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	220	आर.सी.सोनी	एस.एल.आर.	भू०अभिलेख रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	221	आर.एस.वागरी	एस.एल.आर.	भू०अभिलेख रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	222	इन्द्रमणी प्रसाद पाण्डेय	सहायक यंत्री	अनु० अधि०व्याटी नहर उप सम्भाग रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	223	संदीप कुमार द्विवेदी	सहायक यंत्री	अनु० अधि०व्याटी नहर उप सम्भाग रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	224	डा०शिवप्रसाद पाण्डेय	प्राध्यापक	शास०टी०आर०एस०महा०रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	225	एम०एन०रहासमी	सहा०प्रबंधक/महा प्रबंधक	म०प्र०या०स०वि०प्राधि०पी०आई०यू० रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	226	कमलेश सिंह	सहा०प्राध्यापक	साइंस कालेज रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	227	सुशील कुमार दुवेंदी	सहा०यंत्री	कार्य०यंत्री बी/एस डिस्टी०डिवि०रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	228	अशोक कुमार सिंह चौहान	सहायक यंत्री	कार्या०कार्यपालन यंत्री अपर पूर्वा कैनाल रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	229	वीरेंद्र मिश्र	सहा०प्राध्यापक	शास०वि०कानंदमहावि०त्र्याथर	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	230	महाबली चौहान	सहा०यंत्री	अधी०यंत्री कार्या०जलसशा०रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	231	डा०राजेश्वरीप्रसाद ओझा	सहा०प्राध्या०	टी०आर०एस०कालेज रीवा	द्वितीयश्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
रीवा	232	अविनीश दुवेदी	सहाप्राध्यापक	शा.आदर्श वि० महावि० रीवा	द्वितीयश्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	233	आनंद स्वरूप तिवारी	सहायत्री	कार्योन्मत्तयत्रीअपरपुरवा कैनाल डिवीजन रीवा	द्वितीयश्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	234	विधाशंकर पाठक	सहायत्री	कार्योन्मत्त भूअर्जन पुनर्वास बो / एस परि०रीवा क्र०१	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	235	एम्.एन्.हासमी	सहायप्रबं०	म.प्र.ग्या.सं.वि.प्राधि०पी.आई.यू. रीवा?	द्वितीयश्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	236	राजेश कुमारसिंह	सहायत्री	अधी०यत्री बो / एस कैनाल सकिल रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	237	डॉ.सुरेशकुमार सिंह	सहाप्राध्या०	शा.शहीद केदारनाथ महावि० मऊगंज	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	238	भजन लाल मोर्य	सहा० प्राध्या०	शा.शहीद केदारनाथ महावि० मऊगंज	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	239	मोहम्मद हबीब खान	सहायक यत्री	कार्यपालन यत्री पी०एच०ई० रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	240	नरेंद्र सिंह सिसोदिया	सहायत्री	अधी०यत्री जल संसा० सकिल रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	241	आर०पी०दुवे	सहाप्राध्या०	टी०आर०एस०कालेज रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	242	डा०के०केशर्मा	प्राध्या०	टी०आर०एस०कालेज रीवा	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	243	दही०के० श्रीवास्तव	सहायप्रबंधक	महा०प्रबंधक म.प्र.ग्या.सं.वि.प्राधि०पी.आई.यू. रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	244	के०एल०जायसवाल	सहा० प्राध्या०	साईस कालेज रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	245	सत्य प्रकाश सिंह	सहाप्राध्या०	टी०आर०एस०कालेज रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	246	सनकादिक लाल मिश्रा	सहाप्राध्या०	शा०कालेज मऊगंज	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	247	नरेंद्र नाथ तिवारी	सहायत्री	मुख्य अभियंता गंगा वेसिन रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	248	मनोहर भोंडे	सहायत्री	कार्योन्मत्त अपर पुरवा कैनाल डिवीजन रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	249	एम्.के.सिंह	सहायत्री	अधी०यत्री वाटर रिसोर्स मण्डल रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	250	महानंद द्विवेदी	सहाप्राध्या०	शा० महावि० मऊगंज	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	251	दिनकर प्रसाद शुक्ला	सहाप्राध्या०	साईस कालेज रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	252	लव राम सिंगरौल	सहायत्री.	अधी०यत्री लो०स्वा०यांत्रिकी रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
रीवा	253	हरिशंकर द्विवेदी	सहा० प्राध्या०	शा० केदारनाथ महा० मऊगंज	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	254	डा. राम लालर द्विवेदी	सहायक प्राध्या०	शा० केदारनाथ महा० मऊगंज	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	255	बुद्धसेन मिश्रा	सहायक प्राध्या०	शा० महा० त्योंथर	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	256	राकेश शर्मा	सहायक प्राध्या०	जी०डी०सी०कालेज रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	257	राजेंद्र प्रसाद पाण्डेय	सहायक प्राध्या०	न्यू साईंस कालेज रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
रीवा	258	सम्पूर्णानंद शुक्ला	सहायक प्राध्या०	आदर्श वि०महावि०रीवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	1	पी. आर. कुम्हार	सहायक यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	2	जानेन्द्र मिश्रा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत रामपुर नैकिन	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	3	डा. महेंद्र सिंह	कार्यक्रम समन्वयक	कृषि विज्ञान केंद्र सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	4	ए. हक	कार्यपालन यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सीधी	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	5	सुमद्रा मानिकपुरी	महिला सशक्तिकरण अधिकारी	महिला एवं बाल विकास विभाग सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	6	डा. अरुण सिंह	सहायक परियोजना समन्वयक	जिला शिक्षा केंद्र	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	7	एस. एम. तिवारी	सहायक यंत्री	महान नहर संभाग सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	8	रमेश गहलोत	वन परिक्षेत्राधिकारी	वन परिक्षेत्र चुरहट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	9	सजय श्रीवास्तव	परियोजना अधिकारी	उप संचालक कृषि सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	10	एस. एस. द्विवेदी	सहायक यंत्री	जनपद पंचायत सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	11	श्याम लाल कारपेंटर	सहायक यंत्री	महान परियोजना गुलाब सागर सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	12	ओ. पी. नामदेव	सहायक प्राध्यापक	शासकीय कन्या महाविद्यालय सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	13	उदय प्रकाश विश्वकर्मा	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन क्रमांक १ सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	14	एस. एस. शुक्ला	कार्यपालन अधिकारी	जिला अन्त्यावसायी समिति सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	15	आर. के. पटेल	अधीक्षण यंत्री	महान परियोजना गुलाब सागर मंडल सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	16	सुदर्शन राम भारती	ग्रथपाल	शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय मझौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	17	यू.के. एस. चौहान	उप संभागीय प्रबंधक	वन विकास निगम सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	18	आर. पी. सिंह गहरवार	समन्वयक	नेहरू युवा केंद्र सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	19	राकेश कुमार वर्मा	सहायक यंत्री	महान नहर संभाग सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
सीधी	20	जय राम प्रसाद मिश्रा	सहायक संचालक	अनुविभागीय अधिकारी कृषि सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	21	दही.पी.एस.चौहान	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	22	के.पी.सिंह परिहार	सहायक संचालक	उद्यान सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	23	पवन मरकाम	सहायक यंत्री	गृह निर्माण मंडल सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	24	डा.एम.एल.शुक्ला	उप संचालक	पशु चिकित्सा सेवाएं सीधी	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	25	ए.बी. सिंह	परियोजना अधिकारी	जिला शहरी विकास	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	26	बुजेंद्र सिंह	प्रबंधक	एगो इंडस्ट्रीज सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	27	दही.के.दुबे	प्राध्यापक	शासकीय संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय सीधी	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	28	भारत भूषण सिंह परमार	कार्यपालन यंत्री	जल संसाधन क्रमांक 1 सीधी प्रथम	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	29	हरिकिशन अहिरवार	श्रम अधिकारी	श्रम कार्यालय सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	30	वीरेंद्र प्रताप सिंह	जिला खेल एवं युवक कल्याण अधिकारी सीधी	जिला एवं युवक कल्याण सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	31	रजनीश तिवारी	परियोजना अधिकारी	जिला पंचायत सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	32	बी.के.चौरसिया	अनुविभागीय अधिकारी	लोक निर्माण विभाग मझौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	33	एस.पी.दुबे	सहायक लेखा प्रबन्धक	सम्भागीय प्रबन्धक वन विकास निगम सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	34	अशोक कुमार शुक्ला	अनुविभागीय अधिकारी	सम्भागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग इकाई सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	35	एच.आर.कोठी	सहायक यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सम्भाग सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	36	हीरालाल सिंह चौहान	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	37	दधिबल सिंह	प्राध्यापक	शासकीय संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय सीधी	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	38	रत्नाकर चतुर्वेदी	महाप्रबन्धक	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सीधी	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	39	समीर सिंह	जिला योजना अधिकारी सीधी	जिला योजना सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	40	एस.पी.एस.गहरवार	अनुविभागीय अधिकारी	वन मण्डल सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	41	अरविन्द कुमार त्रिपाठी	प्राध्यापक	संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय सीधी	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

—

1	2	3	4	5	6	7
सीधी	श्रीमती प्रतिमा पाण्डेय		जिला कार्यक्रम अधिकारी	महिला एवं बाल विकास विभाग सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	श्री जगदम्बा प्रसाद त्रिपाठी		वन परिक्षेत्राधिकारी	बहरी वन मण्डल	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	श्री एस पी तिवारी		सहायक यंत्री	जिला शिक्षा केन्द्र सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	डॉ. बी.बी. सिंह		मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत सिहावल	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	श्री लोकेन्द्र अल्वा		सहायक यंत्री	जल संसाधन क्रमांक 1 सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	श्री विकास निगम		सहायक यंत्री	जल संसाधन क्रमांक 1 सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	श्री यमुना प्रसाद वर्मा		प्रभारी सहायक संचालक	मत्स्योद्योग सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	श्री सिन्धुदास प्रजापति		सहायक पंजीयक	आडिट सहकारिता सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	डॉ. एस.बी. सिंह		सहायक प्राध्यापक	शा. कन्या महाविद्यालय सीधी	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	श्री एम.एल अहिरवार		सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यात्रिकीय सेवा सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	श्री ओ.पी. सिंह बघेल		उप पबंधक	वन उपज सघ सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	पुरुषोत्तम दास गुप्ता		विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी	जनपद कुसमी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	सुभाष चन्द्र शर्मा		मुख्यकार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत सिहावल	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	दिनेश प्रसाद तिवारी		पशु प्रजनन कार्यक्रम अधिकारी	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं सीधी	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	एस.पी. मिश्रा		उप वन मण्डल अधिकारी	वन मण्डल सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	मथुरा प्रसाद गौतम		सिविल सर्जन	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं सीधी	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	सुभाष चन्द्र दुबे		प्राध्यापक	शासकीय संजय गाँधी स्मृति महाविद्यालय सीधी	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	विष्णु आर्या		सहायक यंत्री	जल संसाधन क्रमांक 1 सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	अजय कौशिक		सहायक यंत्री	जल संसाधन क्रमांक 1 सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	एस.के. दुबे		कार्यपालन यंत्री	राष्ट्रीय राजमार्ग सीधी	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	जे एल सिंह		सहायक यंत्री	लोक निर्माण विभाग चुरहट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	सी के चौरडिया		प्रबंधक	जिला ट्यापार एवं उद्योग केन्द्र सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	आशुतोष सिंह		परियोजना अधिकारी	डी.पी.आई पी सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	जे.एल. शर्मा		मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत कुसमी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	के आर नागर		कार्यपालन यंत्री	बाणसागर लोवर सिहावल कैनाल चुरहट	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
सीधी	67	सी बी अहिरवार	सहायक यंत्री	बाणसागर लोवर सिंहावल कैनाल चुरहट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	68	आर पी पटेल	सहायक यंत्री	बाणसागर लोवर सिंहावल कैनाल अमिलिया	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	69	एस के बरगैया	महाप्रबंधक	म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण सीधी	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	70	शारदा प्रसाद माझी	अवेक्षण अधिकारी	सहकारिता सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	71	जानकी प्रसाद पाण्डेय	डी.ई.ओ.	जनपद पंचायत मझौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	72	प्रदीप सिंह	मुख्यकार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत मझौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	73	आर के सिंह	बन परिक्षेत्र अधिकाारी	मडवास बन मण्डल सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	74	आरविन्द कुमार	सहायक प्राध्यापक	शा. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय मझौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	75	एल आर मीणा	सहायक आयुक्त	आदियासी विकास सीधी	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	76	सतेन्द्र सिंह परिहार	सहायक संचालक	पिछडा वर्ग कल्याण सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	77	प्रभाकर सिंह	अनुविभागीय अधिकारी	लोक निर्माण सेतु निगम सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	78	रजनीश कुमार द्विवेदी	डी.ए.एस.	उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	79	नवल किशोर द्विवेदी	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	विकासखण्ड सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	80	के.डी. त्रिवाठी	परियोजना अधिकारी	एकीकृत आदियासी विकास परियोजना कुसमी	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	81	दिलीप कुमार जाट	मृदा संवेक्षण अधिकारी	कृषि सीधी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सीधी	82	इमरान खान	कार्यपालन यंत्री	म.प्र.पु.वि.वि.क. ति. सीधी	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	1	श्री मथुरा प्रसाद कुम्हार	उप परियोजना संचालक	आत्मा समित सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	2	श्री आर. एन. वर्मा	UPVANDAL ADHIKARI	UPMANDAL GORBI	SECOND CLASS	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	3	श्री उग्रसेन वर्मा	A.E	P.H.E WAIDHAN	SECOND CLASS	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	4	श्री डी के दुबे	MAHA PRABANDHAK	VADIJAY UDYOG	SECOND CLASS	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	5	श्री बी.डी. शिवहरे	ANUVIBHAGIYE ADHIKARI	GRAMIN YANTRIKI SEVA	SECOND CLASS	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	6	श्री अजित कुमार मिश्रा	रेज आफिसर	रेज आफिस चितरंगी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	7	श्री एस. पी. सिंह	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी	भूमि संरक्षण देवसर	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	8	श्री बाई. एस. नायक	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी	सहायक यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	9	श्री श्याम लाल धुर्वे	A.E	P.H.E SINGRAULI	SECOND CLASS	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
सिंगरौली	श्री गंगा प्रसाद मिश्रा	श्री एस. पी. सिंह	नागरिक आपूर्ति जिला प्रबंधक	नागरिक आपूर्ति जिला प्रबंधक	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	श्री एस. पी. सिंह	श्री एस. पी. सिंह	सहायक प्रबंधक	म.प्र.ग्रा.स. विकास प्राधिकरण सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	श्री आर. एस. शर्मा	श्री आर. एस. शर्मा	महाप्रबंधक	पी.आई.यू. कर्थुआ	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	श्री धर्मन्द्र सिंह यादव	श्री धर्मन्द्र सिंह यादव	उपयंत्री	जल संसाधन	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	श्री बी.एस. मांझी	श्री बी.एस. मांझी	बी.ओ.	बी.ओ. चितरंगी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	श्री आर. एस. चन्देल	श्री आर. एस. चन्देल	उप वनमण्डल अधिकारी	उप वन मण्डल सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	श्री आर. पी. सिंह	श्री आर. पी. सिंह	प्रभारी अनु विभागीय अधिकारी	लो.नि.वि. चितरंगी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	श्री पी.पी. सिंह	श्री पी.पी. सिंह	बी.	बी.आर.सी.सी. चितरंगी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	श्री प्रदीप कुमार गरवाल	श्री प्रदीप कुमार गरवाल	सहा. यंत्री	जल संसाधन सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	श्री आजाद सिंह	श्री आजाद सिंह	सहा. प्रबंधक	पी.आई.यू. कर्थुआ	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	श्री पी.पी. एस. परिहार	श्री पी.पी. एस. परिहार	उप वनमण्डल अधिकारी	उप वन मण्डल देवसर	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	डा. सूर्य प्रकाश जोशी	डा. सूर्य प्रकाश जोशी	आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी	आयुर्वेद चिकित्सा सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	श्री डी.एस. चौहान	श्री डी.एस. चौहान	विटनरी सर्जन	पशुपालन विभाग सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	श्री एस.बी. सिंह	श्री एस.बी. सिंह	प्राचार्य	कन्या उ.मा.वि. चितरंगी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	डा. विनय कुमार सिंह	डा. विनय कुमार सिंह	स्वास्थ्य अधिकारी	नगर निगम सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	श्री देवेन्द्र सिंह	श्री देवेन्द्र सिंह	श्रम निरीक्षक	सहा. श्रम आयुक्त कार्यालय सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	श्री डी.पी. सिंह	श्री डी.पी. सिंह	अति. उपसंचालक	पशु चिकित्सा विभाग	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	डा. पंकज सिंह	डा. पंकज सिंह	व्ही.एस. पशु चिकित्सक	व्ही.एस. पशु चिकित्सा विभाग सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	श्री एस.के. दुबे	श्री एस.के. दुबे	व्ही.एस. पशु चिकित्सक	व्ही.एस. पशु चिकित्सा विभाग सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	श्री जी. आर. सिंह	श्री जी. आर. सिंह	सहा. वन संरक्षक	वन विभाग मोरवा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	डा. यू.पी. सिंह	डा. यू.पी. सिंह	उप संचालक	पशुपालन विभाग सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	श्री डी.के. बागला	श्री डी.के. बागला	मुख्य रसायन	म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	श्री रमेश्वर उईके	श्री रमेश्वर उईके	रेज आफिसर	रेज आफिस सरई	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	श्री बी.के. दुबे	श्री बी.के. दुबे	अनुविभागीय अधिकारी	लो.नि.वि. देवसर	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	श्री आर.पी. शाह	श्री आर.पी. शाह	उपयंत्री	जल संसाधन सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	श्री देवलाल सिंह	श्री देवलाल सिंह	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. गइहरा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	श्री एम.एल. साकेत	श्री एम.एल. साकेत	अनुविभागीय अधिकारी	लो.नि.वि. बैढन	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	श्री सत्यसागर	श्री सत्यसागर	जिला ग्रामोद्योग अधिकारी	जिला पंचायत सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए



1	2	3	4	5	6	7
सिंगरौली	38	श्री अजीत सिंह	सहा. आपूर्ति अधिकारी	जिला आपूर्ति कार्यालय सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	39	श्री अजय सिंह	संपत्ति अधिकारी	नगर पालिक निगम सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	40	श्री सलिल कुमार सिंह	संपत्ति प्रबंधक अधिकारी	नगर पालिक निगम सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	41	श्री जे.एन. शर्मा	सचिव कृषि उपज मंडी	कृषि उपज मंडी कार्यालय सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	42	श्री प्रभात कुमार पाण्डेय	उपयंत्री	नगर पालिक निगम सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	43	श्री चंद्रवली पांडेय	सहा. यंत्री	नगर पालिक निगम सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	44	श्री विकास पाटिल	सहा. यंत्री	नगर पालिक निगम सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	45	श्री उद्वव प्रसाद शर्मा	सहा. संचालक	कृषि उपज मंडी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	46	श्री रामानुज पटेल	सहा. मत्स्य अधिकारी	मत्स्य विभाग सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	47	श्री आर.के. जैन	कार्यपालन यंत्री	विद्युत मंडल सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	48	श्री दही.दही. सिंह चौहान	सहायक श्रम अधिकारी	श्रम विभाग सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	49	श्री एस.के. सिंह	सहायक यंत्री	विद्युत मंडल सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	50	श्री दिनकर प्रसाद दुबे	सहायक यंत्री	विद्युत मंडल सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	51	श्री पूनम चन्द्र. मेश्राम	कार्यपालन यंत्री	लो.नि.वि. सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	52	श्री ए.एन. सिहकी	प्रभारी कार्यपालन अधिकारी	लो.नि.वि. सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	53	श्री रमेश प्रसाद पाल	उपायुक्त	सहकारिता विभाग सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	54	श्री डी.एस. राठौर	अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जिला पंचायत सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	55	श्री क्यू.ए. रहमान	सहायक खनिज अधिकारी	जिला खनिज कार्यालय	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	56	श्री नागेंद्र. सिंह. बघेल	श्रम निरीक्षक	श्रम विभाग सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	57	श्री आनन्द राय सरदार	प्रभारी उपसंचालक	औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	58	श्री वीरेन्द्र सिंह	सहायक संचालक	उद्यान विभाग सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	59	श्री हरेमुरारे सिंह	सहायक यंत्री	लोक स्वास्थ्य यात्रिका	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	60	श्री वाई.पी. वर्मा	रेज आफिसर	रेज आफिस बैटन	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	61	श्री राजीव दुबे	रेज आफिसर	रेज आफिस बैटन	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	62	श्री गोविन्द सिंह मरावी	सहायक संचालक	अल्प सख्यक कल्याण सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	63	श्री बृजेश कुमार जैन	महिला शक्तिकरण अधिकारी	महिला शक्तिकरण कार्यालय सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	64	श्री के.के. पाण्डेय	परियोजना संचालक	आत्मा समित सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
सिंगरौली	65	श्री अरविन्द कुमार त्रिपाठी	कार्यपालन यंत्री	जल संसाधन विभाग सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	66	श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	67	श्री एम.आई. खान	वन परिक्षेत्र अधिकारी	वन विभाग कर्छुआ	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	68	श्री बी.एन. शुक्ला	रेंज आफिसर	रेंज आफिस बरगवां	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	69	श्री ए.आर. हुरमोडे	प्रभारी प्रशासक	आदिवासी विकास परियोजना देवसर	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	70	श्री बी.के. पडवार	सहा. संचालक	जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	71	श्री अनंत सिंह	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी	जनपद पंचायत देवसर	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	72	श्री के. के. द्विवेदी	विकास खण्ड श्रोत समन्वयक	विकास खण्ड कार्यालय देवसर	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	73	श्री नीलकण्ठ मरकाम	सहा. परियोजना प्रशासक	परियोजना कार्यालय देवसर	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	74	श्री के.पी. बाथम	सहा. यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	75	श्री एस.पी. झा	सहा. यंत्री	म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	76	श्री जी.एल. मकवाना	रेंज आफिसर	वन विभाग बरगवां	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	77	श्री राहुल मेथ्राम	सहा. यंत्री	म.प्र. ग्रह निर्माण मंडल उप संभाग बैठन	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	78	श्री रणमत सिंह	जिला शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	79	श्री राम प्रकाश वैश्य	राजस्व अधिकारी	नगर पालिक निगम सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	80	श्री योगेन्द्र कुमार झा	ए.डी.पी.सी	डी.पी.सी. सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	81	श्री रामाधार पटेल	रेंज आफिसर	रेंज आफिस सरई	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	82	श्री सुदामा प्रसाद जायसवाल	ए.पी.सी.	जिला शिक्षा कार्यालय सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	83	श्री आर.सी. मिश्रा	ए.पी.सी.	जिला शिक्षा कार्यालय सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	84	श्री मोहन सिंह ठाकुर	श्रम पदाधिकारी	श्रम विभाग सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	85	डा. राघवेन्द्र प्रसाद द्विवेदी	प्रभारी प्राचार्य	शा. कन्या महावि. बैठन	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	86	श्री ए.के. सिंह	सहा. यंत्री	नगर पालिक निगम सिंगरौली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिंगरौली	87	श्री जगदीश सिंह	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. जयन्त	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
सिंगरौली	88	श्री हिजनुश केरकेट्टा	प्राचार्य	शा.कन्या उ.मा.वि. बेंडन	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	1	डॉ० पी०के० मिश्रा	पशु चिकित्सक सेवायें ब्यौहारी	पशु चिकित्सक सेवायें ब्यौहारी	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	2	श्री जे०के० गुप्ता	सहायक प्रबंधक	म०प्र० ग्रामीण सड़क विभाग प्राधिकरण परियोजना क्रियांवयन इकाई क्र०2 शहडोल	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	3	डॉ० एस०एस०सी० त्रिपाठी	पशु चिकित्सा अधिकारी	पशु चिकित्सक सेवायें बुडवा	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	4	श्री मयंक सिंह	अनुविभागीय अधिकारी	पक्का बंध स०क्र० 3 बाणसागर, शहडोल	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	5	श्री जी०आर० धूर्त	संभागीय परियोजना यंत्री	संभागीय पी०आई०यू०, शहडोल	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	6	श्री योगेन्द्र सिंह	एस०डी०ओ०	जल ससाधन ब्यौहारी	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	7	श्री प्रणेश दुबे	अनुविभागीय अधिकारी	लाइट मशीनरी उपसभाग क्र०1 बाणसागर, शहडोल	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	8	श्री निपेन्द्र सिंह	अनुविभागीय अधिकारी	पक्का बंध स०क्र०3 बाणसागर, शहडोल	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	9	श्री एस०पी० त्रिपाठी	अनुविभागीय अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी वन ब्यौहारी	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	10	श्री आर०एस० नट	अनुविभाग अधिकारी	राकफिल बंध संभाग बाणसागर, शहडोल	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	11	श्री एम०पी० सिंह	अनुविभागीय अधिकारी	लोक निर्माण विभाग ब्यौहारी	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	12	श्री आई०बी० नायक	कार्यपालन यंत्री	पक्का बंध क्र०3 बाणसागर देवलौद	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	13	श्री नितिन बिजवे	परियोजना अधिकारी	महिला बाल विकास परियोजना, ब्यौहारी	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	14	श्री जी०पी० मिश्रा	अनुविभागीय अधिकारी	ग्रामीण यात्रकी सेवायें ब्यौहारी	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	15	श्री रामजी तिवारी	अनुविभागीय अधिकारी	राकफिल पक्का बंध स०क्र० बाणसागर, शहडोल	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	16	डॉ० बी०पी० शुक्ला	पशु चिकित्सा अधिकारी	पशु चिकित्सालय गा०हृपारू	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	17	श्री आर० एन० मिश्रा	अनुविभागीय अधिकारी	भू धायक संयंत्र उप संभाग क्रमांक 1 देवलौद	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	18	श्री जी० के० पाण्डेय	सहायक यंत्री	एन०आर०ई०जी०एस० जयसिंहनगर	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
शहडोल	19	श्री केशरी सिंह	सहायक प्रबंधक	म0प0 ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियांवयन ईकाई क्र0 1, शहडोल	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	20	श्री यू0के0 सोनी	अनुविभागीय अधिकारी	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय उप संभाग ब्यौहारी	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	21	श्री आर0एस0 राजपूत	अनुविभागीय अधिकारी	एन0आर0ई0जी0एस0 जयसिंहनगर	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	22	श्री प्रशांत लगरखा	सहायक यंत्री मनरेगा	जनपद प्रचायत गोहपारू	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	23	श्री डी0पी0पी0एस0 गहरवार	कार्यपालन यंत्री	वर्क शाप एवं स्टोर बाणसागर	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	24	श्री साकेत कुमार मिश्रा	पशु चिकित्सा शल्यज्ञ	पशु चिकित्सा सेवाये जयसिंहनगर	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	25	श्री राकेश खरे	परियोजना अधिकारी	मलिहा बाल विकास परियोजना, जयसिंहनगर	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	26	श्री आर0एस0 द्विवेदी	अनुविभागीय अधिकारी	जल संसाधन उप संभाग जयसिंहनगर	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	27	श्री आर0एस0 चौधरी	अनुविभागीय अधिकारी वन	उप वनमण्डल कार्यालय जयसिंहनगर	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	28	श्री जे0एस0 बड़करे	जिला शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा कार्यालय शहडोल	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	29	श्री अयोध्या प्रसाद गौतम	पशु चिकित्सा शल्यज्ञ	पशु चिकित्सा सेवाये शहडोल	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	30	डॉ0 आई0जे0 गौतम	पशु चिकित्सा शल्यज्ञ	पशु चिकित्सा सेवाये शहडोल	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	31	श्री डी0पी0 द्विवेदी	सहायक यंत्री	लोक निर्माण विभाग शहडोल	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	32	श्री ए0पी0 सिंह	कार्यपालन यंत्री	कार्यपालन यंत्री जिला पचायत शहडोल	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	33	श्री व्यास मुनि पाण्डेय	एस0डी0ओ0 वन	उप वनमण्डल कार्यालय सोहागपुर	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	34	श्री एन0डी0 गुप्ता	उप संचालक	आत्मा परियोजना कृषि शहडोल	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	35	श्री ए0के0 सिंह घोष	सहायक प्रबंधक	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना क्रमांक2, शहडोल	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	36	श्री साहबराव सूर्यवंशी	कार्यपालन यंत्री	गृह निर्माण मण्डल	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
शहडोल	37	श्री आदित्य खरे	सहायक प्रबंधक	म0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियाव्ययन इकाई क्र02, शहडोल	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	38	डॉ0 के0के0 शर्मा	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें, शहडोल	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	39	डॉ0 जीतेन्द्र सिंह	उप संचालक	पशु चिकित्सा सेवायें, जिला शहडोल	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	40	श्री डी0के0 पाण्डेय	सहायक परियोजना अधिकारी	जिला पंचायत शहडोल	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	41	श्री एस0पी0 शुक्ला	जिला पंजीयक	जिला पंजीयक शहडोल	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	42	श्री कौशलेन्द्र सिंह	सहायक संचालक	पिछड़ा एवं अल्प संख्य कल्याण विभाग शहडोल	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	43	श्री रमाकांत पाण्डेय	अनुविभागीय अधिकारी	लोक निर्माण विभाग नेशनल हाइवे, शहडोल	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	44	श्री गोविन्द सिंह परिहार	सहायक यंत्री	जनपद पंचायत सोहागापुर (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा) शहडोल	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	45	श्री एम.पी. चौधरी	सहायक संचालक	जिला पंचायत शहडोल	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	46	श्री सुरेन्द्र सिंह	सहायक यंत्री मनरेगा	जनपद पंचायत बुढार ग्रामीण यांत्रिकी सेवा शहडोल	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	47	श्री आर0पी0 सिंह	परियोजना यंत्री	संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग पी0आई0यू0 क्र09, शहडोल	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	48	श्री महेंद्र शुक्ला	सहायक परियोजना प्रबंधक	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	49	श्री एस0के0 मिश्रा	सहायक परियोजना	अधिकारी जिा पंचायत शहडोल	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	50	श्री एस0के0 सालकी	सहायक संचालक	सहायक संचालक उद्यान शहडोल	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	51	श्री एस0के0 द्विवेदी	परियोजना प्रशासक	परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विभाग	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	52	श्री एन0के0 अग्रवाल	कार्यपालन यंत्री	जिला अन्त्या सहकारी विकास समिति शहडोल	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
शहडोल	53	श्री संजीव कक्कड	सहायक संचालक	म0प0 ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्र01, शहडोल	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	54	श्री वही0के0 केशरवानी	अनुविभागीय अधिकारी	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड शहडोल	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	55	श्री रामनरेश शर्मा	सहायक संचालक	उप संचालक किसान कल्याण कृषि विकास जिला शहडोल	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	56	श्री एम0एल0 मेहरा	जिला कार्यक्रम अधिकारी	महिला बाल विकास शहडोल	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	57	डॉ0 आर0डी0 दुबे	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	उप संचालक पशु चिकित्सालय शहडोल	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	58	श्री रामप्रकाश गुप्ता	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	उप संचालक पशु चिकित्सालय शहडोल	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	59	डॉ0 अशोक कुमार सिंह	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	पशु चिकित्सालय बुढार	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	60	डॉ0 यू0के0 मिश्रा	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	उप संचालक पशु चिकित्सालय शहडोल	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	61	श्री आर0के0 अवस्थी	सहायक संचालक	कृषि विभाग शहडोल	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	62	डॉ0 सी0के0 द्विवेदी	सहायक संचालक	कार्यालय रेशम, शहडोल	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	63	डॉ0 पी0के0 पटेल	महाप्रबंधक	जिला सहकारी मर्यादित बैंक शहडोल	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	64	श्री मनोज तिवारी	सहायक यंत्री	जल संसाधन उप संभाग क्रमांक 1, शहडोल	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	65	प्रभात उइके	अतिरिक्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी	जिला पंचायत शहडोल	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
शहडोल	66	श्री प्रयास कुमार प्रकाश	सहायक परियोजना प्रशासक	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना सोहागपुर	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	1	वही. एम मिश्रा	बी.ई.ओ.	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कोतमा	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	2	एल.आर. कुशरे	ए.ई.	गृह निर्माण मण्डल (सिविल) अनूपपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	3	मनोज कुमार श्रीवास्तव	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. देवगवाँ	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	4	राकेश कुमार मिश्रा	प्राचार्य	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. कोतमा	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	5	वही. के. सोनवानी	सहा. प्राध्यापक	शा. महाविद्यालय कोतमा	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	6	वीस्को लकड़ा	सहा. प्राध्यापक	शा. महाविद्यालय कोतमा	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
अनूपपुर	7	डॉ. विवेक कुमार पटेल	सहा. प्राध्यापक	शा.महाविद्यालय कोतमा	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	8	अजय सिंह चौहान	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. निगवानी	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	9	दिनेश कुमार बड़कई	महाप्रबन्धक	उद्योग अनूपपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	10	फूलसाय सिंह	प्रबन्धक	उद्योग	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	11	आर.सी. पनासिया	उप परियोजना सहायक	कृषि संचालक अनूपपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	12	त्रियोगीनाथ पाठक	विकास विस्तार अधिकारी	जनपद पंचायत कोतमा	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	13	दिनेश मण्डलौई	सहायक संचालक	कृषि विभाग अनूपपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	14	सूर्यकान्त मिश्रा	वन परिक्षेत्र अधिकारी	वन परिक्षेत्र कोतमा	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	15	डॉ. ए.पी. पटेल	पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी	पशु चिकित्सालय कोतमा	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	16	अनुज ओहदार	सहकारिता विस्तार अधिकारी	कार्यालय सहकारिता विकास अधिकारी कोतमा	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	17	जी.के. मिश्रा	ए.ई.	जनपद पंचायत कोतमा	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	18	राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत जैतहरी	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	19	आर.के. सोनी	सहा. प्राध्यापक	तुलसी महाविद्यालय अनूपपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	20	जे.के. संत	सहा. प्राध्यापक	तुलसी महाविद्यालय अनूपपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	21	जे.एल.पार्टीदार	अनुदेशक	वन विद्यालय अमरकंटक	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	22	राजेश सिंह चौहान	भूमि संरक्षण अधिकारी	कार्यालय भूमि संरक्षण अधिकारी अनूपपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	23	दही.के. विश्वकर्मा	कार्यपालन यंत्री	लोक निर्माण विभाग	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	24	ए.सी. जैन	सहा. प्राध्यापक	तुलसी महाविद्यालय अनूपपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	25	आर.एस. बाटे	सहा. प्राध्यापक	तुलसी महाविद्यालय अनूपपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	26	यू.पी. सिंह	खनिज अधिकारी	कार्यालय खनिज अधिकारी अनूपपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	27	राहुल शाण्डिल्य	खनिज निरीक्षक	कार्यालय खनिज अधिकारी अनूपपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	28	एच.पी. शुक्ला	सहा. वन संरक्षक	वन संरक्षक कार्यालय अनूपपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	29	पी.एस. योगी	जिला सांख्यिकी अधिकारी	जिला सांख्यिकी कार्यालय अनूपपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	30	डॉ. राजेश मिश्रा	उप संचालक	कार्यालय पशु चिकित्सा सेवारं अनूपपुर	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	31	अजय कुमार श्रीवास्तव	प्रबन्धक	जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र अनूपपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	32	सी.के. वर्मा	सहायक आयुक्त सहकारिता	सहकारिता विभाग अनूपपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
अनूपपुर	आर. के. धुर्वे		ए.पी.ओ.	जिला पंचायत अनूपपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	पिनायक मार्को		सहायक सचालक	इधकरघा अनूपपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	एच.एस. धुर्वे		कार्यपालन यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी अनूपपुर	प्रथम श्रेणी	
अनूपपुर	डी.डी. पाण्डेय		महाप्रबन्धक	ग्रामीण सड़क अनूपपुर	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	आनंद अग्रवाल		परियोजना अधिकारी	महिला एवं बाल विकास परियोजना पुष्पराजगढ़	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	एन. के. दोहरे		अनुदेशक	वन विद्यालय अनूपपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	जी.एस. भल्लावी		ए.डी.ओ.	लोक निर्माण विभाग पुष्पराजगढ़	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	देवन सिंह मरकाम		सहायक यंत्री	लोक निर्माण विभाग	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	डॉ. आर.के. जायसवाल		पशु चिकित्सक शल्यज्ञ	पशु चिकित्सालय अमरकंटक	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	पी.एस. ठाकुर		ए.ई.	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पुष्पराजगढ़	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	विश्रामदास चौधरी		ए.ई.	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पुष्पराजगढ़	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	जी.पी. कोरी		कार्यपालन यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अनूपपुर	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	एस.सी. शर्मा		कार्यपालन यंत्री	जल संसाधन विभाग अनूपपुर	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	एम.पी. चतुर्वेदी		अनुविभागीय अधिकारी	जल संसाधन विभाग पुष्पराजगढ़	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	बी.के. सिंह		अनुविभागीय अधिकारी	जल संसाधन विभाग अनूपपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	एल.पी. पाण्डेय		सहायक परियोजना प्रशासक	कार्यालय सहायक परियोजना प्रशासक पुष्पराजगढ़	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	अनिल कुमार गुप्ता		प्राचार्य	शा.उत्कृष्ट विद्यालय अनूपपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	अमर सिंह उडके		सहायक आयुक्त	आदिवासी विकास विभाग अनूपपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	डी.एस. भट्टारिया		सहायक यंत्री	मनरेगा अनूपपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	एस. के. पाण्डेय		प्राचार्य	पोलिटेक्निक अनूपपुर	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	हर प्रसाद तिवारी		समन्वयक	बी.आर.सी. पुष्पराजगढ़	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	आर. कजूर		सहा. प्राध्यापक	महाविद्यालय पुष्पराजगढ़	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	शिरीष श्रीवास्तव		खण्ड शिक्षा अधिकारी अनूपपुर	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय अनूपपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	एस. के. बाजपेयी		क्षेत्र संयोजक	आदिवासी विकास विभाग अनूपपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए



1	2	3	4	5	6	7
अनूपपुर	57	अरुण भारद्वाज	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद, पंचायत पुष्परजगढ़	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	58	कल्याण सिंह	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पुष्परजगढ़	द्वितीय	
अनूपपुर	59	एम.आई. राजदीन	खण्ड शिक्षा अधिकारी	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जैतहरी	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
अनूपपुर	60	डॉ. जे.एस. बघेल	उप संचालक	पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय अनूपपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	1	श्री एल पी मिश्रा	कार्यपालन यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	2	श्री सुशांत कुमार मजुमदार	सहायक यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	3	श्री उमेश कुमार मिश्रा	जिला शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	4	श्री एस पी मार्को	सहायक आयुक्त	आदिवासी विकास उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	5	श्री ललित कुमार डेहरिया	जिला महिला बाल विकास अधिकारी	जिला महिला बाल विकास अधिकारी उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	6	श्री कमलेश टांडेकर	खाद्य अधिकारी	खाद्य अधिकारी उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	7	श्री एस एस मरावी	सहायक आपूर्ति अधिकारी	सहायक आपूर्ति अधिकारी उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	8	श्री जे पी सोनी	महिला ससक्तिकरण अधिकारी	महिला ससक्तिकरण अधिकारी उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	9	श्री पंकज परिहार	सहायक प्रबंधक	प्र. गा. सड़क योजना ईकाई 08 उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	10	श्री एन पी सुमन	उपसंचालक कृषि	उपसंचालक कृषि जिला उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	11	श्री आर एम सिंह	एस डी ओ	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा करकेली	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	12	श्री अनिल चोपड़ा	अनुविभागीय अधिकारी	van umariya	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	13	श्री ए डी लोरिया	अनुविभागीय अधिकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	14	श्री ए बी सिंह	सहायक भूमि सरखंड अधिकारी	सहायक भूमि सरखंड अधिकारी उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	15	श्री वीरेन्द्र सोनी	सहायक अधीक्षक	भू-अभिलेख उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	16	श्री एस एल तिड़गाम	कार्यपालन यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	17	श्री अविनाश श्रीवास्तव	अनुविभागीय अधिकारी	लोक निर्माण विभाग उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
उमरिया	18	श्री के के सोनी	सहायक परियोजना प्रशाशक	सहायक परियोजना प्रशाशक उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	19	श्री आर पी जैन	अनुविभागीय अधिकारी	जल संसाधन उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	20	श्री यु एस साक्य	सहायक संचालक	उद्यानिकी	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	21	श्री अखिल कुमार चौरसिया	महाप्रबंधक	जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	22	श्री टी एस धुर्व	जिला आबकारी अधिकारी	जिला आबकारी अधिकारी उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	23	श्री उमाशंकर गौतम	परियोजना अधिकारी	सहरी विकास अभिकरण उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	24	श्री अविनाश पाण्डेय	बी डी ओ	जनपद पंचायत पाली	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	25	श्री रमेश चन्द्र वर्मा	प्राचार्य	आई टी आई उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	26	श्री लोकेन्द्र बोरकर	सहायक प्राध्यापक	महाविद्यालय उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	27	श्री सी एम पी मिश्रा	सहायक प्राध्यापक	महाविद्यालय उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	28	श्री आर के मंडावी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत मानपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	29	श्री एस के तिवारी	अनुविभागीय अधिकारी	वि/याँ लोक निर्माण विभाग उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	30	श्री एस के तिवारी	परियोजना अधिकारी	जिला पंचायत उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	31	श्री ध्यान सिंह	विकास खंड शिक्षा अधिकारी	विकास खंड शिक्षा अधिकारी उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	32	श्री जे एस परस्ते	सहायक पंजीयक	सहकारी समितिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	33	श्री एस एन वर्मा	सहायक यंत्री	मनरेगा मानपुर जिला उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	34	श्री डी के सिंह	अनुविभागीय अधिकारी	लोक निर्माण विभाग मानपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	35	श्री एच एल एस तिवारी	सहायक संचालक	मत्स्योद्योग उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	36	श्री दिनेश वर्मा	खनिज अधिकारी	खनिज अधिकारी उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	37	श्री राजेश त्रिपाठी	उपसंचालक कृषि	आत्मा परियोजना उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	38	श्री महेंद्र सिंह चौहान	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत करकेली	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	39	श्री एस बी सिंह	सहायक प्रबंधक	प्र गा सडक योजना ईकाई ०१ उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	40	श्री ए के नेमा	सहायक परियोजना संचालक	आत्मा कृषि विभाग उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	41	श्री एम् के रावत	सहायक यंत्री	प्र गा सडक योजना ईकाई ०२ उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	42	श्री महेंद्र यादव	डी पी सी	सर्व शिक्षा अभियान उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
उमरिया	43	श्री प्रकाश धुर्वे	अनुविभागीय अधिकारी	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	44	श्री एस एस कठोरिया	सहायक संचालक	कृषि उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	45	श्री डी सी ठाकुर	एस डी ओ	मनरेगा	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	46	श्री कमलाकर सिंह	अनुविभागीय अधिकारी	जल संसाधन पाली	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	47	श्री दयाराम कुशवाहा	सहायक यंत्री	जल संसाधन उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	48	श्री एम् एल पारश	सहायक प्रबंधक	प्र गा सड़क योजना ईकाई ०2 उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	49	श्री नितिन चौरसिया	परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास परियोजना मानपुर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	50	श्री गंगाधर ढोके	सहायक प्राध्यापक	महाविद्यालय पाली	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	51	श्री सक्ति सिंह खटीक	प्राचार्य	सा. पॉलिटेक्निक उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	52	श्री एम् एस सिदकी	एरिया सयोजक	आदिवासी विकास उमरिया	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	53	श्री के एल चौधरी	सहायक यंत्री	जनपद पंचायत पाली	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	54	श्री प्रकाश धुर्वे	सहायक यंत्री	वि/याँ लोक निर्माण विभाग उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	55	श्री एस पी तिवारी	खेल एवं युवक कल्याण अधिकारी	खेल एवं युवक कल्याण उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	56	श्री सी एस शर्मा	परियोजना अधिकारी	मनरेगा जिला पंचायत उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	57	श्री आर के द्विवेदी	सहायक यंत्री	प्र गा सड़क योजना ईकाई ०2 उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	58	श्री ए के तिवारी	अनुविभागीय अधिकारी	वन पाली	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	59	श्री आर एल विश्वकर्मा	अनुविभागीय अधिकारी	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	60	श्री रितेश दुबे	परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास परियोजना उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	61	श्री आर एस गौतम	सहायक प्रबंधक	प्र गा सड़क योजना ईकाई ०2 उमरिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	62	श्री एच एस अहिरवार	सहायक प्राध्यापक	महाविद्यालय पाली	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	63	श्री सी एल चनगुतिया	सहायक प्राध्यापक	महाविद्यालय पाली	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
उमरिया	64	श्री राणाप्रताप सिंह	विकास खंड शिक्षा अधिकारी	विकास खंड शिक्षा अधिकारी पाली	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	1	श्री पी के जैन	अनुविभागीय अधिकारी	जल संसाधन	जल संसाधन	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	2	श्री नथु लाल बंशकार	प्राचार्य	आई टी आई विजयराघवगढ़	आई टी आई विजयराघवगढ़	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
कटनी	श्री एस के देवडा		जिला पेंशन अधिकारी कटनी	कोष एवं लेखा	कोष एवं लेखा	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	श्री घनश्याम गौतम		उपवन मण्डल अधिकारी पश्चिम कटनी	वन विभाग	वन विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	श्री एस के मिश्रा		उप परियोजना संचालक	आत्मा परियोजना कटनी	आत्मा परियोजना कटनी	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	श्री एस के धाकड़		अनुविभागीय अधिकारी	लघु उद्योग निगम कटनी	लघु उद्योग निगम कटनी	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	श्री एस के दुबे		जनरल मैनेजर	एम पी स्टेट माइनिंग कटनी	एम पी स्टेट माइनिंग कटनी	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	श्री ओ पी कोरी		सहायक यंत्री	नर्मदा घाटी संभाग कटनी	नर्मदा घाटी संभाग कटनी	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	श्री पारस सिंह		अनुविभागीय अधिकारी	लोक निर्माण विभाग क्र 02 कटनी	लोक निर्माण विभाग क्र 02 कटनी	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	श्री जे पी साहू		अनुविभागीय अधिकारी	पी एच ई कटनी	पी एच ई कटनी	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	श्री वीरेंद्र वान्स		कार्यपालन यंत्री	पी एच ई कटनी	पी एच ई कटनी	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	श्री ए पी भारद्वाज		कार्यपालन यंत्री	ग्रामीण यंत्री सेवा	ग्रामीण यंत्री सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	श्री एस के टेकाम		अनुविभागीय अधिकारी	ग्रामीण यंत्री सेवा	ग्रामीण यंत्री सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	श्री बाबा साल्वे		महाप्रबंधक	उद्योग विभाग	उद्योग विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	श्री वाय एन सिंह		उप पंजीयक	पंजीयक स्टांप कटनी	पंजीयक स्टांप कटनी	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	श्री पी आर देव		उप क्षेत्रिय अधिकारी	मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल कटनी	मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल कटनी	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	श्री एस ए मेश्राम		जिला पंजीयक	जिला पंजीयक स्टांप कटनी	जिला पंजीयक स्टांप कटनी	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	श्री ए के अग्निहोत्री		कार्यपालन यंत्री	नर्मदा घाटी संभाग कटनी	नर्मदा घाटी संभाग कटनी	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	श्री के पी राकेश		श्रम अधिकारी	श्रम विभाग कटनी	श्रम विभाग कटनी	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	श्री आर के सिंह		सहायक भू संरक्षण अधिकारी	भू अभिलेख कटनी	भू अभिलेख कटनी	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	श्री हरी सिंह ठाकुर		सहायक यंत्री	लोक निर्माण विभाग कटनी	लोक निर्माण विभाग कटनी	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	श्री अशोक श्रीवास्तव		प्रध्यापक	तिलक कालेज कटनी	तिलक कालेज कटनी	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	श्री ए के चौरसिया		प्रबंधक	जिला व्यापार एवं उद्योग कटनी	जिला व्यापार एवं उद्योग कटनी	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	श्री डी एस कटारे		प्रबंधक	नागरिक आपूर्ति निगम कटनी	नागरिक आपूर्ति निगम कटनी	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	श्री व्ही के दीक्षित		उप संचालक	पशु चिकित्सा विभाग कटनी	पशु चिकित्सा विभाग कटनी	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	श्री आर के सिंह		उप संचालक	पशु चिकित्सा विभाग कटनी	पशु चिकित्सा विभाग कटनी	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
कटनी	27	श्री आर के पेड़ो	उप संचालक	पशु चिकित्सा विभाग कटनी	पशु चिकित्सा विभाग कटनी	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	28	श्री एल एल रिछारिया	सहायक यंत्री	नर्मदा घाटी संभाग कटनी दाई तट 1 कटनी	नर्मदा घाटी संभाग कटनी दाई तट 1 कटनी	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	29	श्री राधेश्याम त्रिपाठी	प्राध्यापक	तिलक कालेज कटनी	तिलक कालेज कटनी	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	30	श्री आर के बेन	कृषि वैज्ञानिक	कृषि विज्ञान केंद्र पिपरोध कटनी	कृषि विज्ञान केंद्र पिपरोध कटनी	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	31	श्री एम पी पाठक	अधिकारी	जिला अंतावयसई निगम कटनी	जिला अंतावयसई निगम कटनी	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	32	श्री भारतेश जैन	जिला आयुवेद अधिकारी	जिला आयुवेद केंद्र कटनी	जिला आयुवेद केंद्र कटनी	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	33	श्री राधेश्याम त्रिपाठी	प्राध्यापक	तिलक कालेज कटनी	उच्च शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	34	डॉ आर के बेनी	कृषि वैज्ञानिक	कृषि विज्ञान केंद्र पिपरोध	कृषि	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	35	श्री पी आर टाडिया	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	36	श्री एस एम पटेल	सहायक संचालक उधनकि	उधनकि विभाग कटनी	उधनकि विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	37	श्री निरीश मेश्राम	सहायक संचालक	मतस्य विभाग कटनी	मतस्य विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	38	श्री आर पी मिश्रा	सहायक पंजीयक	सहकारी संस्था	सहकारी संस्था	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	39	श्री अजीत ऊईके	अधीक्षक	आई टी आई विजयराघवगढ़	आई टी आई	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	40	श्री ए एन खरे	सचिव	कृषि उपज मंडी कटनी	कृषि उपज मंडी	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	41	श्री रन्जीत रोहतास	प्राचार्य	आई टी आई बहोरीबंद	आई टी आई	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	42	श्री विजय भार	जिला खेल अधिकारी	खेल एवं युवा कल्याण विभाग कटनी	खेल एवं युवा कल्याण विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	43	श्री एम टी खान	विकास विस्तार अधिकारी	जनपद पंचायत बडवारा	पंचायत विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	44	श्री एस आर शर्मा	कार्यक्रम समन्वयक	कृषि विज्ञान केंद्र पिपरोध कटनी	कृषि	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	45	श्री जे पी लडिया	सहायक यंत्री	नर्मदा घाटी संभाग कटनी दाई तट 1 कटनी	नर्मदा घाटी प्राधिकरण	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	46	श्री एस के जैन	सहायक यंत्री	नगर निगम कटनी	नगरीय प्रशासन	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	47	श्री अभय कुमार मिश्रा	परियोजना अधिकारी	शहरी विकास अभिकरण	शहरी विकास विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	48	श्री व्ही के शर्मा	कार्यपालन यंत्री	नर्मदा घाटी संभाग क्रमांक 5 कटनी	नर्मदा घाटी प्राधिकरण	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	49	श्री कैलाश चौबे	कार्यपालन यंत्री	नर्मदा घाटी संभाग क्रमांक 3 कटनी	नर्मदा घाटी प्राधिकरण	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	50	डॉ एस के सिंह	कृषि वैज्ञानिक	कृषि विज्ञान केंद्र पिपरोध	कृषि	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
कटनी	51	श्री एस के धगट	सहायक यंत्री	नर्मदा घाटी संभाग कटनी दाई तट 1 कटनी	नर्मदा घाटी प्राधिकरण	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	52	श्री मनोज रेकवार	सहायक संचालक	नगर एवं ग्राम निवेश	नगर एवं ग्राम निवेश	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	53	श्री रकमणि प्रताप सिंह	सहायक प्राध्यापक	शासकीय तिलक महा विद्यालय कटनी	उच्च शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	54	श्री विनय कुमार बाजपेयी	सहायक प्राध्यापक	शासकीय तिलक महा विद्यालय कटनी	उच्च शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	55	श्री सुधीर कुमार खरे	प्रधायक	शासकीय तिलक महा विद्यालय कटनी	उच्च शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	56	श्री एन के नन्दनवार	सहायक यंत्री	नर्मदा घाटी संभाग कटनी	नर्मदा घाटी प्राधिकरण	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	57	श्री एस के सिंगौर	अनुविभागीय अधिकारी	आर ई एस कार्यालय	आर ई एस	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	58	श्री लक्ष्मण सिंह राजपूत	विकास खंड शिक्षा अधिकारी	विकास खंड शिक्षा कार्यालय बहोरीबंद	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	59	श्री ए के सीते	सहायक यंत्री	नर्मदा घाटी संभाग कटनी	नर्मदा घाटी प्राधिकरण	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	60	श्री पी सी सरनकर	कार्यपालन यंत्री	गृह निर्माण विभाग कटनी	गृह निर्माण विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	61	श्री भोला प्रसाद	विकास खंड शिक्षा अधिकारी	विकास खंड शिक्षा कार्यालय	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	62	एस एस कश्यप	महाप्रबंधक	ग्रा0स0वि0प्राधिकरण	ग्रा0स0वि0प्राधिकरण	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	63	श्री पी के जैन	विकास खंड शिक्षा अधिकारी	विकास खंड शिक्षा कार्यालय	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	64	श्री ए आर लिमोन	सहायक यंत्री	नर्मदा घाटी संभाग कटनी	नर्मदा घाटी प्राधिकरण	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	65	श्री जे एस तिवारी	सहायक महा प्रबंधक	ग्रा0स0वि0प्राधिकरण	ग्रा0स0वि0प्राधिकरण	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	66	श्री राजेश कुमार सोनी	सहायक महा प्रबंधक	ग्रा0स0वि0प्राधिकरण	ग्रा0स0वि0प्राधिकरण	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	67	श्री सुनील गोखे	प्रबंधक	सेट्रल वेयर हाउस कटनी	सेट्रल वेयर हाउस	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	68	श्री डी आर आंकरे	कार्यपालन यंत्री	नर्मदा विकास मण्डल कटनी	नर्मदा घाटी प्राधिकरण	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	69	श्री अशोक कुमार अहिरवार	अधीक्षण यंत्री	नर्मदा विकास मण्डल क्रमांक 6 कटनी	नर्मदा घाटी प्राधिकरण	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	70	श्री प्रकाश राव सांकुशले	कार्यपालन यंत्री	नर्मदा विकास मण्डल क्रमांक 6 कटनी	नर्मदा घाटी प्राधिकरण	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	71	श्री जी आर मिश्रा	अनुविभागीय अधिकारी	कृषि	कृषि	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	72	श्री एस एन भेले	सहायक यंत्री	कटनी विकास प्राधिकरण	विकास प्राधिकरण	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	73	श्री अनिल अंबवानी	कार्यपालन यंत्री	कटनी विकास प्राधिकरण	विकास प्राधिकरण	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	74	श्री प्रताप अहिरवार	बी ई ओ	बी ई बड़वारा	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	75	श्री महेंद्र प्रताप सिंह	सहायक प्राध्यापक	शासकीय तिलक महा विद्यालय कटनी	उच्च शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
कटनी	76	श्री राजेश अग्रहरी	अतिरिक्त परियोजना समन्वयक	शिक्षा विभाग जिला कटनी	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	77	श्री ए के दूबे	सहायक यंत्री	नर्मदा विकास मण्डल कटनी	नर्मदा घाटी प्राधिकरण	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	78	श्री आर के जैन	सहायक यंत्री	आर ई एस कार्यालय	आर ई एस	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	79	श्री आर के मालवीय	सहायक परियोजना अधिकारी	जिला पंचायत कटनी	पंचायत ग्रामीण विकास विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	80	श्री जी एस तेकाम	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत डीमारखेड़ा	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	81	श्री अनुराग मोदी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत विजयराघवगढ़	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	82	श्री गौरव पुष्य	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत रीठी	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	83	श्री के के पांडे	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत कटनी	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	84	श्रीमति मीना कश्यप	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत बहोरिबंद	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	85	श्री अजय गुप्ता	मंडी निरीक्षक	कृषि उपज मंडी कटनी	कृषि उपज मंडी	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	86	श्री गीतेश मेहरा	सहकारिता निरीक्षक	सहकारिता विभाग धीमारखेड़ा	सहकारिता विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	87	श्री डी आर मिश्रा	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	नगर पालिका परिषद कैमोर	नगरीय प्रशासन विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	88	श्री एन के मिश्रा	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	नगर पालिका नगर पंचायत बरही	नगरीय प्रशासन विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	89	श्री आर के पटेल	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	नगर पालिका नगर पंचायत वि गढ़	नगरीय प्रशासन विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	90	श्री योगेंद्र सिंह तिवारी	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी	आपूर्ति विभाग कटनी	आपूर्ति विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	91	श्री मायाराम कोल	अधीक्षक	भू-अभिलेख कटनी	भू-अभिलेख विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	92	श्री अमन कुमार मिश्रा	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी	आपूर्ति विभाग कटनी	आपूर्ति विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	93	श्री सुनील वर्मा	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी	आपूर्ति विभाग बहोरिबंद	आपूर्ति विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	94	श्री ए एस तोमर	सहकारिता विस्तार अधिकारी	सहकारिता विभाग रीठी	सहकारिता विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	95	श्री जीतेंद्र सिंह	परियोजना संचालक आत्मा	कृषि विभाग कटनी	कृषि विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	96	श्री ए के तिवारी	उप संचालक सामाजिक न्याय	उप संचालक सामाजिक न्याय कटनी	सामाजिक न्याय	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	97	श्री जे आर हेडाड	उप संचालक कृषि	कृषि विभाग कटनी	कृषि विभाग	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
कटनी	98	श्री इंद्र कुमार	सहायक प्राध्यापक	तिलक महा विद्यालय कटनी	उच्च शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	99	जैनन्द्र सिन्हा	सहायक प्राध्यापक	तिलक महा विद्यालय कटनी	उच्च शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	100	श्री रत्नेश किशोर वर्मा	सहायक प्राध्यापक	शासकीय तिलक महा विद्यालय कटनी	उच्च शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	101	श्री मोहन कुमार	सहायक अभियंता	म प्र पु क्षे वि कंलिमि कटनी	म प्र पु क्षे वि कंलिमि	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	102	श्री प्रभात कुमार	सहायक अभियंता	म प्र पु क्षे वि कंलिमि कटनी	म प्र पु क्षे वि कंलिमि	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	103	श्री लाल सिंह	सहायक यंत्री	लो नि वि वि / या कटनी	लो नि वि वि / या	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	104	श्री एम् के साहू	सहायक यंत्री	नर्मदा घाटी संभाग कटनी दाई तट 1 कटनी	नर्मदा घाटी संभाग कटनी दाई तट 1 कटनी	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	105	श्री शैलेश श्रीवास्तव	सहायक अभियंता	म प्र पु क्षे वि कंलिमि कटनी	म प्र पु क्षे वि कंलिमि	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	106	के पी शुक्ला	प्राचार्य	तिलक महा विद्यालय कटनी	उच्च शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	107	श्री आर के सोनी	सहायक अभियंता	म प्र पु क्षे वि कंलिमि कटनी	म प्र पु क्षे वि कंलिमि	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	108	श्री अनूप कुमार चौधरी	कार्यपालन यंत्री	लोक निर्माण विभाग कटनी	लोक निर्माण विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	109	श्री सौरभ द्वेदी	सहायक यंत्री	जल संसाधन विभाग कटनी	जल संसाधन विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	110	ए के पाठक	कार्यपालन यंत्री	जल संसाधन विभाग कटनी	जल संसाधन विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	111	श्री आर पी पंथी	सहायक यंत्री	जल संसाधन विभाग कटनी	जल संसाधन विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	112	श्री एस पी त्रिपाठी	सहायक यंत्री	जल संसाधन विभाग कटनी	जल संसाधन विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	113	श्री एच एस चौधरी	सहायक यंत्री	नर्मदा घाटी संभाग क्रमांक 3 कटनी	नर्मदा घाटी प्राधिकरण	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	114	आई एस राजपूत	सहायक यंत्री	नर्मदा घाटी संभाग क्रमांक 3 कटनी	नर्मदा घाटी प्राधिकरण	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	115	श्री जी पी साहू	सहायक यंत्री	नर्मदा घाटी संभाग क्रमांक 3 कटनी	नर्मदा घाटी प्राधिकरण	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	116	श्री राजीव दुबे	सहायक यंत्री	नर्मदा घाटी संभाग क्रमांक 3 कटनी	नर्मदा घाटी प्राधिकरण	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	117	श्री मबूब खान	सहायक यंत्री	नर्मदा घाटी संभाग क्रमांक 5 कटनी	नर्मदा घाटी प्राधिकरण	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	118	श्री एन के दिमोले	सहायक यंत्री	नर्मदा घाटी संभाग क्रमांक 5 कटनी	नर्मदा घाटी प्राधिकरण	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	119	श्री सरदार दिवाकर	सहायक प्राध्यापक	तिलक महा विद्यालय कटनी	उच्च शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए



1	2	3	4	5	6	7
कटनी	120	एम् पी पाठक	जिला कार्यक्रम अधिकारी	जिला अन्तव्यवसायी निगम कटनी	अन्तव्यवसायी निगम	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	121	श्री दीपक सिंह	संस्थागत वित्त अधिकारी	संस्थागत वित्त विभाग कटनी	संस्थागत वित्त विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	122	श्री राजेंद्र सिंह	परियोजना अधिकारी जिला पंचायत कटनी	जिला पंचायत कटनी	पंचायत विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	123	श्री मृगेन्द्र सिंह	सहायक परियोजना अधिकारी	जिला पंचायत कटनी	पंचायत विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	124	श्री ज्ञानेन्द्र सिंह बघेल	परियोजना अधिकारी	जिला पंचायत कटनी	पंचायत विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	125	श्री जे के तिवारी	अनुविभागीय अधिकारी	लोक निर्माण विभाग कटनी	लोक निर्माण विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	126	श्री शशिबाला झा	सहायक संचालक	शिक्षा विभाग कटनी	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	127	श्री अशालाल पट्टे	अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	क्षेत्रीय परिवहन विभाग कटनी	परिवहन विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	128	श्री एस के शर्मा	सहायक संचालक	कृषि विभाग कटनी	कृषि विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	129	श्री अरुण सिंह	जिला परियोजना समन्वयक	जिला पंचायत कटनी	पंचायत विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	130	श्रीमति राधा पुरविया	जिला सांख्यिकी अधिकारी	सांख्यिकी विभाग कटनी	सांख्यिकी विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	131	श्री आर के राजपूत	सहायक भू-संरक्षण अधिकारी	भू-संरक्षण कटनी	भू-संरक्षण	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	132	चित्रा प्रभात	प्राध्यापक	शासकीय तिलक महा विद्यालय कटनी	उच्च शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	133	श्री कुमुद श्रीवास्तव	प्राध्यापक	शासकीय तिलक महा विद्यालय कटनी	उच्च शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	134	श्रीमती पद्मा त्रिपाठी	प्राध्यापक	शासकीय तिलक महा विद्यालय कटनी	उच्च शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	135	श्रीमती प्रतिमा त्रिपाठी	प्राध्यापक	शासकीय तिलक महा विद्यालय कटनी	उच्च शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	136	श्रीमती उषा नायडू	ग्रन्थ पाल	शासकीय तिलक महा विद्यालय कटनी	उच्च शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	137	श्रीमती उर्मिला दुबे	सहायक प्राध्यापक	शासकीय तिलक महा विद्यालय कटनी	उच्च शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	138	लक्ष्मी नायक	सहायक प्राध्यापक	शासकीय तिलक महा विद्यालय कटनी	उच्च शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	139	श्रीमती माधुरी गर्ग	सहायक प्राध्यापक	शासकीय तिलक महा विद्यालय कटनी	उच्च शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
कटनी	140	श्रीमती पदमजा शुक्ला	सहायक प्राध्यापक	शासकीय तिलक महा विद्यालय कटनी	उच्च शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	141	श्रीमती ज्योतसन अठ्या	सहायक प्राध्यापक	शासकीय तिलक महा विद्यालय कटनी	उच्च शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	142	श्री नाहिद सिद्धकी	सहायक प्राध्यापक	शासकीय तिलक महा विद्यालय कटनी	उच्च शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	143	श्री अनिल तोहेल	सहायक प्राध्यापक	शासकीय तिलक महा विद्यालय कटनी	उच्च शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	144	श्री जुगराज सिंह ठाकुर	सहायक प्राध्यापक	शासकीय तिलक महा विद्यालय कटनी	उच्च शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	145	श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव	सहायक प्राध्यापक	शासकीय तिलक महा विद्यालय कटनी	उच्च शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	146	श्री इंद्रा कुमार	सहायक प्राध्यापक	शासकीय तिलक महा विद्यालय कटनी	उच्च शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	147	महेन्द्र प्रताप सिंह	सहायक प्राध्यापक	शासकीय तिलक महा विद्यालय कटनी	उच्च शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	148	श्री वीरेंद्र कुमार देवी	सहायक प्राध्यापक	शासकीय तिलक महा विद्यालय कटनी	उच्च शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	149	श्री अरुण कुमार	प्राध्यापक	शासकीय तिलक महा विद्यालय कटनी	उच्च शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	150	कुमार जैनेन्द्र सिन्हा	सहायक प्राध्यापक	शासकीय तिलक महा विद्यालय कटनी	उच्च शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	151	श्याम बिहारी भारतदाज	सहायक प्राध्यापक	शासकीय तिलक महा विद्यालय कटनी	उच्च शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	152	श्री सुनील बाजपेयी	प्राध्यापक	शासकीय तिलक महा विद्यालय कटनी	उच्च शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	153	सुधीर कुमार खरे	प्राध्यापक	शासकीय तिलक महा विद्यालय कटनी	उच्च शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	154	श्री करुणेश प्रताप मिश्रा	प्राध्यापक	शासकीय तिलक महा विद्यालय कटनी	उच्च शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	155	श्री सुनील कुमार	सहायक प्राध्यापक	शासकीय तिलक महा विद्यालय कटनी	उच्च शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	156	श्री गुलाम मोहम्मद मुस्तफा	सहायक प्राध्यापक	शासकीय तिलक महा विद्यालय कटनी	उच्च शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
कटनी	157	श्री सरदार दिवाकर	सहायक प्राध्यापक	शासकीय तिलक महा विद्यालय कटनी	उच्च शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	158	श्रीमती स्वमणि प्रताप सिंह	सहायक प्राध्यापक	शासकीय तिलक महा विद्यालय कटनी	उच्च शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	159	श्री राधे श्याम त्रिपाठी	प्राध्यापक	शासकीय तिलक महा विद्यालय कटनी	उच्च शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
कटनी	160	श्री रमेश किशोर	सहायक प्राध्यापक	शासकीय तिलक महा विद्यालय कटनी	उच्च शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	1	अशोक कुमार जैन	ग्रंथपाल	प्राचार्य शास.कलानिकेतन पालीटेक.जबलपुर	स्टेटिक सर्विलेंस टीम	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	2	रीतेश कुमार कहार	सहायक यंत्री	मुख्य अभियंता मध्य क्षेत्र	स्टेटिक सर्विलेंस टीम	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	3	एस.के.दिवेदी	सहायक संचालक	सहायक संचालक कृषि प्रक्षेत्र मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम जबलपुर	स्टेटिक सर्विलेंस टीम	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	4	रमेश कुमार बाजपेयी	ग्रंथपाल	शास.इंजीनियरिंग कालेज जबलपुर	स्टेटिक सर्विलेंस टीम	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	5	प्रकाश ठाकुर	वाणिज्यिक कर अधिकारी	संभागीय उपायुक्त	स्टेटिक सर्विलेंस टीम	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	6	हेमंत कुमार श्रीवास्तव	कार्यपालन अभियंता	मुख्य अभियंता (सि)	स्टेटिक सर्विलेंस टीम	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	7	बी.एम.श्रीवास्तव	प्रबंधक	प्रबंधक महाप्रबंधक औद्योगिक विकास निगम लि.जबलपुर	स्टेटिक सर्विलेंस टीम	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	8	सी पी सिंह	कार्यपालन अभियन्ता	अतिरिक्त सचिव (पू.क्षे) म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि वि कं लिमि जबलपुर	स्टेटिक सर्विलेंस टीम	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	9	एस.एस.दातार	कार्यपालन यंत्री	कार्यपालक निर्देशक अभियंता मध्य प्रदेश पा.ट्रां.कं.लि जबलपुर	स्टेटिक सर्विलेंस टीम	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	10	ललित कुमार गालब	सहायक संचालक कृषि	प्राचार्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र आधारताल	स्टेटिक सर्विलेंस टीम	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	11	शैलेन्द्र कुमार कुशवाहा	उपनिदेशक	अतिरिक्त सचिव (पू.क्षे) म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि वि कं लिमि जबलपुर	स्टेटिक सर्विलेंस टीम	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	12	बी एस ठाकुर	सहायक अभियंता	अधीक्षण अभियंता (आ.उ.दा)	स्टेटिक सर्विलेंस टीम	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
जबलपुर	13	टी.ए.हन्की	सहायक संचालक कृषि	प्राचार्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र आधारताल	स्टेटिक सर्विलेस टीम	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	14	मनोज प्रियदर्शन	सहायक प्राध्यापक	प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय राझी जबलपुर	स्टेटिक सर्विलेस टीम	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	15	एम आर शर्मा	महाप्रबंधक	प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय राझी जबलपुर	स्टेटिक सर्विलेस टीम	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	16	परवेज जलील	वैज्ञानिक	म.प्र.औद्योगिक विकास निगम जबलपुर लि जबलपुर	स्टेटिक सर्विलेस टीम	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	17	विक्रम सिंह राठौर	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उपसंचालक राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर	स्टेटिक सर्विलेस टीम	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	18	दिनेश कुमार चौरसिया	कार्यपालन यंत्री	संभागीय उपायुक्त वाणिज्य कर जबलपुर	स्टेटिक सर्विलेस टीम	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	19	ए बलुआपुरी	महाप्रबंधक	अधीक्षण अभियंता मध्यप्रदेश पा.टं.	स्टेटिक सर्विलेस टीम	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	20	अजय सांचा	कार्यपालक अभियंता	कार्यालय महाप्रबंधक म.प्र.औद्योगिक विकास निगम जबलपुर लि जबलपुर	स्टेटिक सर्विलेस टीम	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	21	विजेन्द्र कोरी	सहायक आयुक्त उप यंत्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग जबलपुर	स्टेटिक सर्विलेस टीम	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	22	राजेश सिंह	सहायक अभियंता	उपायुक्त (ऑडिट विंग) वाणिज्यिक कर जबलपुर महाप्रबंधक म.प्र.ग्रामीण सडक विकास प्राधिकार जबलपुर	स्टेटिक सर्विलेस टीम	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	23	दिनेश कुमार कौरव	सहायक यंत्री सिविल	केन्द्रिय लोक निर्माण विभाग जबलपुर	स्टेटिक सर्विलेस टीम	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	24	पी.के.दुबे	अधीक्षण अभियंता	संभागीय परियोजना यंत्री विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (परि/उत्पा)म.प्र.पा.ज.क.लि.जबलपुर	स्टेटिक सर्विलेस टीम	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	25	बी.एस.कौरव	अधीक्षण अभियंता	अधीक्षण अभियंता (म.उ.दा.सन्धा.निरी.)म.प्र.पा.दा.क.लि.जबलपुर	स्टेटिक सर्विलेस टीम	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	26	ए.के.तिवारी	अधीक्षण अभियंता	कार्यपालक निर्देशक (नवी.अधी) म.प्र.पा.ज.क.लि.जबलपुर	स्टेटिक सर्विलेस टीम	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
जबलपुर	27	सुनील कुमार चौधरी	अनुविभागीय अधिकारी	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्रमांक 02 जबलपुर	फलाइंग स्क्वॉड	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	28	उमेश कुमार कटहर	अनुविभागीय कृषि अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी किसान कल्याण	फलाइंग स्क्वॉड	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	29	मनोज कुमार द्विवेदी	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि.(भ/स) संभाग क्रमांक 01 जबलपुर	फलाइंग स्क्वॉड	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	30	रामचन्द्र पाण्डे	उप संचालक	प्राचार्य शासकीय क.नि पौल्टीक.महावि	फलाइंग स्क्वॉड	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	31	पवन कुमार भिमते	उप संचालक	जिला रोजगार अधिकारी जबलपुर	फलाइंग स्क्वॉड	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	32	मिथिलेश वामनकर	सहायक आयुक्त	संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर जबलपुर वृत्त 2	फलाइंग स्क्वॉड	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	33	एस के तिवारी	वैज्ञानिक	उप संचालक राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर	फलाइंग स्क्वॉड	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	34	डॉ. विजेन्द्र वर्मा	उप संचालक	उप संचालक पशु	फलाइंग स्क्वॉड	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	35	रामस्वरूप सिंह ठाकुर	सहायक यंत्री	अधीक्षण यंत्री, सर्वे एवं अनुसंधान मंडल जबलपुर	फलाइंग स्क्वॉड	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	36	एन एस चौहान	सहायक आयुक्त	संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर जबलपुर	फलाइंग स्क्वॉड	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	37	दही के बघेल	वैज्ञानिक	क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जबलपुर	फलाइंग स्क्वॉड	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	38	श्याम बहादुर सिंह	सहायक केमिकल्स विशेषज्ञ	सहायक संचालक (रसा.)क्रीटनाशक गुण	फलाइंग स्क्वॉड	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	39	कमलसिंह किराड़	सहा.भूमि संरक्षण अधिकारी	सहायक भूमि संरक्षण	फलाइंग स्क्वॉड	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	40	मुकेश वर्मा	सहा.मृदा सर्वे.अधि.	सहा.मृदा सर्वे.अधि.	फलाइंग स्क्वॉड	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	41	सत्येन्द्र कुमार यादव	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि सेतु निर्माण संभाग जबलपुर	फलाइंग स्क्वॉड	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	42	विनोद जैन	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री लो.नि.विसेतु	फलाइंग स्क्वॉड	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	43	सहदेव सिंह मरावी	सयुक्त संचालक	लोग सेल स्कूल शिक्षा जबलपुर	फलाइंग स्क्वॉड	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
जबलपुर	44	पी एन सौधिया	वाणिज्य कर अधिकारी	संभागीय उपायुक्त वाणिज्यकर जबलपुर	फलाइंग स्क्वॉड	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	45	अशोक कुमार विश्वकर्मा	सहायक यंत्री	मुख्य अभियंता मध्य क्षेत्र लो.नि.वि.जबलपुर	फलाइंग स्क्वॉड	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	46	एस.एन.पाल	सहायक यंत्री	संभागीय परियोजना यंत्री	फलाइंग स्क्वॉड	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	47	रमनुज विश्वकर्मा	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (अ/स) संभाग क्रमांक 02 जबलपुर	फलाइंग स्क्वॉड	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	48	यशवंत कुलकर्णी	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि (अ/स) संभाग क्रमांक 01 जबलपुर	फलाइंग स्क्वॉड	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	49	सुरेश चंद चौबे	सयुक्त संचालक	एकीकृत बाल विकास सेवा संभाग जबलपुर	फलाइंग स्क्वॉड	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	50	अभिषेक ठाकुर	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि (अ/स) संभाग क्रमांक 01 जबलपुर	फलाइंग स्क्वॉड	संपूर्ण जिले के लिए
जबलपुर	51	रामजी अग्रवाल	कार्यपालन यंत्री	कार्य. निदेशक (सिविल / अभि.) म.प्र.पा.द्रा.क.लिमिजबलपुर	फलाइंग स्क्वॉड	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	1	निधि मार्को	ASLR	भू अभिलेख डिण्डोरी	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	2	श्री अजय सिंह	GM PMGSY	PMGSY	1st	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	3	आर के श्रुती	सहायक आयुक्त	आदि वासी विकास	वर्ग 1	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	4	एस के गुप्ता	कार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत डिण्डोरी	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	5	आलोक शर्मा	अनुविभागीय अधिकारी वन	वन विभाग	व	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	6	शिवकुमार कोष्ठी	डीपीसी	जिला शिक्षा केन्द्र	व	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	7	श्रीमति कल्पना तिवारी	जिला कार्यक्रम अधिकारी	महिला एवं बाल विकास	वर्ग 1	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	8	श्री ए सी सिन्धे	खनिज अधिकारी	खनिज विभाग	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	9	श्री विनीत राजक	प्रबंधक	जिला उद्योग केन्द्र	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	10	श्री बी पी पाठक	एसडीओ	जल संसाधन विभाग	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	11	श्री सी एस सिंह	परियोजना अधिकारी	जिला पंचायत	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	12	श्री एम एल पनरिया	परियोजना प्रशासक	बैगा विकास अभिकरण	वर्ग 1	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	13	श्री एस के तन्नुवाय	एसडीओ	आरईएस	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	14	श्री ए के जैन	सहायक प्रबंधक	पीएमजीएसवाय	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	15	श्री जी के जैन	सीईओ	जनपद पंचायत समनापुर	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
डिण्डोरी	16	श्री गणेश कुमार हरणे	प्रबंधक	जिला उद्योग केन्द्र	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	17	श्री राकेश कुमरे	परियोजना अधिकारी	जिला पंचायत	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	18	श्री डी एस ठाकुर	कार्यपालन यंत्री	एनव्हीडीए	वर्ग 1	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	19	श्री डी एस ठाकुर	सहायक प्रबंधक	पीएमजीएसवाय	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	20	श्री विजय ठाकुर	एसडीओ	लोक निर्माण विभाग	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	21	श्री ए एफ खान	एस डी ओ	नरेगा करजिया	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	22	श्री अनिल कुमार शुक्ला	एसडीओ	वन विभाग	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	23	श्री वी पी शुक्ला	सीईओ	जनपद पंचायत बजाग	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	24	श्री टेकन सिंह उइके	उप वनमण्डलाधिकारी	वन विभाग	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	25	श्री बी के अतुलकर	उप वनमण्डलाधिकारी	सामान्य वनमण्डल	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	26	श्री मनमोहन सिंह	परियोजना अधिकारी	महिला बाल विकास बजाग	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	27	श्री नीलाभ श्रीवास्तव	ई ई	एमपीएसईवी	वर्ग 1	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	28	श्री ए एस कुशराम	सीईओ	जनपद पंचायत करजिया	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	29	श्री खिलावन डहरिया	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी	कृषि विभाग	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	30	श्री रघुदास	सहायक प्रबंधक	पीएमजीएसवाय 1 डिण्डोरी	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	31	श्री बी एल श्रीवास्तव	सहायक यंत्री	जनपद पंचायत करजिया	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	32	श्री एस पी सिंह	परियोजना अधिकारी	जिला पंचायत डिण्डोरी	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	33	श्री एन एस ठाकुर	उप संचालक	पशु चिकित्सा सेवा	वर्ग 1	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	34	श्रीमति सुषमा विश्वकर्मा	जिला रोजगार अधिकारी	जिला रोजगार कार्यालय	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	35	श्री जे एस वर्मा	कार्यपालन यंत्री	जल संसाधन विभाग	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	36	श्री ओ पी दुबे	प्रमुख वैज्ञानिक	कृषि अनुसंधान केन्द्र	वर्ग 1	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	37	श्रीमति लीला भलावी	प्राचार्य	शासकीय महाविद्यालय	वर्ग 1	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	38	श्री संजीव कुमार नागू	अधीक्षक भू अभिलेख	भू अभिलेख डिण्डोरी	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	39	श्री सी आर अहिरवार	एसडीओ	कृषि विभाग	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	40	श्री पी एन मिश्रा	जिला श्रम अधिकारी	कार्यालय जिला श्रम अधिकारी	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	41	श्री पी के राव	सहायक संचालक	कृषि विभाग	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	42	श्रीमति उदयवती तेकाम	परियोजना अधिकारी	महिला एवं बाल विकास शहपुरा	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	43	श्री एस के साहू	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत शहपुरा	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	44	श्री आर बी साहू	उप संचालक	ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा डिण्डोरी	वर्ग 1	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	45	श्री एम एस मर्सकोले	कार्यपालन यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा डिण्डोरी	वर्ग 1	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
डिण्डोरी	46	श्री विजय देशमुख	सहायक संचालक	आत्मा परियोजना डिण्डोरी	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	47	श्री यू एस चौधरी	एसडीओ	जल संसाधन विभाग शहपुरा	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	48	श्री अजीत नागदेवे	एसडीओ	लोक निर्माण विभाग	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	49	श्री के पी भगत	परि संचालक	आत्मा परियोजना डिण्डोरी	वर्ग 1	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	50	श्री एस के रामजे	एसडीओ	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय शहपुरा	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	51	श्री सतीश खरे	एसडीओ	वन विभाग	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	52	श्री पी के शुक्ला	एसडीओ	जल संसाधन विभाग	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	53	श्री देवी के मरावी	कार्यपालन यंत्री	ग्रामीण स्वा यांत्रिकीय सेवा	वर्ग 1	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	54	श्री प्रभात द्विवेदी	सीईओ	जनपद पंचायत डिण्डोरी	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	55	श्री एस के शर्मा	सहायक महाप्रबंधक	पीएमजीएसवाय	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	56	श्री अनिल डडके	महाप्रबंधक	जिला उद्योग केन्द्र	वर्ग 1	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	57	श्री उमेश गौठिया	सहायक महाप्रबंधक	पीएमजीएसवाय 1 डिण्डोरी	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	58	श्री सुरेश कुमार	सहायक संचालक	कृषि विभाग	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	59	श्री तिकाडे	सहायक संचालक	उद्यान डिण्डोरी	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	60	श्री आर सी गुप्ता	जिला प्रबंधक	जिला वन यूनियन	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	61	श्री डी के अग्रवाल	प्राचार्य	कृषि प्रशिक्षण केन्द्र	वर्ग 1	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	62	श्री सौरभ दत्ता	पीएमआरडीएम	जिला योजना एवं सांख्यिकीय	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	63	श्री सी एस सिंह	परियोजना अधिकारी	जिला पंचायत	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	64	श्री अशोक कुमार सोलंकी	एस डी ओ	वन विभाग	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	65	श्री जवाहर	एस डी ओ	पीएचई	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	66	श्री टी एस भवेदी	परियोजना अधिकारी	जिला पंचायत	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	67	श्री ए के श्रीवास्तव	सहायक प्रबंधक	पीएमजीएसवाय 2	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	68	श्री निशांत चतुर्वेदी	परियोजना अधिकारी	जिला पंचायत	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	69	श्री ओ पी सिरसे	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना एवं सांख्यिकीय	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	70	सुश्री खिल्ली नेदी	पीओ	आईसीडीएस समानापुर	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	71	श्री बी एस नर्दती	सीईओ	जनपद पंचायत अमरपुर	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	72	श्री जे आर रजक	प्राचार्य	पोलीटेक्निक कालेज	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	73	श्री देवी सिंह भदौरिया	सहायक श्रम पदाधिकारी	श्रम विभाग	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	74	श्री रंजीत सिंह ठाकुर	जिला प्रबंधक	लोक सेवा गारटो	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	75	श्री हरीश दीक्षित	कृषि वैज्ञानिक	कृषि विज्ञान केन्द्र	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	76	श्री दिनेश्वर सिंह सिंसादिया	जिला मलेरिया अधिकारी	मलेरिया विभाग	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	77	श्री आर एस टकाडे	सहायक संचालक	उद्यान डिण्डोरी	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए



1	2	3	4	5	6	7
डिण्डोरी	78	श्री बी एस नर्वेती	सहायक परियोजना प्रशासक	आदिवासी विकास परियोजना	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	79	श्री श्रीकांत तिवारी	सहायक यंत्री	जनपद पंचायत शहपुरा	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	80	श्री आर के गर्ग	सहायक यंत्री	एनट्वीडीए	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	81	श्री के एस मरकाम	सहायक यंत्री	डब्ल्यू आर डी	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	82	श्री सेजमल कछवाह	सहायक संचालक	हथकरघा	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	83	श्री आर जी श्रीवास्तव	सहायक यंत्री	जनपद पंचायत डिण्डोरी	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	84	श्री वंश गोपाल सांड्या	एसडीओ	डब्ल्यू आर डी अमरपुर	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	85	सुश्री गीता आर्मा	एसडीओ	आरईएस	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	86	श्री प्रकाश चंद चौरसिया	सहायक यंत्री	जनपद पंचायत समनापुर	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	87	श्री कामता प्रसाद दुबे	सहायक परियोजना अधिकारी	मुख्य मंत्री सडक परियोजना	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	88	श्री अनिल साहू	सहायक यंत्री	डब्ल्यू आर डी	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	89	श्री सुरेश उईके	सहायक यंत्री	डब्ल्यू आर डी	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	90	श्री गोपाल सिंह चंदेल	प्राचार्य	डाइट	वर्ग 1	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	91	श्री सी एस परस्ते	प्राचार्य	शासकीय महाविद्यालय शहपुरा	वर्ग 1	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	92	श्री भारत भूषण चौबे	सहायक यंत्री	जनपद पंचायत मेहदवानी	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	93	श्री के पी दुबे	सहायक यंत्री	एनट्वीडीए	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	94	श्री एस के मिश्रा	सहायक यंत्री	जनपद पंचायत अमरपुर	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	95	श्री ए के चौबे	कृषि वैज्ञानिक	कृषि अनुसंधान केन्द्र	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	96	श्री डी के शर्मा	सहायक यंत्री	एनट्वीडीए	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	97	श्री एस के जैन	सहायक यंत्री	एनट्वीडीए	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
डिण्डोरी	98	डॉ डी एन श्रीवास	कृषि वैज्ञानिक	संभा. परि. यंत्री मण्डला	वर्ग 2	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	1	श्री अद्वनसिंह कारेकान	संभा. परि. यंत्री	कार्यो. कार्यपालन यंत्री जल	संभा. परि. यंत्री	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	2	श्री पी. एस. राजपूत	कार्यपालन यंत्री	संसाधन विभाग मण्डला-2	पदोन्नति	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	3	श्री टी. एल. डेहरिया	सहा. यंत्री	कार्यो. कार्यपालन यंत्री जल	पदोन्नति	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	4	श्री रामप्रकाश पाण्डे	सहा. यंत्री	संसाधन विभाग मण्डला-3	पदोन्नति	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	5	श्री एच. के. जैन	सहा. यंत्री	कार्यो. कार्यपालन यंत्री जल	पदोन्नति	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	6	श्री आधारसिंह राजपूत	सहा. यंत्री	संसाधन विभाग मण्डला-5	पदोन्नति	संपूर्ण जिले के लिए
				कार्यो. कार्यपालन यंत्री जल	पदोन्नति	संपूर्ण जिले के लिए
				संसाधन विभाग मण्डला-6		संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
मण्डला	7	श्री श्यामसिंह तेकाम	सहा. यंत्री	कार्या. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग मण्डला-7	पदोन्नति	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	8	श्री बी.डी. पाटकर	सहा. यंत्री	कार्या. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग मण्डला-8	पदोन्नति	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	9	श्री दिगम्बर सिंह मरावी	सहा. यंत्री	कार्या. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग मण्डला-9	पदोन्नति	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	10	श्री महेश प्रसाद श्रीवास्तव	सहा. यंत्री	कार्या. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग मण्डला-10	पदोन्नति	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	11	श्री रमाकांत दुबे	सहा. यंत्री	कार्या. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग मण्डला-110	पदोन्नति	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	12	श्री के.एस. बरकडे	प्राचार्य	डाइट मण्डला	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	13	श्री विजय कुमार पाण्डे	सहा. यंत्री	कार्या. कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास सं.-2 मण्डला	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	14	श्री गोविंद प्रसाद श्रीवास्तव	सहा. यंत्री	कार्या. कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास सं.-2 मण्डला	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	15	श्री मूलचंद मरावी	सहा. यंत्री	कार्या. कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास सं.-2 मण्डला	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	16	श्री सनद कुमार यादव	सहा. यंत्री	कार्या. कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास सं.-2 मण्डला	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	17	श्री ए के राठौर	सहा भूमि संरक्षण अधिकारी मण्डला	सहा भूमि संरक्षण अधिकारी मण्डला	अलिपिकीय	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	18	श्री सतीष भार्गव	परि अधि	एकीकृत बाल विकास परियोजना मण्डला	अलिपिकीय	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	19	श्री व्ही के श्रीवास्तव	सहा परि प्रशा	परि प्रशासक एकी आदि विकास परि निवास	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	20	श्री बी पी भिलवार	उप सभा अधि	मोहगाव परियोजना मण्डल मण्डला	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	21	श्री देवेन्द्र बरकडे	सहा. यंत्री	म प्र गृह निर्माण विभा अधो बी मण्डल मण्डला	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	22	श्री सुशील कैथवास	सहा प्रब	महा हस्त शिल्प एवं हाथ कर्मा मण्डला	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	23	श्री के एस नेताम	उप संचा कृषि	उप संचा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मण्डला	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	24	श्रीमती मधु अली	सहा संचा कृषि	उप संचा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मण्डला	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
मण्डला	25	श्री जगदीश नरवरिया	सहा संचा कृषि	उप संचा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मण्डला	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	26	श्री आर के तिवारी	कार्यपालन यंत्री	जिला अन्त्यव्यसायी	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	27	श्री दीपक मालवीय	सहा. यंत्री	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण जल मौसम विज्ञान उपसंभाग मण्डला	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	28	श्री बी. एम. वरुण	डी. एम. ओ.	जिला मलेरिया अधिकारी	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	29	श्री डी. संतोष शुक्ला	सहा. आयु.	सहा. आयु. आदि. विकास मण्डल	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	30	श्री प्रशांत कुमार श्रीवास्तव	सहा. यंत्री	सहा. आयु. आदि. विकास मण्डल	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	31	श्री डी. एस. उददे	सहा. संचालक शिक्षा	सहा. आयु. आदि. विकास मण्डल	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	32	श्री अश्विनी कुमार सिंह	मुख्य कार्य. यंत्री	जनपद पंचायत मण्डला	राजपत्रित-3	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	33	श्री अजीत मिश्रा	मुख्य कार्य. यंत्री	जनपद पंचायत नैनपुर	राजपत्रित-3	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	34	श्री एस. एस. मरावी	मुख्य कार्य. यंत्री	जनपद पंचायत मोहगांव	राजपत्रित-3	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	35	श्री आतमजीत सिंह	मुख्य कार्य. यंत्री	जनपद पंचायत चिछिया	राजपत्रित-3	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	36	श्री राजकुमार पाण्डे	मुख्य कार्य. यंत्री	जनपद पंचायत मवाई	राजपत्रित-3	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	37	श्री मल्खान सिंह कुशवाहा	मुख्य कार्य. यंत्री	जनपद पंचायत घुघरी	राजपत्रित-3	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	38	श्री भागवेंद्र सिंह	मुख्य कार्य. यंत्री	जनपद पंचायत निवास	राजपत्रित-3	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	39	श्री मती बत्सला शिवहरे	मुख्य कार्य. यंत्री	जनपद पंचायत नारायणगंज	राजपत्रित-3	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	40	श्री नारजी परते	विकासखण्ड अधि.	जनपद पंचायत मोहगांव	राजपत्रित-3	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	41	श्री के. एस. परमार	विकासखण्ड अधि.	जनपद पंचायत घुघरी	राजपत्रित-3	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	42	श्री हरिराम कुशराम	विकासखण्ड अधि.	जनपद पंचायत नैनपुर	राजपत्रित-3	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	43	श्री एस. एस. सिंह	विकासखण्ड अधि.	जनपद पंचायत नारायणगंज	राजपत्रित-3	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	44	श्री ज्ञानेन्द्र सिंह	सहा संचा उधान	उधान विभाग मण्डला	उधानिकी वि.	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	45	श्री आर. एस. निम	जिला शिक्षा अधि. मण्डला	जिला शिक्षा	राजपत्रित-3	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	46	श्री एस. के. अग्रवाल	सहा संचालक	जिला शिक्षा अधि. मण्डला	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	47	श्री मती नीलम मोदी	परि. अधि.	बाल विकास मण्डला	राजपत्रित	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	48	श्री जे. एस. कुशवाहा	सहा. प्रबंधक	म.प्र. ग्रामीण सडक ए.पी.आई. यू. 02	अस्थायी	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	49	श्री एस. के. जायसवाल	सहा प्रबंधक	म.प्र. ग्रामीण सडक ए.पी.आई. यू. 03	अस्थायी	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	50	श्री एस. के. सोनी	सहा प्रबंधक	म.प्र. ग्रामीण सडक ए.पी.आई. यू. 04	अस्थायी	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
मण्डला	51	श्री रामदीन कुशवाहा	अनु. अधि. कृषि	अनु. अधि. कृषि विभाग	तकनीकी सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	52	श्री एल. एस. सेयाम	जिला रोजगार अधि. परि. अधि.	जिला रोजगार कार्या. मण्डला	तकनीकी सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	53	श्रीमती सुमन पाण्डे	परि. अधि.	एकीकृत बाल विकास परियोजना मोहगांव	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	54	श्री ए. के. सिंह	मुख्य कार्या. अधि.	विकासखण्ड शिक्षा अधि. मण्डला	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	55	श्री राजकुमार अहुलवालिया	विकासखण्ड शिक्षा अधि.	विकासखण्ड शिक्षा अधि. मोहगांव	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	56	श्री सुनील कुमार जैन	अधी. यंत्री	कार्या. अधी. यंत्री नर्मदा विकास मण्डल	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	57	श्री रविसिंह ठाकुर	कार्यपालन यंत्री	कार्या. अधी. यंत्री नर्मदा विकास मण्डल	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	58	श्री व्ही. एस. तेकाम	परि. प्रशासक	एकीकृत आदि. विकास परियोजना निवास	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	59	श्रीमती साधना खरे	सहा परि अधिकारी	एकीकृत आदि. विकास परियोजना विछिया	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	60	श्री के. पी. लखरा	कार्यपालन यंत्री	कार्या. लोक निर्माण विभाग मण्डला	नियमित	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	61	श्री शिवनाथ डोंगरे	सहा. यंत्री	लोक निर्माण विभाग नैनपुर	नियमित	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	62	श्री मोहपत धूर्त	सहा. यंत्री	लोक निर्माण विभाग विछिया	नियमित	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	63	श्री शंकरलाल	सहा. यंत्री	लोक निर्माण विभाग संभाग मण्डला	नियमित	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	64	श्री अनूप उइके	सहा. यंत्री	लोक निर्माण विभाग संभाग मण्डला	नियमित	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	65	श्री रोहित कुमार मरावी	सहा. यंत्री	लोक निर्माण विभाग संभाग मण्डला	नियमित	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	66	डा एस. के. बाजपेयी	उप संचालक पशु चिकित्सा	कार्या. उप संचालक पशु चिकित्सा मण्डला	अस्थायी	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	67	डा एस. पी. त्रिपाठी	पशु प्रजनन अधि.	कार्या. उप संचालक पशु चिकित्सा मण्डला	अस्थायी	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	68	श्री आर. पी. झारिया	ए.एस.सी.ओ.	कार्या. भूमि संरक्षण अधि. निवास	तकनीकी सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	69	श्री एम.एल. अलावा	अनु. अधि.	कार्या. नर्मदा विकास हालोन संभाग मण्डला	तकनीकी सेवा	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
मण्डला	70	श्री बी. एल. मुनिया	सहा. यंत्री	कार्या. नर्मदा विकास हालोन संभाग बिछिया	तकनीकी सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	71	श्री पुखराज सिंह	सहा. यंत्री	कार्या. सह. यंत्री नर्मदा वि. हालोन संभाग बिछिया	तकनीकी सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	72	श्री एम. के. शर्मा	महाप्रबंधक	म.प्र. ग्रामीण सडक प्राधि.मण्डला 02	तकनीकी सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	73	श्री एन. धापोडकर	महाप्रबंधक	म.प्र. ग्रामीण सडक प्राधि.मण्डला 01	तकनीकी सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	74	श्री ए.पी. दुबे	बी. ई. ओ.	विकासखण्ड शिक्षा अधि. मण्डला	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	75	श्री के. के. गढेवाल	अनु. अधि.	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग मण्डला	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
मण्डला	76	श्री एम. एस. ठाकुर	मुख्य कार्य. अधि.	कार्या. जनपद पंचायत मोहगांव	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	1	श्री हेमसिंह सरयाम	कार्यपालनयंत्री	बंजर नदी परियोजना संभाग बैहर	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	2	श्री प्रेमसिंह दागी	सहायकयंत्री	बंजर नदी परियोजना बैहर	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	3	श्री आर०के० ठाकुर	सहायक मैनेजर	कार्यालय महा०म०प्र०ग्र०आ०स०वि०प्रा०परि०क्रि० ईकाई २ बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	4	श्री आर०सी० शर्मा	सहायक प्रबंधक	कार्यालय महा०म०प्र०ग्र०आ०स०वि०प्रा०परि०क्रि० ईकाई ३ बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	5	श्री अनिल कुमार खरे	पशु प्रबंधक कार्यक्रम अधिकारी	उप संचालक पशु चिकित्सा बालाघाट	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	6	श्री अमित पाण्डे	सहायक यंत्री	किसान कल्याण कृषि विकास बैहर	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	7	श्री उदयसिंह परते	कार्यालय यंत्री	बंजर नदी परियोजना बैहर	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	8	श्री चन्द्रशेखर धुर्वे	सहायकयंत्री	बंजर नदी परियोजना बैहर	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	9	श्री राजेश परशुराम धामगे	सहायक यंत्री	जल संसाधन बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	10	श्री जी०एस० ईहरिया	उप पंजीयक	उप आयुक्त सहकारिता बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	11	श्री आर०सी० अमूले	मैनेजर कार्या	महा० प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
बालाघाट	श्री शिवराज सिंह वास्केल	सह० यंत्री	कार्यपालन यंत्री वैनगंगा संभाग बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	
बालाघाट	श्री नवीन कुमार गौर	सह० यंत्री	कार्यपालन यंत्री वैनगंगा संभाग बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	
बालाघाट	श्री अरुण कुमार नेमा	पशु चिकित्सा शल्यज	कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	
बालाघाट	श्री के०एस० उइके	सह० यंत्री	कार्यालय संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग पी०आई०यू० ४५ बालाघाट	द्वितीय श्रेणी		
बालाघाट	श्री पिन्दु जामोद	ए०एस०टी०ओ०	कार्यालय सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	
बालाघाट	श्री श्याम बिहारी श्रीवास्तवी	सब० इंजीनियर	कार्यपालन यंत्री पी०डब्ल्यू० संभाग क्र० ०१बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	
बालाघाट	श्री यमुना प्रसाद सनौडिया	सब० इंजीनियर	कार्यपालन यंत्री पी०डब्ल्यू० संभाग क्र० ०१बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	
बालाघाट	श्री बी० एस० अडमे	सह० यंत्री	कार्यपालन यंत्री पी०डब्ल्यू० संभाग क्र० ०१बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	
बालाघाट	श्री एस.आर. नेवारे	सह० यंत्री	कार्यपालन यंत्री पी०डब्ल्यू० संभाग क्र० ०१बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	
बालाघाट	श्री व्ही०के० रामजे	महाप्रबंधक	कार्यालय महाप्रबंधक म०प्र० ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण परि० क्रियान्वयन इकाई ०२ बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	
बालाघाट	श्री विजय कुमार लूथरा	उपयंत्री कार्यपालन यंत्री	जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	
बालाघाट	श्री कुवर लाल डोंगरे	उपयंत्री, कार्यपालन यंत्री	बंजर नदी परियोजना बैहर	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	
बालाघाट	श्री प्रकाश सिंह	उपयंत्री, कार्यपालन यंत्री	बंजर नदी परियोजना बैहर	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	
बालाघाट	श्री अजय रावतकर	उपयंत्री, कार्यपालन यंत्री	बंजर नदी परियोजना बैहर	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	
बालाघाट	श्री सत्येन्द्र कुमार विजय	उपयंत्री, कार्यपालन यंत्री	बंजर नदी परियोजना बैहर	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	
बालाघाट	श्री जे०पी० गौतम	उपयंत्री, कार्यपालन यंत्री	बंजर नदी परियोजना बैहर	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	
बालाघाट	श्री नासीर हुसन कुरैशी	उप यंत्री	वैनगंगा संभाग बालाघाट	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	
बालाघाट	श्री विजय राव रावतकर	उप यंत्री	वैनगंगा संभाग बालाघाट	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	
बालाघाट	श्री दिनेश इहोटे	उप यंत्री	वैनगंगा संभाग बालाघाट	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	

1	2	3	4	5	6	7
बालाघाट	31	श्री चित्तौड़ सिंह बिसेन	सहायक संचालक	कार्यालय सहायक संचालक उद्यान बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	32	श्री राकेश कुमार मिश्रा	सहायक संचालक कृषि	कार्यालय उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	33	श्री चैतराम गौर	सहा० संचालक कृषि	कार्यालय उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	34	श्री पतिराज सिंह चौहान	महाप्रबंधक कार्यालय	महाप्रबंधक मं०, 0प्र० ग्रामिण सड़क विकास प्राधिकरण परि० क्रियान्वयन इकाई ०२ बालाघाट	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	35	डा० प्रमोद कुमार गुप्ता	कृषि वैज्ञानिक	कार्यालय कार्यक्रम समन्वय कृषि विकास केन्द्र बालाघाट	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	36	श्री थानसिंह सिन्धे	सहा, यंत्री	कार्यालय यंत्री (वि०या०) भारी मशीनरी संभाग बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	37	श्री डी०एल० भगत	उप वन मण्डल अधिकारी	उप वन मण्डल अधिकारी दक्षिण सामान्य बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	38	श्री एम० एस० मौरकाम	सहा० व्याख्याता	जे०एस०टी०पी०जी० कालेज बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	39	श्री प्रवीण श्रीवास्तव	व्याख्याता	जे०एस०टी०पी०जी० कालेज बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	40	श्री प्रवीण कुमार कोसले	सहा० व्याख्याता	जे०एस०टी०पी०जी० कालेज बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	41	श्री भूपेन्द्र बर्महे	सहा० व्याख्याता	जे०एस०टी०पी०जी० कालेज बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	42	श्री पी०के० मेश्राम	सहा० व्याख्याता	जे०एस०टी०पी०जी० कालेज बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	43	श्री मोहम्मद रज्जाक खान	उप यंत्री	वेनगंगा संभाग बालाघाट	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	44	श्री नीरज पुरी	पशु चिकित्सा शल्यज्ञ	कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	45	श्री घनश्याम परते	पशु चिकित्सा शल्यज्ञ	कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
बालाघाट	46	श्री आशीष कुमार वैध	पशु चिकित्सा सहा० शल्यज्ञ	कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	47	पी०सी० मेश्राम	एस०डी०ओ०	कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	48	श्री गणेश कुमार मेश्राम	उपयंत्री, कार्यपालन यंत्री	जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	49	श्री अनंत मोहन सुन्दरी	उपयंत्री, कार्यपालन यंत्री	जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	50	श्री ए०डी० शर्मा	उपयंत्री कार्यपालन यंत्री	ग्रामिण यांत्रिकी सेवा संभाग बालाघाट	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	51	श्री आर०डी० बामने	उपयंत्री कार्यपालन यंत्री	ग्रामिण यांत्रिकी सेवा संभाग बालाघाट	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	52	श्री अनंत राम शेरकर	उपयंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी बालाघाट	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	53	श्री दिलीप कुमार मिश्रा	उपयंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी बालाघाट	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	54	श्री गजानन श्रीनाग	उपयंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी बालाघाट	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	55	श्री रविशंकर इहेरिया	सहायक यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	56	श्री रामचन्द्र तिरपुडे	उप यंत्री	बैतंगंगा संभाग बालाघाट	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	57	रामप्रसाद अग्रवाल	उप यंत्री	बैतंगंगा संभाग बालाघाट	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	58	डा० सत्येन्द्र कुमार	कृषि वैज्ञानिक	कार्यालय कार्यक्रम समन्वय कृषि विकास केन्द्र बालाघाट	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	59	श्री के०एस०वर्मा	महाप्रबंधक	कार्यालय महाप्रबंधक म०प्र० ग्रामिण सड़क विकास प्राधिकरण परि० क्रियान्वयन इकाई ०३ बालाघाट	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	60	श्री आर०के० राजनेगी	कार्यपालन यंत्री	म०प्र० गृह निर्माण मण्डल एवं अधोसंरचना बालाघाट	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	61	श्री सातीक कुमार भालावी	एस०डी०ओ०	कार्यपालन जल मौसम विज्ञान उप संभाग क्र० ११ बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए



1	2	3	4	5	6	7
बालाघाट	62	श्री सुखदेव सिंह ठाकुर	सहा. यंत्री	कार्यपालन यंत्री(पी0या0) भारी मशीनरी सं० जल संसाधन बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	63	श्री पुन लाल कोरी	एस0डी0ओ०	कृषि बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	64	श्री जे0एस० सोधी	स्पोर्ट आफिसर	जे0एस0टी0पी0जी० कालेज बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	65	श्री गोविन्द सिरसाठे	व्याख्याता	जे0एस0टी0पी0जी० कालेज बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	66	श्री अनिल पचारिया	सहा. व्याख्याता	जे0एस0टी0पी0जी० कालेज बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	67	श्री रत्नेश खरे	सहा. व्याख्याता	जे0एस0टी0पी0जी० कालेज बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	68	श्री योगेन्द्र कुमार घोडेश्वर	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	69	श्री विजय मानेश्वर	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	70	श्री मिनेश मेश्राम	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	71	श्री अशोक कुमार अग्रवाल	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	72	श्री अजय अग्रवाल	सहा. संचालक कृषि	कार्यालय उप संपंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	73	श्री प्रमोद तिवारी	सहा. यंत्री सिविल	कार्यालय सभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग पी0आई0यू० ४५ बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	74	श्री केहरसिंह इनवाती	सहा. यंत्री	कार्यपालन यंत्री पी0डब्ल्यू0डी० सभाग क्र० ०१ बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	75	श्री ए0एस० परिहार	सहा० मैनेजर	कार्या० महाप्रबंधक मं0प्र० ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण परि० क्रियान्वयन इकाई ०२ बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	76	श्री सोहनलाल भिमटे	उप यंत्री	वैनगंगा सभाग बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
बालाघाट	77	श्री दिनेश शर्मा	परि. अधिकारी	कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना बिरसा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	78	श्री रमेश कुमार उड़के	एस०डी०ओ०	कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	79	श्री आर०एस० ठाकुर	उपयंत्री. कार्यपालन यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बालाघाट	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	80	श्री आर०आर० देशमुख	उपयंत्री. कार्यपालन यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बालाघाट	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	81	एल०एल० वासनिक	उपयंत्री. कार्यपालन यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बालाघाट	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	82	के०के० दुबे	उपयंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी बालाघाट	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	83	श्री ललित कुमार निगम	उपयंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी बालाघाट	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	84	श्री रजन सिंह ठाकुर	सहायक यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	85	श्री द्वारका प्रसाद मंगारे	सहायक यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	86	श्री महेश कुमार जानी	उप यंत्री	वैनगंगा संभाग बालाघाट	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	87	श्री अखीलेश कुमार श्रीवास्तव	उप यंत्री	वैनगंगा संभाग बालाघाट	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	88	श्री चुरामन चौरे	सहा. व्याख्याता	जे०एस०टी०पी०जी० कालेज बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	89	श्री सुनील कुमार सिन्हा	कार्यपालन यंत्री	(वि०/या०) भारी मशिनरी जल संशोधन बालाघाट	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	90	श्री राम प्रकाश कुमार	कार्यपालन यंत्री	अधीक्षण यंत्री जल संशोधन मण्डल बालाघाट	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	91	श्री उदयभान सिंह परिहार	सीनियर जियोहाईड्रॉलिस्ट	कार्यालय भू-जलविद संभागीय भू- जल सर्वेक्षण इकाई क्र०७ बालाघाट	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	92	श्री आर०एन० साहू	सतलवन अधिकारी	कार्यालय वन संरक्षक एवं पट्टेन वन संरक्षक वन वृत्त बालाघाट	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
बालाघाट	93	श्री ए0ए0 चिखलदेकर	सहा. यंत्री कार्यपालन यंत्री	(वि0/यां.) भारी मशनरी सं. जल संसाधन बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	94	श्री सुभाष पटेल	सहा. यंत्री	जल संसाधन मंडल बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	95	श्री घनश्याम मेरावी	सहा. यंत्री	जल संसाधन मंडल बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	96	श्री व्ही.के. शर्मा	सी.टी.ओ.	कार्यालय वाणिज्य कर अधिकारी बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	97	श्री जियालाल ठाकरे	सहा. यंत्री कार्यपालन यंत्री	जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	98	श्री के.एस. अमूले	परि. अर्थशास्त्री	कार्यालय जिला पंचायत बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	99	श्री संगम सिंह मरावी	प्रोजेक्ट डायरेक्टर	कार्यालय परियोजना संचालक आत्मा समिति किसान कल्याण तथा कृषि विकास बालाघाट	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	100	श्री बाबुलाल बिलैया	उप संचालक(कृषि)	कार्यालय उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग बालाघाट	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	101	श्री प्रकाश कुमार गरेवाल	कार्यपालन यंत्री	कार्यपालन संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग पी. आई. यू. १५ बालाघाट	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	102	श्री एम.के. कोरी	महाप्रबंधक	कार्यालय महाप्रबंधक म.प्र. ग्रामिण सड़क विकास प्राधिकरण परि. क्रियान्वयन इकाई ०३ बालाघाट	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	103	श्री विनोद कुमार सदाफल	जिला रोजगार अधि.	जिला रोजगार कार्यालय	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	104	श्री आर.के. राय	उप संचालक	मत्स्योद्योग बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	105	श्री वसीम खान	अनु.वि.अधि.	लोक निर्माण विभाग संतु निर्माण उप संभाग बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	106	श्री एम.के. पौनीकर	सहा. यंत्री कार्यपालन यंत्री	पी.डब्ल्यू.डी. संभाग क्रं०१ बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	107	श्री के.पी. कुजुर	सहा. यंत्री कार्यपालन यंत्री	पी.डब्ल्यू.डी. संभाग क्रं०१ बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	108	श्री यशवन्त घोरमारे	सहा. यंत्री अधीक्षण यंत्री	राजीव सागर परियोजना बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
बालाघाट	109	श्री प्रदीप गांधी	सहा. यंत्री अधीक्षक यंत्री	राजीव सागर परियोजना बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	110	श्री आर.के. कौशले	असीस्टेंट इंजीनियर महाप्रबंधक	म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परि. क्रियान्वयन इकाई -०२ बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	111	श्री मनोज अस्तिवार	जिला कार्यक्रम अधिकारी	तेजस्वीनी बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	112	श्री प्रेमराज हरिनखड़े	उप यंत्री	वैनगंगा सभाग बालाघाट	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	113	श्री राजेन्द्र कुमार अश्राम	उप यंत्री	वैनगंगा सभाग बालाघाट	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	114	श्री सुखराम सिंह परस्ते	प्राचार्य	कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र वारसिवनी	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	115	श्री राहुल कुमार वासल	सहा. संचालक	कार्यपालन हाथकर्घा वारसिवनी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	116	श्री पनेन्द्र देशमुख	सहा. यंत्री कार्यपालन यंत्री	वैनगंगा सभाग बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	117	श्री अनिल कुमार जैन	सहा. यंत्री	कार्यालय सभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. ४५ बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	118	श्री एम.एस. श्रीवास्तव	उप वन मण्डल अधिकारी	उप वन दक्षिण सामान्य बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	119	श्री एन.एम. कुंरेशी	सहा. व्याख्याता	जे.एस.टी.पी.जी. कालेज बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	120	श्री ए.सी. तिचारी	सहा. व्याख्याता	जे०एस०टी०पी०जी० कालेज बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	121	श्री अरविन्द वासनिक	सहा. व्याख्याता	जे०एस०टी०पी०जी० कालेज बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	122	श्री राकेश पटले	सहा. व्याख्याता	जे०एस०टी०पी०जी० कालेज बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	123	श्री विनोद कुमार ऐडे	सहा. व्याख्याता	जे०एस०टी०पी०जी० कालेज बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	124	श्री प्रफुल मून	पशु चिकित्सा शल्यज्ञ	कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	125	श्री रमेश कुमार गोहे	सहा. भू. रसायनविद	कार्या. वरिष्ठ भू.जलविद भूजल सर्वेक्षण इकाई क्रं ७ बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
बालाघाट	126	श्री आर.एन. कोकोटे	सहा. यंत्री	कार्यालय जिला पंचायत बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	127	श्री निशांक कौल	परि. अधि.	कार्यालय जिला पंचायत बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	128	श्री असीम इब्राहिम	जिला कोऑर्डिनेटर	कार्यालय जिला पंचायत बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	129	श्री टी.बी. पाण्डे	उप वन मण्डल अधिकारी	उप वन मण्डल उत्तर उत्पादक बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	130	श्री एन.के. इहरिया	सहा. मैनेजर	कार्यो. महाप्रबंधक मं.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परि. क्रियान्वयन इकाई ०२ बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	131	श्री सी.एम. हिरकने	सहा. प्रबंधक	कार्यो. महाप्रबंधक मं.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परि. क्रियान्वयन इकाई ०३ बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	132	श्री श्याम सिंह ठाकुर	परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, लालबारी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	133	श्री गनेश कुमार चौकसे	उप यंत्री	वैनगंगा संभाग बालाघाट	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	134	श्री आर.एस. गादे	उप यंत्री	वैनगंगा संभाग बालाघाट	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	135	श्री संजय नेमा	उप यंत्री	वैनगंगा संभाग बालाघाट	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	136	श्री आर.के. गजभिंये	सहा. यंत्री	राजीव सागर नहर परियोजना संभाग क्र. ०३ कटंगी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	137	श्री सदनलाल कठौते	सहा. यंत्री कार्यपालन यंत्री	वैनगंगा संभाग बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	138	श्री फनीन्द्र कुमार भिमटे	कार्यपालन यंत्री	राजीव सागर नहर परियोजना संभाग क्र. ०३ कटंगी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	139	श्री धनराज रामटेके	सहा. यंत्री	राजीव सागर नहर परियोजना संभाग क्र. ०३ कटंगी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	140	श्री अनिरुद्ध गजभे	सहा. यंत्री	राजीव सागर परियोजना संभाग क्र. ०३ कटंगी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
बालाघाट	141	श्री दामोदर वाडियो	सहा. यंत्री	राजीव सागर नहर परियोजना संभाग क्र. ०३ कटंगी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	142	श्री विकास सास्तिथा	सहा. यंत्री	राजीव सागर परियोजना संभाग क्र. ०३ कटंगी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	143	श्री पुष्पेन्द्र रानाडे	परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास कार्यालय कटंगी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	144	श्री देवेन्द्र यादव	परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास कार्यालय बालाघाट ग्रामीण	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	145	श्री तेजेन्द्र सिंह शिव	सहा. व्याख्याता	जे.एस.टी.पी.जी. कॉलेज बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	146	श्री प्रशांत डहाटे	सहा. व्याख्याता	जे.एस.टी.पी.जी. कॉलेज बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	147	श्री राम कृष्णा त्रिवेदी	सहा. व्याख्याता	जे.एस.टी.पी.जी. कॉलेज बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	148	श्री योगेन्द्र विजयवार	सहा. व्याख्याता	जे.एस.टी.पी.जी. कॉलेज बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	149	श्री आर.एन. झारिया	सहा. व्याख्याता	जे.एस.टी.पी.जी. कॉलेज बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	150	श्री विक्रम सिंह सोलंकी	सहा. अनुदेशक	कार्यालय प्राचार्य वनक्षेत्रपाल महाविद्यालय बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	151	श्री आर.के.कुम्भारे	सहा. अनुदेशक	कार्यालय प्राचार्य वनक्षेत्रपाल महाविद्यालय बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	152	श्री बुद्धसेन सैयाम	सहा. अनुदेशक	कार्यालय प्राचार्य वनक्षेत्रपाल महाविद्यालय बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	153	श्री आई.जे.एस.ठाकुर	ए.पी.एम.	कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बालाघाट	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	154	श्री रंगलाल गजभिये	उप यंत्री	बैनगंगा संभाग बालाघाट	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बालाघाट	155	श्री सोहन लाल भिमटे	उप यंत्री	बैनगंगा संभाग बालाघाट	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	1	सुनील कुमार उपाध्याय	उपयंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	2	श्री अंजुमन बर्मा	अनुविभागीय अधिकारी	कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	3	श्री पी एम कापरे	सहायक संचालक	कृषि विभाग सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	4	श्री आर.के. श्रीवास्तव	कार्यपालन यंत्री	म0प्र0 विद्युत वितरण मण्डल सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
सिवनी	श्री राजेश ठाकुर		सहायक शल्य उपयंत्री	पशु चिकित्सा सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	श्री टेकचंद निमजे			कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवा सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	श्री आर एस रघुवंशी		मुख्य अभियंता	जल संसाधन विभाग सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	श्री आमका प्रसाद सिंगौर		सहायक यंत्री	लोक निर्माण विभाग सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	श्री के के मिश्रा		सहायक यंत्री	लोक निर्माण विभाग सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	श्री राजकुमार हनुमते		सहायक यंत्री	लोक निर्माण विभाग सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	श्री विजय कुमार दिवाकर		सहायक यंत्री	लोक निर्माण विभाग सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	श्री के सी जन्ौरिया		सहायक यंत्री	जनपद पंचायत कुरई	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	श्री अजितेज पाण्डे		सहायक यंत्री	कार्यालय मुख्य अभियंता बैनगागा कच्छार	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	श्री डी के कुसराम		सहायक यंत्री	जलसंसाधन सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	श्री ए के गोतम		सहायक यंत्री	ग्रामीण यंत्रीकी सेवा	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	श्री जगदीश प्रसाद मिश्रा		उपयंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	श्री बी एल लिल्हारे		सहायक संचालक	किसान कल्याण विभाग सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	श्री गुलाब कुड्रापे		सहायक यंत्री	शिक्षा विभाग सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	श्री बी एल आरमोती		प्रबंधक	भारतीय खादय निगम सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	श्री हेमंत कुमार डोंगरे		उपयंत्री	जलसंसाधन क्र 1 सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	श्री के एस शिववंशी		कार्यपालन यंत्री	विद्वत् मण्डल सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	श्री श्रीधर उडके		सहायक आयुक्त	अवैक्षण सहकारिता सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	श्री मोरिस नाथ		अनुविभागीय अधिकारी	कृषि विकास विभाग सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	श्री जे एस बाथरकर		अनुविभागीय अधिकारी	लोक निर्माण विभाग	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	श्री डी के जैन		लेखाअधीकारी	प्रधानमंत्री सड़क परियोजना सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	श्री श्याम नेटी		उपसंचालक	सामाजिक न्याय सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	श्री राजकुमार अवधिया		अनुविभागीय अधिकारी	कार्यपालन यंत्री ग्रामीण सेवा सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	श्री एस सी जैन		सहायक यंत्री	जलसंसाधन विभाग सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	श्री एस के कौशल		सहायक यंत्री	जलसंसाधन विभाग केवेलारी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	श्री एन डी भूमरकर		सहायक यंत्री	जलसंसाधन सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	श्री एस के शर्मा		अनुविभागीय अधिकारी	एकीकृत आदिवासी परियोजना सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
सिवनी	32	श्री एम के बघेल	सहायक परियोजना संवन्धयक	सर्व शिक्षा अभियान सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	33	श्री एस के नगाचे	सहायक यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	34	श्री डी आर चौधरी	सहायक यंत्री	जलसंसाधन क्र 1 सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	35	श्री राजेन्द्र बहादुर सोलंकी	वनक्षेत्रपाल	दक्षिण वन मण्डल सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	36	श्री बी एस उइके	सहायक यंत्री	जलसंसाधन क्र 1 सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	37	श्री एम के सोनी	अनुविभागीय अधिकारी	कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन विभाग संभाग क्र 1 सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	38	श्री आर पी ठाकरे	कार्यपालन यंत्री	लोक निर्माण विभाग संभाग क्र 1 सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	39	श्री एन के पटवारी	सहायक संचालक	कृषि	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	40	श्री मथुरा प्रसाद रिछरिया	वनक्षेत्रपाल	दक्षिण वन मण्डल सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	41	श्री कबल सिंगारे	परियोजना यंत्री	लोक निर्माण विभाग	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	42	श्री सुरेश कुमार गौर	उपयंत्री	परि०क्रि०ईकाई सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	43	श्री रवि सिंग बघेल	जिला शिक्षा अधिकारी	कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन विभाग संभाग क्र 1 सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	44	श्री बालकृष्ण मोरे	जिला पंजियक	शिक्षा विभाग सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	45	श्री रवि गजभिये	उपसंचालक	पंजियन एवं मूद्राक सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	46	श्री एच डी चक्रवर्ति	उपसंचालक	मतस्य विभाग सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	47	श्री आर के पाण्डे	उपवनमण्डाधिकारी	पशु चिकित्सा सेवारे सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	48	श्री ए के मेश्राम	जिला रोजगार अधिकारी	उत्तर सामान्य लखनादौन जिला रोजगार कार्यालय सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	49	श्री देवेश मरकाम	सहायक खनिज अधिकारी	खनिज विभाग सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	50	श्री केशोराव उइके	महाप्रबंधक	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	51	श्री एस सी हेक्टर	वनक्षेत्रपाल	वनअनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	52	श्री प्रीति नागोन्द्र	नायब तहसीलदार	तहसील सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	53	श्री एस एल टेकाम	वनक्षेत्रपाल	वनसंक्षेक कार्यालय कार्य योजना सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	54	श्री एस के धूर्व	उपसंचालक	कृषि	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	55	श्रीमति प्रिति पन्ना	सहायक आयुक्त	वाणिज्यकर विभाग सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए



1	2	3	4	5	6	7
सिवनी	श्री बी के तिवारी	जिला विपणन अधिकारी	कार्यालय जिला विपणन अधिकारी सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए	
सिवनी	श्री जी पी धुरिया	वनक्षेत्रपाल	कार्यालय वनसंरक्षक कार्ययोजना सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए	
सिवनी	श्री अशोक नेमा	प्रबंधक	म0प्र0 स्टेट ऐगो सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए	
सिवनी	श्री राजकुमार भरमैया	सहायक यंत्री	म0प्र0 ग्रह निर्माण मण्डल सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए	
सिवनी	श्री राजेन्द्र दिक्षित	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन विभाग संभाग क्र 1 सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए	
सिवनी	श्री संजीव कुमार यादव	वनक्षेत्रपाल	उत्तर वनमण्डल सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए	
सिवनी	श्री प्रदीप कुमार चौधरी	सहायक संचालक	कार्यालय सहा संचालक उद्धानकी सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए	
सिवनी	श्री अनिल कुमार शर्मा	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन विभाग संभाग क्र 1 सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए	
सिवनी	श्री राकेश जैन	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	अन्त व्यवसायी निगम सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए	
सिवनी	श्री आर के अधिकारी	अधिक्षण यंत्री	परियोजना प्रशासक बैनगंगा कछार क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधक प्रकोष्ठ सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए	
सिवनी	श्री सनत पटेल	परियोजना अधिकारी	शहरी विकास अभिकरण सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए	
सिवनी	श्री एन के खंपडिया	कार्यपालन यंत्री	मुख्य अभियंता बैन गंगा कछार सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए	
सिवनी	श्री अनंत राम मरावी	वनक्षेत्रपाल	दक्षिण वन मण्डल सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए	
सिवनी	श्री बी एस कोठारी	प्रभारी उपायुक्त	सहकारिकता संस्थार सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए	
सिवनी	श्री बी एस बाघेल	वनमण्डलधिकारी	उत्तर उत्पादन सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए	
सिवनी	श्री एम आर अमलतास	उपसंभागीय प्रबंधक	संभागीय प्रबंधक बरघाट	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए	
सिवनी	श्री मानक सिंह कटारिया	उपयंत्री	परियोजना मण्डल सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए	
सिवनी	श्री एस एल चौर	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री तिलवारा बांयोट नहर संभाग केवलारी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए	
सिवनी	श्री संजीव अम्बिहोत्री	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री तिलवारा बांयोट नहर संभाग केवलारी अधीक्षण यंत्री जलसंसाधन मण्डल सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए	

1	2	3	4	5	6	7
सिवनी	75	श्री एस आर चौधरी	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री तिलवारा बांयीतट नहर संभाग केवलारी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	76	श्री के बी उपाध्याय	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री तिलवारा बांयीतट नहर संभाग केवलारी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	77	श्री सुरेन्द्र शण्डे	वनक्षेत्रपाल	उत्तर वनमण्डल सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	78	श्री राजेन्द्र मिश्रा	वनक्षेत्रपाल	अनुसंधान एवं विस्तार वत्त सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	79	श्री के के सक्सेना	अनुविभागीय अधिकारी	कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन विभाग संभाग क्र 1 सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	80	श्री पी एन नाग	अनुविभागीय अधिकारी	कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन विभाग संभाग क्र 1 सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	81	श्री मनोज भांगरे	परियोजना अधिकारी	महिला बाल विकास सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	82	श्री जी के मालखडे	कार्यपालन यंत्री	कार्यालय मुख्य अभियंता बैनगंगा कछार	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	83	श्री डी एस टेकम	कार्यपालन यंत्री	कार्यपालन यंत्री बैनगंगा कछार सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	84	श्री आर एस सोनी	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	85	श्री आर एस शर्मा	एस डी ओ	जलसंसाधन केवलारी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	86	डा एस के चौकसे	पशु चिकित्सक	पशु चिकित्सा विभाग सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	87	श्री आर एस चौधरी	सहायक यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड केवलारी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	88	श्री डी के मृडिया	कार्यपालन यंत्री	ग्रामीण विकास सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	89	श्री डी एस चौधरी	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री ग्रामीण सेवा सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	90	श्री पी सी बनोडिया	सहायक यंत्री	कार्यपालन ग्रामीण यांत्रिकी सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	91	श्री देवानन्द पाण्डे	वनक्षेत्रपाल	दक्षिण वन मण्डल सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	92	श्री संतोष कुमार जैन	अधीक्षण यंत्री	अधीक्षण यंत्री जलसंसाधन मण्डल सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	93	श्री संजीव मोहोड	परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास परियोजना	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	94	श्री प्रशांत दीप सिंह ठाकुर	परियोजना अधिकारी	एकीकृत आदिवासी परियोजना सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	95	श्री एन एन बेलबशी	प्रबंधक	व्यापार उद्योग केन्द्र सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
सिवनी	96	श्री रण बहादुर सिंह	सहायक वनसंरक्षक	दक्षिण वन मण्डल सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	97	श्री गोविंद प्रसाद शुक्ला	वनक्षेत्रपाल	दक्षिण वन मण्डल सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	98	श्री मधुसुदन नगपुरे	वनक्षेत्रपाल	दक्षिण उत्पादन वन मण्डल सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	99	श्री रवीन्द्र कुमार तिवारी	वनक्षेत्रपाल	दक्षिण वन मण्डल सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	100	श्री एस आर भलावी	कार्यपालन यंत्री	तिलवारा बायीं तट नहर केवलारी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	101	श्री आर वी पारशर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत लखनादौन	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	102	श्री के पी पटेल	उपयंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जनपद पंचायत लखनादौन	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	103	श्री संयद इशरत हुसैन	उपयंत्री	जल ससाधन विभाग संभाग क्र 1 सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	104	श्री आर के शर्मा	अनुविभागीय अधिकारी	पी एच ई लखनादौन	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	105	श्री सोपान देव सोनाने	साख्यकी अधिकारी	कार्यालय एकीकृत आदिम जाति विकास लखनादौन	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	106	श्री के के सोनी	प्रबंधक	सहकारी केन्द्रीय बैंक लखनादौन	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	107	श्री जगदीस सिंह गोठारिया	उपवनमण्डल अधिकारी	उत्तर वनमण्डल सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	108	श्रीमति शशि उडके	जिला कार्यक्रम अधिकारी	कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	109	श्री आर के आम्बवंशी	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी	कार्यालय सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	110	श्री समरजीत सिंह चंदेल	वन परिक्षेत्र अधिकारी	उत्तर वनमण्डल लखनादौन	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	111	मो: इमाम खान	वनक्षेत्रपाल	उत्तर उत्पादन वनमण्डल सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	112	श्री विवेक कुमार नाग	वनक्षेत्रपाल	उत्तर उत्पादन घसौर	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	113	श्री गोपाल सिंह	वन परिक्षेत्र अधिकारी	वन परिक्षेत्र अधिकारी धुमा	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	114	श्री देव करण सिंह गौड	उप वन मण्डल अधिकारी	दक्षिण वनमण्डल सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	115	श्री एस एल नाईक	अनुविभागीय अधिकारी	कृषि विभाग लखनादौन	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	116	श्री कमल आरोरा	मण्डल प्रबंधक	बरघाट परियोजना सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	117	श्री शशांक तिवारी	सहायक यंत्री	मनरेगा जनपद पंचायत घसौर	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	118	श्री रविन्द्र जैन	सहायक यंत्री	मनरेगा जनपद पंचायत घसौर	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
सिवनी	119	श्री के सी अथवाल	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन क्रमांक 1 सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	120	श्री सतीष ब्योहार	जिला प्रोढ शिक्षा अधिकारी	जिला प्रोढ शिक्षा अधिकारी कार्यालय सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	121	श्री बी के लाल	सचिव	कृषि उपज मण्डी धनौरा	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	122	श्रीमति राजश्री मेश्राम	परियोजना अधिकारी	एकीकृत बालविकास परियोजना लखनादौन	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	123	श्री शैलेंद्र शर्मा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत घंसीर	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	124	श्री अजय जैन	परियोजना अधिकारी	एकीकृत बालविकास परियोजना घंसीर	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	125	श्री एम एल विश्वकर्मा	कार्यपालन यंत्री	म0प्र0 विदुत मण्डल लखनादौन	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	126	श्री एम के चौरसिया	सहायक प्रबंधक	प्रधानमंत्री सडक परियोजना ईकाई क्र 2 सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	127	श्री विनोद कुमार उडके	अनुविभागीय अधिकारी	जल संसाधन घंसीर	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	128	श्री राकेश शाक्यवार	वनक्षेत्रपाल	उत्तर वनमण्डल सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	129	श्री टी आर वर्मा	सहायक प्रबंधक	प्रधानमंत्री सडक परियोजना सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	130	श्री पी आर मेश्राम	प्राचार्य डाईट	जिला शिक्षा केन्द्र सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	131	श्री रे के जैन	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	132	श्री जे पी शिवहरे	अनुविभागीय अधिकारी	उप वनमण्डल अधिकारी कार्यालय सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	133	श्री जी एस वरकडे	अनुविभागीय अधिकारी	उपमण्डल अधिकारी सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
सिवनी	134	श्री एस एल विश्वकर्मा	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सिवनी	राज्य सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	1	श्री बी एस धूर्ते	सह. परि. अधि.	जि. पंचा. नरसिंहपुर	पंचा. एवं ग्रामीण विकास	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	2	डॉ. राजीव कुमार जैन	सह. शल्यज्ञ पशु चिकित्सा	पशु चिकित्सालय नरसिंहपुर	पशु चिकित्सा	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	3	श्री डी. एम. मीणा	जिला कार्यक्रम अधिकारी	म.बा.वि. नरसिंहपुर	महिला एवं बाल विकास नरसिंहपुर	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	4	श्री पी के विनोदे	जिला संयोजक	आ.जा. कल्याण नरसिंहपुर	आदिम जाति कल्याण नरसिंहपुर	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	5	श्री डी के पासी	जिला रोजगार अधिकारी	रोजगार कार्यालय नरसिंहपुर	रोजगार विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	6	श्री के पी तिवारी	कार्यक्रम समन्वयक	विज्ञान केन्द्र नरसिंहपुर	कृषि विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	7	श्री मनोज मेश्राम	सहायक संचालक	सह. संवा. उद्यान नरसिंहपुर	कृषि विभाग	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
नरसिंहपुर	8	श्री प्रशान्त श्रीवास्तव	संयुक्त संचालक	विज्ञान केन्द्र नरसिंहपुर	कृषि विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	9	श्री के. सी. सोनी	जिला पंजीयक	जिला पंजीयक नरसिंहपुर	पंजीयन एवं मुद्रांक	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	10	श्री यू. एस. पटेल	महाप्रबंधक	जिला सहकारी बैंक मर्यादित नरसिंहपुर	सहकारिता	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	11	श्री राजेन्द्र प्रसाद झारिया	सहायक यंत्री	पिछडा एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग नरसिंहपुर	पिछडा एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	12	श्री आयुतोष दुबे	सहा भूमि संरक्षण अधिकारी	भूमि संरक्षण अधिकारी नरसिंहपुर	कृषि विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	13	श्री आनंद मंगल तिवारी	सहायक यंत्री	जनपद पंचायत नरसिंहपुर	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	14	श्री के.एम. वर्मा	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी	गाडरवारा, नरसिंहपुर	कृषि विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	15	श्री गनेश कुमार खरे	सहा यंत्री	रा अ बा लोधी सा ब न करेली	सिंचाई विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	16	श्री बी पी श्रीवास्तव	सहा प्रबंधक	म प्र ग्रा स वि प्रा पी आई ई यू 02 नरसिंहपुर	ग्रामीण सडक	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	17	श्री एस.के.एच. अल्वी	सहायक संचालक	रेशम, नरसिंहपुर	रेशम विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	18	डॉ नारेन्द्र कुमार मिश्रा	सहा शल्यज्ञ	पशु चिकित्सा कार्यालय नरसिंहपुर	पशु चिकित्सा	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	19	श्री आदित्य मोहन पटेल	सी.डी.पी.ओ.	करेली	महिला बाल विकास	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	20	श्री डी के मिश्रा	आयुर्वेद अधिकारी	जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय नरसिंहपुर	स्वास्थ्य विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	21	श्री आर एस बुनकर	श्रम पदाधिकारी	श्रम पदाधिकारी नरसिंहपुर	श्रम विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	22	श्री आर के दुसाध	सहा संचालक	कृषि नरसिंहपुर	कृषि विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	23	श्री एम.एस. भगदिया	अ.वि.अ. वन विभाग	गोटेगांव	वन विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	24	श्री ए एल खरे	अनुविभागीय अधिकारी	जलसंसाधन करेली	सिंचाई विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	25	श्री प्रवीण कुमार डेविट	सहायक यंत्री	विधुत सुरक्षा, नरसिंहपुर	विधुत विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	26	डॉ. रमन चौकसे	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	नरसिंहपुर	पशु चिकित्सा	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	27	श्री कैलाश सिंह ठाकुर	सहायक यंत्री	रा.अ.बा.सा.न. संभाग नरसिंहपुर	सिंचाई विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	28	श्री रामेश कुमार पटेल	सहायक यंत्री	लो.नि. विभाग नरसिंहपुर	लोक निर्माण	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	29	श्री एम.एल. जयसवानी	एस.डी.ओ.पी. डब्ल्यू डी	गोटेगांव	लोक निर्माण	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	30	श्री हेमंत कुमार यादव	सहायक यंत्री	रा.अ.बा.सा.न. डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर	सिंचाई विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	31	श्री ए.के. खरे	सहायक यंत्री	म.प्र.वि. मंडल नरसिंहपुर	विधुत विभाग	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
नरसिंहपुर	32	श्री पी.के. अग्रवाल	सहायक संचालक	कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र नरसिंहपुर	कृषि विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	33	श्री मुरलीधर सिंह राजपूत	उप वन मंडल अधिकारी	वन मंडलाधिकारी कार्यालय नरसिंहपुर	वन विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	34	श्री बी.के. झारिया	कार्यपालन यंत्री	ई.ई. बरगी डिस्ट्रिक्ट संभाग नरसिंहपुर	सिंचाई विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	35	श्री ए.के. श्रीवास्तव	सहायक संचालक	सहायक संचालक कृषि नरसिंहपुर	कृषि विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	36	श्री बालकृष्ण कोरी	कार्यपालन यंत्री	रा.अ.बा.सा.नहर संभाग नरसिंहपुर	सिंचाई विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	37	श्री आर.के. तिवारी	सहायक प्रबंधक	मा.प्र.ग्रा.स. प्रा.	सड़क प्राधिकरण	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	38	श्री राकेश दशोरे	सहा. परि. अधि.	जिला पंचायत नरसिंहपुर	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	39	श्री नरेश कुमार सोदिया	सहायक यंत्री	रा.अ.बा.सा.न. मंडल करेली	सिंचाई विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	40	डॉ. आर.के. कोष्टी	उपसंचालक	पशु चिकि.सेवाएं नरसिंहपुर	पशु चिकित्सा	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	41	डॉ. मोहम्मद असगर	सहा. शल्यज्ञ	पशु चिकित्सा कार्यालय नरसिंहपुर	पशु चिकित्सा	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	42	श्री अनिल कुमार पटेल	सहायक परियोजना अधिकारी	जिला पंचायत नरसिंहपुर	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	43	श्री प्रमु दयाल शर्मा	सहा. यंत्री	डिस्ट्रिक्ट बरगी सिंचाई विभाग नरसिंहपुर	सिंचाई विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	44	श्री हनुक संजीव कुमार	सहा. यंत्री	रा अ बा सा परियोजना नरसिंहपुर	सिंचाई विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	45	श्री आर.आर. सिंह	कार्यपालन यंत्री	बरगी करेली	सिंचाई विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	46	श्री प्रदीप गौर	सहा परि अधिकारी	जिला पंचायत नरसिंहपुर	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	47	श्री आर.एस. ठाकुर	सहायक संचालक	कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र नरसिंहपुर	कृषि विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	48	श्री आर पी गुप्ता	सहा यंत्री	पी एच ई डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर	लोक स्वा यांत्रिकी	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	49	श्री मुरलीधर अग्रवाल	सहा यंत्री	रा अ बा सा डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर	सिंचाई विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	50	श्री आर.एन. डोंगरे	सहायक यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवा नरसिंहपुर	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	51	श्री सुनील कुमार ब्रजपुरिया	सहायक शल्यज्ञ	पशु चिकित्सा कार्यालय नरसिंहपुर	पशु चिकित्सा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	52	श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी	अनुविभागीय अधिकारी	कृषि विभाग गाडरवारा	कृषि विभाग	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
नरसिंहपुर	53	श्री संतोष राजपूत	जिला खेल अधिकारी	जिला खेल अधिकारी नरसिंहपुर	खेल विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	54	श्री बी के मोदी	सहा पंजीयक	सहकारिता विभाग नरसिंहपुर	सहकारिता	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	55	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह	उप पंजीयक	को आपरेटिव सोसायटी नरसिंहपुर	सहकारिता	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	56	श्री एस.के. निगम	परि. संचालक	कार्यालय आत्मा कृषि विभाग नरसिंहपुर	कृषि विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	57	श्री अजय शर्मा	अनुविभागीय अधिकारी	रा.अ.ब.सागर नहर कलेली	सिंचाई विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	58	श्री यू एस चतुर्वेदी	कार्यपालन अधिकारी	अंतव्यवसायी सहकारी समिति नरसिंहपुर	आदिम जाति विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	59	श्री डा. आर.एन. पटेल	सहायक मिट्टी परीक्षक	सहा. मिट्टी परीक्षण नरसिंहपुर	कृषि विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	60	श्री राजू प्रसाद धूर्त	अनुविभागीय अधिकारी	आर ई एस नरसिंहपुर	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	61	डाॅ नितीन कुमार सीजर	सहा शल्यज्ञ चिकित्सा	पशु चिकित्सा कार्यालय नरसिंहपुर	पशु चिकित्सा	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	62	श्री एस.के. तिवारी	परियोजना अधिकारी	आदिवासी विकास लघु परि. नरसिंहपुर	आदिम जाति विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	63	डाॅ बालमुकुन्द बघेल	प्राचार्य	पॉलिटेक्निक कॉलेज नरसिंहपुर	शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	64	श्री राजेन्द्र अरसिया	सहायक यंत्री	म.प्र.वि.मंडल नरसिंहपुर	विधुत विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	65	श्री वैभव वंशीर	सहायक यंत्री	म.प्र.वि.मंडल नरसिंहपुर	विधुत विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	66	श्री के के तिवारी	उप संचालक	उप संचालक कृषि नरसिंहपुर	कृषि विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	67	डाॅ प्रमोद कुमार शर्मा	सहायक शल्यज्ञ	पशु चिकित्सा कार्यालय नरसिंहपुर	पशु चिकित्सा	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	68	श्री आर के सबनानी	कार्यपालन यंत्री	रा अ बा सा नहर गोटेगाव क्र 2	सिंचाई विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	69	श्री महेन्द्र कुमार नायक	सहायक यंत्री	रा अ बा सा नहर गोटेगाव क्र 2	सिंचाई विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	70	डाॅ लक्ष्मण सिंह ठाकुर	सहायक शल्यज्ञ	पशु चिकित्सा कार्यालय नरसिंहपुर	पशु चिकित्सा	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	71	डाॅ राजेन्द्र सिंह रघुवंशी	सहायक शल्यज्ञ	पशु चिकित्सा कार्यालय नरसिंहपुर	पशु चिकित्सा	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	72	डाॅ मनोहर प्रसाद तिवारी	सहायक शल्यज्ञ	पशु चिकित्सा कार्यालय नरसिंहपुर	पशु चिकित्सा	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
नरसिंहपुर	73	डॉ अच्युत दीक्षित	सहायक शल्यज्ञ	पथु चिकित्सा कार्यालय नरसिंहपुर	पथु चिकित्सा	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	74	डॉ प्रवीण सिंह पटेल	सहायक शल्यज्ञ	पथु चिकित्सा कार्यालय नरसिंहपुर	पथु चिकित्सा	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	75	श्री उमेश सिंहल	अनुविभागीय अधिकारी	नलकूप उप संभाग क्र 2	सिंचाई विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	76	श्री घन्श्याम धारने	प्रबंधक	जिला उद्योग केन्द्र नरसिंहपुर	उद्योग विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	77	श्री तुलसीराम मेहरा	प्रबंधक	जिला उद्योग केन्द्र नरसिंहपुर	उद्योग विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	78	श्री विमल किशोर स्वामी	सहायक यंत्री	रा अ बा सा बरगी करेली	सिंचाई विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	79	श्री श्याम कुमार मालवीय	सहायक यंत्री	रा अ बा सा नहर बरगी करेली	सिंचाई विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	80	श्री एस डी चौधरी	जिला एम एंड ई	समन्वयक गरीबी उन्मूलन परि 2 नरसिंहपुर	पंचायत विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	81	श्री व्ही के तारव	सहायक प्रबंधक	म प्र गा स वि प्रा ई 01 नरसिंहपुर	ग्रामीण सड़क	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	82	श्री डी के पंचभाई	अ वि अ	वन विभाग गाडरवारा	वन विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	83	श्री एस ए खान	सहायक प्रबंधक	म प्र गा स वि प्रा आई ई यू 02 नरसिंहपुर	ग्रामीण सड़क	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	84	श्री प्रभात कुमार शर्मा	प्राचार्य	कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र नरसिंहपुर	कृषि विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	85	श्री एस के नायक	उप परियोजना संचालक	आत्मा नरसिंहपुर	पंचायत विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	86	श्री पी एस मार्को	अ वि अ	आर ई एस गाडरवारा	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	87	श्री शशि मोहन गंगराडे	फार्म मैनेजमेन्ट स्पेशलिस्ट	कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र नरसिंहपुर	कृषि विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	88	श्री अनिल तिवारी	सहायक यंत्री	रा.अ.बा.सा.न. डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर	सिंचाई विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	89	श्री एस के खजरे	सहायक यंत्री	रा.अ.बा.सा.न. डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर	सिंचाई विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	90	श्री आर के रघु	प्रबंधक	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक नरसिंहपुर	सहकारिता	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	91	श्री संतोष कुमार मिश्रा	सहायक संचालक	शिक्षा वि भाग नरसिंहपुर	शिक्षा वि भाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	92	श्री मरेश पांडे	उप संचालक	पंचायत एवं सामाजिक न्याय नरसिंहपुर	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	93	श्रीमति भागवती दोहरे	परियोजना अधिकारी	बाल विकास परियोजना साईखेड़ा	महिला बाल विकास	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	94	श्री राजेश ठाकुर	सहा परि अधि	जिला पंचायत नरसिंहपुर	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	संपूर्ण जिले के लिए



1	2	3	4	5	6	7
नरसिंहपुर	95	श्री अजय नगपुरे	प्रबंधक	म प्र वेयर हाउसिंग एवं लाजिंग कार्पो करेली	वेयर हाउसिंग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	96	श्री राजेश तिवारी	सहा परि अधि	जिला पंचायत नरसिंहपुर	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	97	श्री सी आर कौशल	जिला आपूर्ति अधिकारी	जिला आपूर्ति कार्यालय नरसिंहपुर	खादय वि भाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	98	श्री आर के मिश्रा	सहायक संचालक	मत्स्य उद्योग नरसिंहपुर	मत्स्य वि भाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	99	श्री एम एल पाठक	जिला परियोजना समन्वयक	जिला शिक्षा केन्द्र	शिक्षा वि भाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	100	श्री पी एन शर्मा	सहा परि अधि	जिला पंचायत नरसिंहपुर	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	101	श्रीमति सोना यादव	सहायक मत्स्य अधिकारी	सहायक मत्स्य कार्यालय नरसिंहपुर	मत्स्य वि भाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	102	श्रीमति शिखा रानी मिस्त्री	सहा सांख्यकीय अधिकारी	सांख्यकीय कार्यालय नरसिंहपुर	सांख्यकीय वि भाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	103	श्रीमति लक्ष्मी चंचल	सहा सांख्यकीय अधिकारी	सांख्यकीय कार्यालय नरसिंहपुर	सांख्यकीय वि भाग	संपूर्ण जिले के लिए
नरसिंहपुर	104	सुश्री विधा कुशराम	महिला सशक्तिकरण अधिकारी नरसिंहपुर	महिला एवं बाल विकास	महिला बाल विकास	संपूर्ण जिले के लिए
छिदवाड़ा	1	सेवकराम घोरमारे	सहायक यंत्री	अधीक्षण यंत्री जल संसाधन मण्डल छिदवाड़ा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिदवाड़ा	2	राजेश शात्मयवार	अधीक्षण यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय परियोजना मण्डल छिदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिदवाड़ा	3	प्रहलाद मसकाले	कार्यपालन अभियंता	कार्यालय अभियंता (सिविल)म प्र पूर्व क्षेत्र वि० वि० क० लि० छिदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिदवाड़ा	4	सजीव सनोडिया	अनुविभागीय अधिकारी	कार्यालय कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा छिदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिदवाड़ा	5	अशोक कुमार	वनमण्डलाधिकारी	पूर्व सामान्य वनमंडल छिदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिदवाड़ा	6	ज्ही के नागवंशी	कार्यपालन अभियंता सं०सं०म०प्र०	पूर्व क्षेत्र वि०वि०, परासिया	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिदवाड़ा	7	रीतेश सिरोठिया	उपवनमंडलाधिकारी	पूर्व सामान्य वनमंडल छिदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिदवाड़ा	8	बी० आर० सिरसाम	उपवनमंडलाधिकारी	पश्चिम उत्पादन वनमंडल छिदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

1 -

1	2	3	4	5	6	7
छिंदवाड़ा	9	के एल कावरे	उपवनमंडलाधिकारी	पश्चिम उत्पादन वनमंडल छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	10	एम के श्रीवास्ताव	कार्यपालन यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	11	प्रमोद चौपडे	वन परिक्षेत्र अधिकारी	झिरपा वनमण्डल, झिरपा, ताम्रिया	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	12	विक्रम सूत्या	वन परिक्षेत्र अधिकारी	बिछुआ दक्षिण सामान्य वनमण्डल, बिछुआ,	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	13	राजेन्द्र कुमार बांगरे	परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास परियोजना जुन्नारदेव	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	14	बी.के कस्तुरे	कार्यपालन अभियंता	सं० सं० म० प्र० पूर्व क्षेत्र वि० वि० जुन्नारदेव	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	15	पी० के० अतुलकर	पशु चिकित्सा अधिकारी	कार्यालय उप-संचालक, पशु चिकित्सा सेंवार छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	16	ए के दिवाकर	सहायक यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	17	प्रभाकर घोडे	सहायक प्रबंधक	ग्राम सम्पर्क सडक योजना यूनिट क्र; 2 छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	18	जे पी सूर्यवंशी	प्राचार्य	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	19	आर एस मिश्रा	उपसंचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय	उपसंचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	20	पी एन गढेवाल	परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास परियोजना ताम्रिया	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	21	जे० बालचन्द्रन	मैनेजर टेक्निकल	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	22	हिमाशु अग्रवाल	वन परिक्षेत्र अधिकारी	पश्चिम वनमण्डल जुन्नारदेव	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	23	हरिशंकर सावले	वन परिक्षेत्र अधिकारी	पाण्डुर्गा रेंज पाण्डुर्गा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	24	टी० के० देशभ्रतार	प्रशासनिक अधिकारी	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क धरमटेकडी, छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	25	जे० के० पारवेकर	उपवनमंडलाधिकारी	पश्चिम वनमण्डल सामान्य छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	26	व्ही एस ठाकुर	सहायक प्रबंधक	म०प्र०या०स०वि०प्रा० परि० क्रिया० ई-3 छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
छिंदवाड़ा	27	एच सी जैन	कार्यपालन अभियंता	पूर्व विधुत वितरण कंपनी, छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	28	हेमंत छेकर	परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास परियोजना चौरई	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	29	इंदरसिंह वारे	वन परिक्षेत्र अधिकारी	अमरवाड़ा रेंज	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	30	सुरेन्द्र राजपूत	वन परिक्षेत्र अधिकारी	दक्षिण सामान्य वनमण्डल परिक्षेत्र	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	31	नवीन वैध	सहायक श्रमायुक्त केन्द्रीय छिंदवाड़ा	सहायक श्रमायुक्त केन्द्रीय छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	32	अजय सिंह ठाकुर	क्रीडा अधिकारी	प्राचार्य राजमाता सिधिया महाविधालय छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	33	एन एल येवतकर	प्रोजेक्ट मैनेजर	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	34	प्रबोध पराते	कार्यपालन यंत्री	मं० प्र० गृह निर्माण एवं अधो० वि० मं० छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	35	संदीप गौतम	वन परिक्षेत्र अधिकारी	पश्चिम सामान्य वनमंडल परासिया	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	36	के एस बिसेन	कार्यपालन अभियंता	मं० प्र० पूर्व क्षेत्र विधुत वितरण कंपनी लिमिटेड	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	37	दही के पराडकर	प्रमुख वैज्ञानिक	सह सहायक संचालक कृषि अनुसंधान केन्द्र चंदनगांव छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	38	मनोज कुमार लारीकर	परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास परियोजना पादुर्णा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	39	घनश्याम देशमुख	वैज्ञानिक	कृषि अनुसंधान केन्द्र छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	40	ए के जैन	महाप्रबंधक	म०प्र०ग्वा०स०वि०प्रा० परि० क्रिया० ई-४ छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	41	के एल मरावी	उपवनमंडलाधिकारी	दक्षिण वनमण्डल छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	42	एच के चद्रवशी	महाप्रबंधक	म०प्र०ग्वा०स०वि०प्रा० परि० क्रिया० ई-3 छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	43	एस के जैन	सहायक यंत्री	अधीक्षण यंत्री जल संसाधन मण्डल छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	44	युवराज झारिया	कार्यपालन यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
छिंदवाड़ा	45	विनय मेश्राम	वन परिक्षेत्र अधिकारी	वन परिक्षेत्र चौरई	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	46	आर एम मिश्रा	प्रबंधक(लेखा)	महाप्रबंधक केन्द्रीय सहकारी बैंक मर्यादित छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	47	सी एच झरबडे	वरिष्ठ लेखाधिकारी	सं० सं० म० प्र० पूर्व क्षेत्र वि० वि० छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	48	एल के जैन	प्राचार्य	महिला पोलोटेक्नीक महाविद्यालय छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	49	अजय सिंह वर्मा	परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास परियोजना हरई	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	50	डी के मिश्रा	उपवनमंडलाधिकारी	पश्चिम उत्पादन वनमंडल छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	51	पी एल कोष्ठ	उप श्रमायुक्त केन्द्रीय	उप श्रमायुक्त केन्द्रीय छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	52	श्रीराम जायसवाल	अनुविभागीय अधिकारी	सालीढाना सर्वेक्षण, जल संसाधन विभाग छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	53	ए के जैन	सहायक शाखा प्रबंधक	महाप्रबंधक केन्द्रीय सहकारी बैंक मर्यादित छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	54	आर के सिंहा	सहायक आयुक्त	केन्द्रीय कोयला खान भविष्य निधि प्राविडेंड फण्ड डब्ल्यूसीएल छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	55	एन एल शंखले	कार्यपालन अभियंता	अधीक्षण यंत्री पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण लि० छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	56	सुनील कुमार वर्मा	वन परिक्षेत्र अधिकारी	पश्चिम सामान्य वनमंडल तामिया	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	57	एस के. एस तिवारी	संलग्न अधिकारी (एसीएफ)	वित्त विभाग छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	58	पी एन गौर	कार्यपालन यंत्री	जल संसाधन विभाग छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	59	डी एस मरकाम	जिला आपूर्ति अधिकारी	जिला आपूर्ति अधिकारी छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	60	जे सी मारको	विकासखण्ड अधिकारी	जनपद पंचायत परासिया	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	61	एस के महोबिया	सहायक प्रबंधक	महाप्रबंधक म० प्र० ग्रा० वि० प्रा० परि० क्रि० ४ छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
छिंदवाड़ा	62	जे पी शिव	उपसंचालक पशु चिकित्सालय	उपसंचालक पशु चिकित्सालय सेवाएं छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	63	अमीरचंद आस्के	वन परिक्षेत्र अधिकारी	पश्चिम सामान्य वनमंडल छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	64	विश्व प्रकाश चौधरी	सहायक यंत्री	परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	65	डी के बरडे	सहायक प्रबंधक	म०प०ग्रा०स०वि०प्रा० परि० क्रिया० ई-४ छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	66	लोकप्रिय भारती	सहायक वन संरक्षक	वन संरक्षक छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	67	सोमेश राठी	मैनेजर टेक्निकल	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	68	एन के बेलवंशी	अनुविभागीय अधिकारी	जल संसाधन विभाग छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	69	ई एस बघेल	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी चौरई	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	70	ईश्वर सिंह	सहायक संचालक	ग्राम एवं नगर निवेश छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	71	एस के चावला	कार्यपालन अभियंता	कार्य० अभि० सं० सं० म० प्र० पूर्व क्षे० अमरवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	72	अजय कुमार गुप्ता	कार्यपालन यंत्री	पंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्र; १ चौरई	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	73	एस के खरे	अधीक्षण यंत्री	जल संसाधन विभाग छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	74	एम के चौधरी	कार्यपालन यंत्री	अधीक्षण यंत्री पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण लि० छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	75	मोहन सिंह	कार्यपालन यंत्री	पंच परियोजना कैनाल संभाग छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	76	सुनील त्रिपाठी	सहायक अभियंता	पूर्व विद्युत वितरण कंपनी, छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	77	बी० के० कांकरिया	अनुविभागीय अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी वन अमरवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	78	दही एस अवस्थी	सलघन अधिकारी	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
छिंदवाड़ा	79	एस डी सावरकर	प्रमुख वैज्ञानिक	सह सहायक संचालक कृषि अनुसंधान केन्द्र चंदनगाव छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	80	रोहित कुमार शाह	प्राचार्य	शासकीय पॉलीटेक्निक महा० खिरसांडोह परासिया	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	81	बी पी पटेल	कार्यपालन अभियंता	भण्डार म० विधुत वितरण कम्पनी लि० पूर्व क्षेत्र छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	82	रणजीत झारिया	निरीक्षक	उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद-सीमाशुल्क, प्रोडक्शन टैक्स छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	83	एम के खरे	उपवनमंडलाधिकारी	पश्चिम उत्पादन वनमंडल सौंसर	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	84	एन ए लखनवी	वन परिक्षेत्र अधिकारी	पश्चिम वनमण्डल बटकाखापा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	85	पी एस गोखे	निरीक्षक	उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद-सीमाशुल्क, प्रोडक्शन टैक्स छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	86	आर डी प्रजापति	महाप्रबंधक	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	87	ए के महाले	वन परिक्षेत्र अधिकारी	कन्हान दार्िक्षण वनमंडल सौंसर	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	88	संजय शर्मा	प्रबंधक	म०प्र०स०वि० निगम छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	89	एम के नागवंशी	सहायक यंत्री	लोक निर्माण विभाग पीआईयू १२ छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	90	व्ही के साहू	सहायक यंत्री	अधीक्षण यंत्री	अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग छिंदवाड़ा	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	91	आर एस मेहता	महाप्रबंधक	म०प्र०शा०स०वि० प्रा० परि० क्रिया० ई-१ छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	92	सी एस राहंगडाले	अनुविभागीय अधिकारी	कार्यपालन यंत्री कार्यपालन यंत्री पी० डब्ल्यू० डी० संभाग क्र० १ छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	93	आर के सिंग	प्रभारी परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास परियोजना बिछुआ	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
छिंदवाड़ा	94	आलोक तिवारी	परियोजना प्रबंधक	कार्यपालन यंत्री कार्यपालन यंत्री आरईएस छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	95	सोहवीलाल धुर्वे	कार्यपालन यंत्री	कार्यपालन यंत्री कार्यपालन यंत्री आरईएस छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	96	प्रदीप उपासे	परियोजना अधिकारी	मनरेगा जिला पंचायत छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	97	एस एस मोकासदार	अनुविभागीय अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	98	मनीष पटेल	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	99	के एस राजपूत	वन परिक्षेत्र अधिकारी	वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्य आयोजन छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	100	के के अग्रवाल	सहायक प्रबंधक	परियोजना प्रबंधक मू० प्र० ग्रा० सडक विकास प्रा० परि० इ - 2 छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	101	जी ठोम्बरे	सहायक प्रबंधक	परियोजना प्रबंधक मू० प्र० ग्रा० सडक विकास प्रा० परि० इ - 2 छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	102	आर के पाठक	सहायक प्रबंधक	परियोजना प्रबंधक मू० प्र० ग्रा० सडक विकास प्रा० परि० इ - 2 छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	103	अविनाश रंजन दुबे	कार्यपालन अभियंता	म० प्र० पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	104	अमरनाथ राय	कार्यपालन अभियंता	कार्य० अभि० सं० सं० म० पूर्वि० सौर	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	105	ब्रजलाल सत्यार्थी	वन परिक्षेत्र अधिकारी	पश्चिम उत्पादन वनमंडल छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	106	एस एन पाटील	उपक्षेत्रीय अधिकारी	उपक्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	107	एम एल अग्रवाल	सहायक प्रबंधक	म०प्र०ग्रा०स०वि०प्रा० परि० क्रिया० इ-१ छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	108	एम के गुप्ता	सहायक प्रबंधक	म०प्र०ग्रा०स०वि०प्रा० परि० क्रिया० इ-१ छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
छिदवाड़ा	109	अभिषेख शुक्ला	पशु चिकित्सक सहायक शल्य	पशु चिकित्सा छिदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिदवाड़ा	110	एस के खण्डेलवाल	एसडीओ	लोक स्वास्थ्य यात्रिकीय विभाग छिदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिदवाड़ा	111	रामसेवक वर्मा	सहायक यंत्री	परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिदवाड़ा	112	बी के महाजन	सहायक अभियंता	म० प्र० पूर्व क्षेत्र विधुत वितरण कंपनी लिमिटेड	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिदवाड़ा	113	संजय कुमरे	सहायक यंत्री	लोक स्वास्थ्य यात्रिकीय खण्ड छिदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिदवाड़ा	114	संतोष कुमार वंश	परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास परियोजना परासिया	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिदवाड़ा	115	जे एस नंदा	कार्यपालन अभियंता	पूर्व विधुत वितरण कंपनी, छिदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिदवाड़ा	116	नीतिराज सिंह	परियोजना प्रशासक	भारिया विकास प्राधिकरण तामिया	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिदवाड़ा	117	टी० सी० सोलंकी	सहायक परियोजना अधिकारी	जिला पंचायत छिदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिदवाड़ा	118	आर एन सिंह परस्ते	परिक्षेत्र अधिकारी	पश्चिम वनमंडल जून्नारदेव	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिदवाड़ा	119	आर के रूगटा	महाप्रबंधक	ग्रामीण बैंक छिदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिदवाड़ा	120	हरप्रसाद	उपवनरक्षक	वानिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास केन्द्र पोआमा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिदवाड़ा	121	पी एन गढवाल	अनुविभागीय अधिकारी	ग्रामीण यात्रिकी सेवा छिदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिदवाड़ा	122	प्रशांत जैन	सहायक यंत्री	पंच व्यपवर्तन बांध संभाग चौरई	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिदवाड़ा	123	वीरदसिंह अवालिया	वन परिक्षेत्र अधिकारी	दक्षिण सामान्य वनमण्डल सौंसर	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिदवाड़ा	124	नरेंद्र प्रसाद मलगाम	सहायक यंत्री	पंच व्यपवर्तन बांध संभाग चौरई	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिदवाड़ा	125	खेमसिंग	उप-वनसरक्षक	वानिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास केन्द्र पोआमा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए



1	2	3	4	5	6	7
छिंदवाड़ा	126	एस सी नाग	सहायक यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	127	ए आर पाटील	सहायक यंत्री	परियोजना यंत्री लोक नि-वि पी आई यू -१२ छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	128	दीपक सोनी	निरीक्षक	अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क परासिया रोड आदर्श नगर छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	129	वही सी पंत	मैनेजर	भारतीय पोटाश लिमिटेड विवेकानंद कालोनी छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	130	एम आर मोर्य	पशु चिकित्सक सहायक शल्यज्ञ	पशु चिकित्सा छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	131	सुरेश कुमार पटले	सचिव	कृषि उपज मण्डी चौरई	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	132	के सी जैन	सहायक यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय उपखण्ड जुन्नारदेव	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	133	आर के रेडडी	वरिष्ठ वैज्ञानिक सह-संचालक	कृषि अनुसंधान केन्द्र छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	134	एन के सनोडिया	वनमंडलाधिकारी	पूर्व सामान्य वनमंडल छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	135	वही सी मेश्राम	उपवनमंडलाधिकारी	दक्षिण सामान्य वनमण्डल सौसर	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	136	आबिद खान	उपवनमंडलाधिकारी	पश्चिम वनमंडल परासिया	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	137	मुकेश बेले	सहायक महाप्रबंधक	म० प्र० सडक विकास प्राधिकरण छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	138	एम के जैन	सहायक यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय उपखण्ड परासिया	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	139	एम एल मालवीय	सहायक परियोजना अधिकारी	जिला पंचायत छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	140	एस सी बघेल	उपप्रबंधक	लघुवनोपज पश्चिम सामान्य वनमंडल छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	141	आर एस धुर्वे	उपप्रबंधक	दक्षिण वनमण्डल छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	142	के के धाडसे	अनुविभागीय अधिकारी	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	143	एस पी शर्मा	महाप्रबंधक	म० प्र० ग्रामीण बैंक छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
छिदवाड़ा	144	के सुरेश कुमार	महाप्रबंधक	सेंट्रल म० प्र० ग्रामीण बैंक छिदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिदवाड़ा	145	ए दही सोलंकी	निरीक्षक केन्द्रीय	सहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रोडक्शन टेक्स धरमटेकडी	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिदवाड़ा	146	एस एस चौहान	सहायक अभियंता	कार्यपालन अभियंता म० प्र० वि० वि० कंपनी पूर्व क्षेत्र छिदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिदवाड़ा	147	आर एस कुशवाह	सहायक वन संरक्षक	वनमंडलाधिकारी पूर्व सामान्य वनमंडल छिदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिदवाड़ा	148	अनादि बुधोलिया	वन परिक्षेत्र अधिकारी	पश्चिम सामान्य वनमंडल छिदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिदवाड़ा	149	बी बी शर्मा	अधीक्षक	अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क छिदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिदवाड़ा	150	मनोज सोलंकी	वन परिक्षेत्र अधिकारी	सिलेवानी रेंज दक्षिण वनमंडल छिदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिदवाड़ा	151	जे के मर्सकोले	सहायक यंत्री	अधीक्षक यंत्री जल संसाधन मण्डल छिदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिदवाड़ा	152	एस एल पाठेकर	वन परिक्षेत्र अधिकारी	पूर्व सामान्य वनमंडल छिदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिदवाड़ा	153	ए आर खान	सहायक यंत्री	अधीक्षक यंत्री जल संसाधन मण्डल छिदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिदवाड़ा	154	सुधीर कृष्क	जिला समन्वयक	टीएससी जिला पचायत छिदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिदवाड़ा	155	जे के यदुवंशी	अनुविभागीय अधिकारी	उपसंचालक कृषि उपज छिदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिदवाड़ा	156	विनाद कुमार श्रीवास्तव	सहायक यंत्री	परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिदवाड़ा	157	बी एल भलावी	सहायक परियोजना यंत्री	लोक निर्माण विभाग पीआईयू १२ छिदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिदवाड़ा	158	सेवकराम घोरमारे	सहायक यंत्री	अधीक्षक यंत्री जल संसाधन मण्डल छिदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिदवाड़ा	159	सुनील गडुबंडकर	अतिरिक्त सहायक तकनीकी अधिकारी	उर्जा विकास निगम छिदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिदवाड़ा	160	एस एस उददे	मण्डल प्रबंधक	वनविकास निगम छिदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
छिंदवाड़ा	161	राजकुमार भलावी	सहायक यंत्री	परियोजना नहर संभाग सिंगता तहसील चौरई	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	162	राजेन्द्र गाटे	अनुविभागीय अधिकारी	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	163	एम के नेमा	महाप्रबंधक	भूमि विकास बैंक छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	164	इंकारसिंह उइके	अनुविभागीय अधिकारी	जल संसाधन विभाग छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	165	आर के श्रीवास्तव	कार्यपालन अभियंता	कार्यपालन अभियंता सं० सं० स० म प्र० कंपनी पूर्व क्षेत्र पाटुर्णा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	166	जे टी दरवाईकर	वन परिक्षेत्र अधिकारी	पश्चिम उत्पादन वनमंडल सौंसर	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	167	ए० के० शर्मा	वन परिक्षेत्र अधिकारी	पश्चिम सामान्य वनमंडल अमरवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	168	उग्रसेन छजलाना	अनुविभागीय अधिकारी	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	169	आर बी चौरसिया	सहायक परियोजना प्रशासक	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना तामिया	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	170	प्रभाकर टेकाम	अनुविभागीय अधिकारी	जल संसाधन विभाग छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	171	आर पी सिंह	वरिष्ठ प्रबंधक	टेक्नी० प्राचार्य सुपरवाइजरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डब्ल्यूसीएल छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	172	जागेश्वर कवरेती	वन परिक्षेत्र अधिकारी	पूर्व सामान्य वनमंडल चौरई	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	173	नितिन कुमार निगम	वन परिक्षेत्र अधिकारी	वन परिक्षेत्र अधिकारी देलाखारी	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	174	बी के सनाइय	वन परिक्षेत्र अधिकारी	पूर्व सामान्य वनमंडल छिंदी	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	175	एस के वानखेडे	सहायक यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय उपखण्ड छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	176	जी डी बर्डे	वन परिक्षेत्र अधिकारी	दक्षिण सामान्य वनमंडल सौंसर	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	177	आर के पाण्डे	विभागाध्यक्ष	प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय खिरसाडोह परासिया	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
छिंदवाड़ा	178	प्रभात साहू	सहायक अभियंता	म० प्र० पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड सीसर	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	179	सुरेन्द्र पनासे	कार्यक्रम समन्वयक	जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय चंदनगांव	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	180	आर के एस कटियार	महाप्रबंधक	म० प्र० ग्रा० स० वि० प्रा० परि० क्रिया० ई-२ छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	181	वासुदेव बालपाण्डे	प्रबंधक	म० प्र० ग्रा० स० वि० निगम छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	182	टी के सोनोने	सहायक यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	183	सुधीर कुमार जैन	प्रबंधक	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	184	जे के नायक	अधीक्षक	सहायक आयुक्त केंद्रीय उत्पाद-सीमा शुल्क धरमटेकडी	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	185	प्रशांत कुमार सिंह	वनमंडल अधिकारी	दक्षिण सामान्य वनमण्डल छिंदवाड़ा	Second श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	186	पी के गुजर	सहायक यंत्री	पूर्व क्षेत्र वि० वि० क० लि० छिंदवाड़ा	सेकंड श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	187	पी पवार	सहायक प्रबंधक	मप्र ग्रा स वि प्रा परि क्रिया ई 3 छिंदवाड़ा	सेकंड श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	188	उमेश निरापुरे	सिविल सर्जन	उप संचालक पशु चिकित्सा सवाए छिंदवाड़ा	सेकंड श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
छिंदवाड़ा	189	एम एल विश्वकर्मा	अनुविभागीय अधिकारी	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	सेकंड श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	1	श्री एम एस चौहान	परियोजना संचालक	आत्मा कृषि बैतूल	क्लास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	2	श्री ओ पी लक्षकार	जिला प्रबंधक	नागरिक आपूर्ति निगम बैतूल	क्लास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	3	श्री के पी फोले	उप परियोजना	संचालक आत्मा	क्लास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	4	श्री एस के कोहले	अनुविभागीय अधिकारी	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बैतूल	क्लास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	5	श्री ए के परसाई	कार्यपालन यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बैतूल	क्लास 1	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	6	श्री आर के दिव्येदी	सहायक संचालक	उप परियोजना संचालक सहाक संचालक कृषि बैतूल	क्लास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	7	श्री आर जी वानखेड़े	अनुविभागीय अधिकारी कृषि	उप संचालक कृषि	क्लास 2	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
बेतूल	8	श्री खयालीराम पवार	प्रबंधक	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	9	श्री अशोक कुमार डहेरिया	कार्यपालन यंत्री	जल ससाधन संभाग मुलताई	कलास 1	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	10	श्री चिरांजी लाल मरकाम	सहायक यंत्री	जल ससाधन मुलताई	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	11	श्री हिमान्धु भट्ट	परियोजना अधिकारी	जिला शहरी विकास अभिकरण बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	12	श्री कमलेश सरिया	सहायक प्राध्यापक	शासकीय महाविद्यालय मुलताई	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	13	श्री धनराज कालभोर	सहायक प्राध्यापक	शासकीय महाविद्यालय मुलताई	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	14	श्री डी पी खाण्डेकर	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	नगर पालिका मुलताई	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	15	श्री सुबोध शर्मा	सहायक संचालक	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	16	श्री अशोक सिंह धुरैया	सहायक परियोजना अधिकारी	जिला पंचायत बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	17	श्री पून सिंह	सहायक यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मुलताई	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	18	श्री धनराज चौहान	सहायक प्रबंधक	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	19	श्री विनोद पटेल	पथु विस्तार अधिकारी	कार्यालय उप संचालक पथु चिकित्सा बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	20	श्री के एल उडके	वन परिक्षेत्र अधिकारी	वन परिक्षेत्र मुलताई	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	21	श्री लखनलाल राजत	सहायक प्राध्यापक	शासकीय महाविद्यालय, मुलताई	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	22	श्री एन आर राठौर	अनुविभागीय अधिकारी	लोक निर्माण विभाग मुलताई	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	23	श्री भीमराव बारस्कर	सहायक प्राध्यापक	शासकीय महाविद्यालय मुलताई	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	24	श्री हीराजी डोंगरे	सहायक प्रबंधक	जिला उद्योग केन्द्र	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	25	डॉ राजेश प्रसाद गिहारे	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी	कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी आठनेर	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	26	श्री आर के मालवीय	सहायक प्रबंधक	म प्र ग्राम सड़क विकास प्राधिकरण ईकाई 2 बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	27	श्री जी एम माझी	वन परिक्षेत्र अधिकारी	वन परिक्षेत्र अधिकारी आठनेर	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
बेतूल	28	श्री यजुवेन्द्र कोरी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभात पट्टन	जनपद पंचायत प्रभात पट्टन	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	29	श्री शिवराज नागले	परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास परियोजना प्रभात पट्टन	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	30	श्री जी एल लुधियानी	प्रबंधक वित्त	मध्यप्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	31	श्री मनोज कुमार तिवारी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत मुलताई	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	32	डॉ संजय जाधव	पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी	उपसंचालक पशु चिकित्सा बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	33	डॉ यशपाल चौहान	पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी	उपसंचालक पशु चिकित्सा बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	34	श्री गुलाबराव डोंगरे	सहायक प्राध्यापक	डॉ भीमराव अम्बेडकर शासकीय महाविद्यालय आमला	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	35	श्री बिसेन सिंह मौर्य	वन परिक्षेत्र अधिकारी	वन परिक्षेत्र अधिकारी सारनी	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	36	श्री राकेश बंसल	पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी बेतूल	उपसंचालक पशु चिकित्सा बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	37	डॉ हेमन्त कुमार वर्मा	सहायक प्राध्यापक	जयवन्ती हक्सर महाविद्यालय बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	38	डॉ सुखदेव डोंगरे	सहायक प्राध्यापक	जयवन्ती हक्सर महाविद्यालय बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	39	श्री महादेव वागद्रे	सहायक प्राध्यापक	जयवन्ती हक्सर महाविद्यालय बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	40	डॉ दयानन्द खासदेव	प्राध्यापक	जयवन्ती हक्सर महाविद्यालय बेतूल	कलास 1	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	41	डॉ धमेन्द्र कुमार	प्राध्यापक	जयवन्ती हक्सर महाविद्यालय बेतूल	कलास 1	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	42	डॉ राकेश कुमार तिवारी	प्राध्यापक	जयवन्ती हक्सर महाविद्यालय बेतूल	कलास 1	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	43	श्री के राजगोपाल अय्यर	सहायक भूजल विद	जिला भूजल सर्वेक्षण ईकाई 19 बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	44	श्री अरविन्द कपूर	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	नगर पालिका आमला	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	45	श्री जगदीश उईके	सहायक प्राध्यापक	भीमराव अम्बेडकर शासकीय महाविद्यालय आमला	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
बेतूल	46	डॉ कमलाकर देशमुख	पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी	कार्यालय उप-संचालक पशु चिकित्सा बैतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	47	श्री एम डी डहरवाल	प्रभारी अधिकारी	पंचायत प्रकोष्ठ जिला पंचायत बैतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	48	श्री पी बी गोखे	सहायक आयुक्त	कार्यालय सहायक पंजीयक अंकेक्षण बैतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	49	श्री राकेश त्रिवेदी	प्रभारी परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास परियोजना आमला	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	50	डॉ सी एस उबनारे	पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी	उपसंचालक पशु चिकित्सा बैतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	51	श्री एम के चौधरी	सहायक प्रबंधक	म प्र ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण ईकाई 2 बैतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	52	श्री जे एस भदौरिया	सहायक परियोजना अधिकारी	जिला पंचायत बैतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	53	श्री जे पी उच्चसरे	यहायक यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बैतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	54	श्री मन्तू मसराम	सहायक प्राध्यापक	शासकीय महाविद्यालय मुलताई	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	55	श्री एच सी वर्मा	प्राचार्य	पंचायत सचिव प्रशिक्षण केन्द्र मुलताई	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	56	डॉ डी के साहू	पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी आमला	उपसंचालक पशु चिकित्सा बैतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	57	श्री शिवशंकर रंजवार	सहायक यंत्री	जल संसाधन संभाग मुलताई	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	58	श्री आर के भट्ट	उप वन मण्डलाधिकारी आमला	वन विभाग बैतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	59	डॉ मलखान सिंह चौहान	सहायक प्राध्यापक	डॉ भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय आमला	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	60	श्रीमती सविता प्रधान	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	नगर पालिका परिषद सारनी	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	61	श्री रामांधार डेहरिया	प्राध्यापक	जयधन्ती हक्सर महाविद्यालय बैतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	62	श्री एन आर सविता	अनुविभागीय अधिकारी	कार्यालय उपसंचालक कृषि बैतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	63	श्री बालकराम साहू	परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास परियोजना ग्रामीण बैतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
बेतूल	64	श्री अमरजीत सिंह सलूजा	सहायक प्राध्यापक	जयवन्ती हक्सर महाविद्यालय बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	65	श्री अशोक कुमार कदवाने	सहायक प्राध्यापक	जयवन्ती हक्सर महाविद्यालय बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	66	डॉ विजय पाटिल	पशु चिकित्सा विज्ञान अधिकारी	उपसंचालक पशु चिकित्सा बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	67	श्री एल के शर्मा	सहायक परियोजना प्रबंधक	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	68	श्री बी.आर. खातरकर	सहायक प्राध्यापक	जयवन्ती हक्सर महावि. बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	69	श्री दलजीत सिंह सलूजा	सहायक प्राध्यापक	जयवन्ती हक्सर महावि. बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	70	श्री अनिल शर्मा	यहायक यंत्री	लोक निर्माण विभाग बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	71	श्री ओ.पी. खत्री	सहायक प्राध्यापक	जयवन्ती हक्सर महावि. बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	72	श्री अशोक मालवी	जिला पंजीयक	कार्यालय जिला पंजीयक बेतूल	कलास 1	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	73	श्री अरविन्द परिहार	सचिव	कृषि उपज मण्डी बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	74	डॉ ए.के. भादौरिया	प्राचार्य	पोलिटेक्निक बेतूल	कलास 1	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	75	श्री सलिल कुमार दुबे	सहायक प्राध्यापक	जयवन्ती हक्सर महावि. बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	76	श्री हेमन्त देशपाण्डे	सहायक प्राध्यापक	जयवन्ती हक्सर महावि. बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	77	श्री एम. राय	व्याख्याता	शासकीय पॉलिटेक्निक बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	78	श्री अरुण कुमार इंगले	सहायक संचालक	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	79	श्री सी.पी. सोनी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	80	श्री एम एल रेकवार	अनुविभागीय अधिकारी	जल संसाधन बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	81	श्री जे एम लालवानी	सहायक यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	82	श्री कमलसिंह यादव	प्राचार्य	कार्यालय सहायक भू सर्वेक्षण अधिकारी, बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	83	श्री एन एच भाकुनी	यहायक यंत्री	लोक स्वास्थ्य मैकेनिकल खण्ड बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	84	श्री आर के सिन्हा	सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी	उपसंचालक पशु चिकित्सा बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	85	श्री आर एन यादव	सहायक यंत्री	जल संसाधन संभाग बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	86	श्री पी खरे	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी बेतूल	कार्यालय भूमि संरक्षण बेतूल	कलास 1	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	87	श्री के एस कौशिक	कार्यपालन यंत्री	लोक निर्माण विभाग बेतूल	कलास 1	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	88	श्री होमदेव कावले	सहायक संचालक	उप संचालक कृषि बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए



1	2	3	4	5	6	7
बेतूल	89	श्री एम एस सिसोदिया	वन परिक्षेत्र अधिकारी गवासेन	कार्यालय वन मंडल बैतूल	क्लास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	90	श्री दिनेश कुमार मौर्य	वन परिक्षेत्र अधिकारी शाहपुर	कार्यालय वन मंडल बैतूल	क्लास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	91	श्री एम एस जैन	वन परिक्षेत्र अधिकारी चिचोली	वन मंडल बैतूल	क्लास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	92	श्री व्ही के पटेल	वन परिक्षेत्र अधिकारी रामपुर भतोडी	रामपुर भतोडी परियोजना बैतूल	क्लास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	93	श्री आर के शुक्ला	वन परिक्षेत्र अधिकारी	रामपुर भतोडी परियोजना बैतूल	क्लास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	94	श्री श्यामसिंह चौहान	वन परिक्षेत्र अधिकारी भौरा	वन मंडल बैतूल	क्लास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	95	श्री एस के जाटव	यहायक यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी शाहपुर	क्लास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	96	श्री एन के व्यास	उप सभागीय प्रबंधक	रामपुर भतोडी परियोजना बैतूल	क्लास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	97	डॉ एम गिरी	सहायक प्राध्यापक	शासकीय महावि० शाहपुर	क्लास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	98	डॉ एम डी बाघमारे	प्राचार्य	शासकीय महावि०	क्लास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	99	श्री के सी डहेरिया	वन परिक्षेत्र अधिकारी रामपुर भतोडी	रामपुर भतोडी परियोजना बैतूल	क्लास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	100	श्री के सी चौहान	वन परिक्षेत्र अधिकारी	रामपुर भतोडी परियोजना बैतूल	क्लास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	101	श्री डी के शर्मा	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी चिचोली	कार्यालय विकास खण्ड अधिकारी चिचोली	क्लास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	102	डॉ कमलेश डहेरिया	पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी	उपसंचालक विस्तार अधिकारी घोडाडोंगरी	क्लास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	103	श्री एम एस सोलंकी	उप वन मंडलाधिकारी, सारनी	कार्यालय वन मंडल बैतूल	क्लास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	104	श्री रामदयाल मसातकर	वन क्षेत्रपाल काष्ठागार भौरा	वन काष्ठागार भौरा	क्लास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	105	श्री बी आर तांडिया	प्राचार्य	आई टी आई बैतूल	क्लास 1	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	106	डॉ जी डी गुलबोके	उप संचालक	उपसंचालक पशु चिकित्सा बैतूल	क्लास 1	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	107	श्री मुकुन्द चन्देल	सहायक प्राध्यापक	जयवन्ती हक्सर महावि० बैतूल	क्लास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	108	श्री आर एस श्रीवास्तव	उप वन मण्डलाधिकारी	वन मंडल बैतूल	क्लास 2	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
बेतूल	109	श्री एस के पाटिल	संभागीय परियोजना यंत्री	लोक निर्माण विभाग परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	110	श्री जितेन्द्र हेमवानी	विभागाध्यक्ष	मैकेनिकल शासकीय पोलिटैक्निक, बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	111	श्री आर के चौर	उप वन मण्डलाधिकारी शाहपुर	वन मण्डल, बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	112	श्री सी एल पण्डित	सहायक प्रबंधक	मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकारी, ईकाई 1, बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	113	श्री अमित खन्ना	वन परिक्षेत्र अधिकारी रानीपुर	वन मंडल, बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	114	श्री पी सी नरवरिया	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत घोडाडांगरी	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	115	डॉ गोपाल प्रसाद साहू	सहायक प्राध्यापक	जयवंती हक्सर महावि०, बेतूल	कला 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	116	श्री एकनाथ निरापुर	सहायक प्राध्यापक	जयवंती हक्सर महावि०, बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	117	श्री एस एस गाडरिया	उप वन मण्डलाधिकारी	पश्चिम वन मण्डल, बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	118	श्री अशोक कुमार पासी	जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी	महिला एवं बाल विकास, बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	119	श्री जे आर प्रभाकर	वन परिक्षेत्र अधिकारी	पश्चिम वन मण्डल, बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	120	श्री एम के जामौर	वन परिक्षेत्र अधिकारी	पश्चिम वनमण्डल, बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	121	श्री महेन्द्र सल्लाम	सहायक प्राध्यापक	जयवंती हक्सर महावि०, बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	122	श्री शिशिर कुशवाहा	महाप्रबंधक	मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, ईकाई 1, बेतूल	कलास 1	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	123	श्री तारिक खान	सहायक महाप्रबंधक	मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, ईकाई 1, बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	124	डॉ हिरेश भलावी	पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी	उपसंचालक पशु चिकित्सा, बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	125	श्री जी एल रायकवार	परियोजना प्रशासक	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, भैंसदेही	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	126	श्री रामवीर सिंह राजपूत	सहायक भू संरक्षण अधिकारी भैंसदेही	कार्यालय भू संरक्षण, बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	127	श्री हरिसिंह	अनुविभागीय अधिकारी	लोक निर्माण विभाग, भैंसदेही	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
बेतूल	128	श्री ए के भार्गव	सहायक मत्स्य अधिकारी बेतूल	मत्स्य विभाग बेतूल	क्लास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	129	डॉ रमाकान्त जोशी	सहायक प्राध्यापक	जयवन्ती हक्सर महावि० बेतूल	क्लास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	130	श्री बी डी नागले	सहायक प्राध्यापक	जयवन्ती हक्सर महावि० बेतूल	क्लास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	131	श्री राजेश बघेल	सहायक प्राध्यापक	जयवन्ती हक्सर महावि० बेतूल	क्लास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	132	श्री रामगोपाल वर्मा	सहायक प्राध्यापक	जयवन्ती हक्सर महावि० बेतूल	क्लास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	133	श्री प्रमोद मिश्रा	प्राध्यापक	जयवन्ती हक्सर महावि० बेतूल	क्लास 1	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	134	श्री जितेन्द्र कुमार दवण्डे	सहायक प्राध्यापक	शासकीय महावि० भँसदेही	क्लास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	135	श्री जे पी पालीवाल	सहायक प्राध्यापक	जयवन्ती हक्सर महावि० बेतूल	क्लास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	136	डॉ चन्द्रशेखर त्रिपाठी	सहायक प्राध्यापक	जयवन्ती हक्सर महावि० बेतूल	क्लास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	137	श्री दौलतराम गेडाम	उपायुक्त	जिला पंजीयक सहकारी समिति बेतूल	क्लास 1	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	138	श्री विपिन वामनकर	अनुविभागीय अधिकारी	कार्यालय जल संसाधन भँसदेही	क्लास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	139	श्री बी सिंसोदिया	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत भँसदेही	क्लास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	140	श्री एस आर मण्डलोई	वन परिक्षेत्र अधिकारी	दक्षिण वन मण्डल बेतूल	क्लास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	141	श्री सिद्धार्थ दीपाशंकर	वन परिक्षेत्र अधिकारी	दक्षिण वनमण्डल बेतूल	क्लास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	142	श्री एच पी मालवीय	यहायक यंत्री	लोक स्वास्थ्य यात्रिकी भँसदेही	क्लास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	143	श्री बी के एस तोमर	उप संचालक	उप संचालक उद्द्यान बेतूल	क्लास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	144	श्री यू के गौर	सहायक यंत्री	ग्रामीण यात्रिकी सेवा बेतूल	क्लास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	145	डॉ एच जी एस पक्षवार	सिविल सर्जन	उपसंचालक पशु चिकित्सा बेतूल	क्लास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	146	श्री जे एस सिकरवार	महाप्रबंधक	मध्यप्रदेश ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण ईकाई 2 बेतूल	क्लास 1	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	147	श्री ए के मिश्रा	उप वन मंडलाधिकारी भँसदेही	दक्षिण वन मंडल सा; बेतूल	क्लास 2	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
बेतूल	148	श्री एल आर सैदाणे	श्रम पदाधिकारी बेतूल	श्रम विभाग बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	149	श्री अजय जैसवाल	जिला रोजगार अधिकारी बेतूल	जिला रोजगार कार्यालय बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	150	श्री राजेश शेषकर	सहायक प्राध्यापक	जयवन्ती हक्सर महावि० बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	151	श्री रितेश कुमार चौहान	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत भीमपुर	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	152	श्रीमती कृष्णा तोमर	परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास परियोजना बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	153	श्री देवेन्द्र पटले	निरीक्षक	खनिज कार्यालय बेतूल	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
बेतूल	154	श्री सुभाष पाटिल	अनुविभागीय अधिकारी	लोक निर्माण विभाग चिचोली	कलास 2	संपूर्ण जिले के लिए
हरदा	1	श्री विजय सिंह ठाकुर	सहायक यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
हरदा	2	श्रीमती जाकिया जावद	उपसंचालक	पंचायत एवं सामाजिक न्याय	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
हरदा	3	श्री राहुलदेव पाटिल	कर्मशाला अधीक्षक	शास पॉलिटैक्निक कालेज	प्रथम	संपूर्ण जिले के लिए
हरदा	4	श्री श्रीराम सहस्त्रबुददे	सहायक यंत्री	जल संसाधन विभाग	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
हरदा	5	श्री ए के गुप्ता	सहायक यंत्री	जल संसाधन विभाग	प्रथम	संपूर्ण जिले के लिए
हरदा	6	श्री अतुल गौर	व्याख्याता	शासकीय पॉलिटैक्निक कालेज हरदा	प्रथम	संपूर्ण जिले के लिए
हरदा	7	श्री विजय निगवाल	व्याख्याता	शास पॉलिटैक्निक कालेज हरदा	प्रथम	संपूर्ण जिले के लिए
हरदा	8	श्री दीपक काटकर	कार्यपालन यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा हरदा	प्रथम	संपूर्ण जिले के लिए
हरदा	9	श्री छतरसिंह चौहान	व्याख्याता	शास पॉलिटैक्निक कालेज हरदा	प्रथम	संपूर्ण जिले के लिए
हरदा	10	श्री पी सी पटेल	परियोजना अधिकारी आत्मा	कार्यालय परियोजना संचालक किसान कल्याण कृषि विभाग हरदा	प्रथम	संपूर्ण जिले के लिए
हरदा	11	डॉ ए एस बघेल	सहायक प्राध्यापक	शासकीय कलां एवं वाणिज्य महाविद्यालय हरदा	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
हरदा	12	श्री बाबुराव लोखंडे	उपसंचालक	कृषि विभाग हरदा	प्रथम	संपूर्ण जिले के लिए
हरदा	13	डॉ आर सी शर्मा	कार्यक्रम समन्वयक	कृषि विकास केन्द्र हरदा	प्रथम	संपूर्ण जिले के लिए
हरदा	14	डॉ प्रकाश काशिव	प्राध्यापक	शासकीय स्नातक महाविद्यालय टिमरनी	प्रथम	संपूर्ण जिले के लिए
हरदा	15	श्री गेंदलाल माण्डवे	उप परियोजना संचालक आत्मा	कार्यालय परियोजना संचालक किसान कल्याण कृषि विभाग हरदा	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए

1	2	3	4	5	6	7
हरदा	16	श्री बी एस भट्ट	सहायक प्रबंधक	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हरदा	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
हरदा	17	श्री एस एस तेकाम	अनुविभागीय अधिकारी	जल संसाधन विभाग टिम्रनी	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
हरदा	18	डॉ कांता देशमुख	परियोजना अधिकारी	महिला एवं बाल विकास खिरकिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
हरदा	19	श्री अंजल दोहरे	सहायक यंत्री	जल संसाधन विभाग टिम्रनी	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
हरदा	20	श्रीमति अर्चना दीक्षित	जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी हरदा	हरदा	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
हरदा	21	श्री अमरेश नायडू	जिला पंजीयक	पंजीयक कार्यालय हरदा	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
हरदा	22	श्री आर एन चोलकर	सहायक यंत्री	जल संसाधन विभाग	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
हरदा	23	श्री व्ही पी अहिरवाल	सहायक यंत्री	जल संसाधन विभाग	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
हरदा	24	श्री देवीसिंह वर्मा	सहायक संचालक	कृषि विभाग हरदा	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
हरदा	25	श्री रतनलाल प्रजापति	कार्यपालन यंत्री	जल संसाधन विभाग टिम्रनी	प्रथम	संपूर्ण जिले के लिए
हरदा	26	श्री जयशिव उपरीत	विभागध्यक्ष विधुत	शास पॉलिटेक्निक कालेज	प्रथम	संपूर्ण जिले के लिए
हरदा	27	श्रीमति भावना दुबे	जिला शिक्षा अधिकारी	शिक्षा विभाग हरदा	प्रथम	संपूर्ण जिले के लिए
हरदा	28	श्री एस एन सोलंकी	उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग खिरकिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
हरदा	29	श्री मनमीत मण्डराई	सहायक यंत्री	जल संसाधन विभाग टिम्रनी	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
हरदा	30	श्री व्ही के बिछोतिया	लायब्रियरियन	शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय हरदा	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
हरदा	31	श्री लक्ष्मण सिंह सिलोटे	जिला रोजगार अधिकारी	जिला रोजगार कार्यालय हरदा	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
हरदा	32	श्री सुरेश बैडे	सहायक यंत्री	जल संसाधन विभाग हरदा	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
हरदा	33	श्री एम एस चौहान	उपवनमंडलाधिकारी	वन मंडल उत्पादन दक्षिण हरदा	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
हरदा	34	श्री आर एस ठाकुर	उपवनमंडलाधिकारी	वन मंडल सामान्य उत्तर हरदा	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
हरदा	35	डॉ जैनेन्द्र कुमार जैन	सहायक प्राध्यापक	शासकीय स्नातक महाविद्यालय टिम्रनी	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
हरदा	36	श्री जी पी सोनी	उपवनमंडलाधिकारी	वन मंडल सामान्य उत्तर हरदा	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
हरदा	37	श्री संजीवकुमार पतें	वाणिज्य कर अधिकारी	जिला वाणिज्य कर विभाग हरदा	प्रथम	संपूर्ण जिले के लिए
हरदा	38	श्री एच एस चौहान	सहायक यंत्री	जल संसाधन विभाग हरदा	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए